



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1780]
No. 1780]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2009/कार्तिक 8, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2009/KARTIKA 8, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2748(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1811(अ), तारीख 23 जुलाई, 2009 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 18/700 कि.मी. से 52/481 कि.मी. (जयपुर-टोंक-देवली सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 3 सितम्बर, 2009 को "दैनिक बढ़ते कदम" और "खबरों की दुनिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगनों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 18/700 कि.मी. से 52/481 कि.मी. (जयपुर – टोक – देवली सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जयपुर	1. सांगानेर	(1) सुखदेवपुरा उर्फ नाटाणीवाला	11	निजी	आवासीय	0.0952	रामशरण पुत्र मोतीलाल हि0 33/47, ऐश्वर्य कुमार पुत्र रमेश चन्द, मीरा देवी पति रमेश चन्द धनोपिया हि. 14/47 दर हि. 25/53 जाति छीपा, मेसर्स नारायण हारासल्ट बी-14 हीरा नगर शिप्रा पथ कॉर्नर गोपालपुरा बाईपास जयपुर हि. 28/53
				11/87	निजी	चाही 3	0.0300	मेसर्स नारायण हारासल्ट बी-14 हीरा नगर शिप्रा पथ कॉर्नर गोपालपुरा बाईपास जयपुर
				12	निजी	व्यवसायिक	0.1100	मेसर्स नारायण हारासल्ट बी-14 हीरा नगर शिप्रा पथ कॉर्नर गोपालपुरा बाईपास जयपुर हि. 8760/9200, ऐश्वर्य पु. रमेशचन्द छीपा सांगानेर हि. 87/9200 त्रिलोक सिंह पु. प्रेमसिंह साहनी सिक्ख 179/9200 दर्शनसिंह पु. प्रेमसिंह कोम सिक्ख हि. 174/9200 न्यू दिल्ली
				19	निजी	बासनी	0.0050	मुन्नी देवी पति राजेन्द्र कुमार, सतोष गुप्ता पति रामोतार,
				20	निजी	बासनी	0.0300	ममता पति रामवतार जाति महाजन जयपुर
				24	निजी	गै.मु. फैक्ट्री	0.0160	माणक चन्द बोहरा पुत्र दान मल बोहरा
				22	निजी	चाही	0.0300	माणक चन्द बोहरा पुत्र दान मल बोहरा एच0 यू0 एफ0 नि0 टेल व पशु आहार उद्योग हि0 18/125, रजनीश एम बोहरा पुत्र माणक चन्द बोहरा, रजनीश सेल्स स्टेशन रोड जयपुर हिस्सा 31/250, पूर्णा देवी पत्नी श्री जवाहरलाल सक्सेना, रजनीश सेल्स स्टेशन रोड जयपुर हि0 29/50, प्रेम देवी पत्नी छोटेलाल जाति ब्राह्मण हि0 38/50 साकिन आसावाला
			(2) मिश्र का बाढ़ (मुरलीपुरा)	26	निजी	चाही 2	0.0300	केशर पति नाथुराम जाट हि. 37/1100 लल्लूलाल बाबूलाल शंयोजीलाल पि. प्रताप हि. 3/40 कमला नाथी पुत्रिया प्रताप हि0 1/20 जाति ब्राह्मण, हरिओम पु. नन्दलाल जाति मीणा हि. 3/8 दर हि. 1063/2200 रामनाथ पु. हरबक्ष मीणा हि. 252/2200 हरिओम पुत्र नन्दलाल हि. 552/2200, श्रीमती धापा देवी पत्नी श्रवण नाथूलाल पुत्र श्रवण, मन्ना देवी व विमला पुत्रिया श्रवण जाति जागिड साकिन श्रीरामकी नांगल हि0 259/2200
				27	निजी	बासनी 2	0.0100	पौंचू लाल, लाला राम, कैलाश चन्द पुत्र मूलचन्द ब्राह्मण
				28	निजी	बासनी 2	0.0100	
				29	निजी	बासनी 2	0.0100	
				30	निजी	चाही 2	0.0420	
				38	निजी	गै.मु.	0.0100	
				39	निजी	चाही 2	0.0400	
				40	निजी	पर्यटन उद्योग	0.0800	मेसर्स के. बी. रिकनिश एण्ड ट्यूरिस्ट सेन्टर प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 3 व 42 जवाहर नगर जयपुर
				41	निजी		0.0400	
				44	निजी		0.0200	
				44/115	निजी	चाही 2	0.0224	मेसर्स एबीसी फिन्ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय पारस भवन इन्दिरा का रास्ता जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				44/116	निजी	चाही 2	0.0224	गुल्ला पुत्र छोटी लाल मीणा साकिन बड़ी का बास हि० 167/2300, घनश्याम पुत्र जगदीश मीणा हि. 37/2300 कानाराम पु. छोगराम यादव हि. 93/1150 भवरलाल पु. श्रीनारायण हि. 9/1150, रामप्रसाद पु. मोराराम यादव हि. 37/2300, कन्हैयालाल पु. बदीनारायण हि. 1548/2300, बनवारीलाल पु. मनोहर लाल मीणा हि. 307/2300
				46/112	निजी	गै.मु. चाह	0.0300	लक्ष्मीनारायण, बदीनारायण पि. जगन्नाथ हरियाणा ब्राह्मण
				45	निजी	बारानी 2	0.0800	राधाशरण, कन्हैयालाल पुत्र बदीनारायण, नानगी बेवा बदीनारायण ब्राह्मण
				65	निजी	व्यवसायिक	0.1120	गुलराज वासवानी पुत्र मोहनलाल वासवानी, प्रमोटर रिजिड
				56	निजी	व्यवसायिक	0.0672	ग्रुप ऑफ होटल प्रा० लि० जयपुर, नि० 2 व 91, जवाहर नगर जयपुर
				55	निजी	चाही 2	0.0200	गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, सीताराम, रामफूल, हनुमान पुत्र प्रभूनारायण, मु. नानगी बेवा प्रभूनारायण ब्राह्मण
				52	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.0312	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				51	निजी	बारानी 2	0.0050	
				50	निजी	बारानी 2	0.0100	रामकरण पुत्र परमा माली हि. 1/3 लालाराम कैलाश पि.
				49	निजी	चाही 1	0.0144	मूलचन्द हि० 1/3 पांचूलाल पु. मूलचन्द हि. 1/3 ब्राह्मण
				47	निजी	बारानी 2	0.0208	राधेश्याम पुत्र लादूराम महाजन
				47/106	निजी	बारानी 2	0.0050	बोखेलाल पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण
		(3) बड़ी का बास	6	निजी	औद्योगिक प्रायोजनार्थ		0.0500	रीको लि०, जयपुर, (सीतापुरा)
				72	सरकारी	गै. मु. सड़क	0.0100	
				139	सरकारी	गै. मु. सड़क	0.0200	सार्वजनिक निर्माण विभाग।
				7	निजी	चाही 2	0.0050	शंकरलाल पुत्र पांचूलाल, चन्दी बेवा पांचूलाल हि० 1/16 लक्ष्मीनारायण, मंगलराम, ग्यारसा 1/4 मु. बोधी बेवा सुन्दरलाल, रामेश्वर पु. सुन्दरलाल 1/16, रामजीलाल पु. गोपीलाल हि. 1/20, नैनु चन्दा बिस्वा पि. नारायण हि. 1/5, गोविन्दा पु. भगवान 1/8, भवरलाल जगदीश, गुल्ला भगवानसहाय, हनुमानसहाय, शिवराम, बाबू पि. छोदूलाल मु. बिरजी बेवा छोदू लाल 1/8 गणेश बिस्वा कालू पि. भोमा 164/1400, नेतराम, बनवारीलाल, बाबूलाल पि. मनोहर लाल मीणा हि. 186/1400
				74	निजी	चाही 3 जाब 3	0.0050	
				128	निजी	बारानी 1	0.0100	
				213	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0700	बदीलाल पुत्र नारायण 1/3 शंकर, गोपाल, जयनारायण पि०
				223	निजी	गै. मु. रास्ता	0.0200	रामनाथ भूरी बेवा रामनाथ 1/3, प्रभाती बेवा किशना
				224	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0800	बिस्वीचन्द कालू राम पि. किशना 1/3 मीणा
				75	निजी	बारानी 1	0.0100	कन्हैयालाल, बाबूलाल पि० गणेश, हि० 1/12, बिस्वा, कालू पि० भोमा हि० 1/8 लक्ष्मीनारायण मंगलराम पि. ग्यारसा हि. 1/4 चन्दी बेवा पांचूलाल, शंकरलाल पि. पांचूलाल हि. 1/16, बोधी बेवा सुन्दरलाल, रामेश्वर पुत्र सुन्दरलाल हि० 1/16, रामजीलाल पुत्र गोपीलाल हि० 1/20, नाथू, बिरदा पुत्र नारायण हि० 1/10, रामोत्तार पुत्र नहनू, पारा देवी प्रत नहनू हि० 1/20, प्रह्लाद पुत्र चन्दा, लाली पत्नी चन्दा हि. 1/30, सुमन मंजू रिक् पुत्रिया सीताराम, फुर्ता पत्नी सीताराम हि० 1/60,
				77	निजी	बारानी 1	0.0100	
				78	निजी	बारानी 1	0.0050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				79	मिजी	बारानी 1	0.0050	घासीलाल, फुलचन्द पुत्र गोविन्द हि 1/8, भौरीलाल, जगदीश, गुल्ला, भगवान सहाय, हनुमान सहाय, शिवराम रामबाबू पुत्र छोटलाल, मु० बरजी पत्नी छोटलाल हि 1/8 कौम मीणा।
				80	मिजी	बारानी 1	0.0050	शकर, रामधन पुत्र नानगराम, मोती पत्नी नानगराम हि 1/12, जयना देवी पत्नी चन्दरलाल हि 1/12, पूरा पुत्र छोट हि 1/12, जयनारायण, अर्जुन लाल पुत्र विजयलाल, शकर पुत्र विजयलाल ना० बा० संरक्षक माता रुपादेवी, रुपादेवी पत्नी विजय लाल हि 1/12, लाला, कल्याण, भगवान, रामलाल, रामनारायण पि० रामचन्द, हि 1/12, पांचू पुत्र मंगला हि 1/12 प्रभू, रामफूल पि भौरीलाल हि 1/12 जगदीश, प्रताप होरलाल रामनारायण, रामप्रसाद जगन्नाथ हि 1/8 रामफूल पु भूरा हि 1/4 रामसहाय गोपाल बाबूलाल पि नानग मीणा हि 1/12
				81	मिजी	बारानी 1	0.0050	
				82	मिजी	बारानी 1	0.0050	
				83	मिजी	बारानी 1	0.0050	
				138	मिजी	बारानी 2	0.0800	
				140	मिजी	गै मु रास्ता	0.0100	
				142	मिजी	गै मु आबादी	0.0900	
				143	मिजी	गै मु चाह	0.0050	
				171	मिजी	चाही 3 जाब 3	0.0900	
				172	मिजी	बारानी 2	0.0300	क हैयलाल, बाबूलाल पि० गणेश, हि 1/12, बिरधा, कालू पि० भोगा हि 1/6 लक्ष्मीनारायण, मंगलाराम पि० ग्यारसा हि 1/4, मु, चन्दी देवा पांचूलाल हि 1/16 मु चौधी देवा सुन्दरलाल, रामेश्वर पि सुन्दरलाल हि 1/16 रामजीलाल गोपीलाल हि 1/20 माधू बिरधा पि नारायण हि 7/10 रामवतार पु नेनू, पारादेवी देवा नेनू हि 1/20 प्रहलाद पुत्र चन्दा, लाली देवा चन्दा, सुमन, मंजू, रिकू पुत्रिया सीताराम ना० बा० संरक्षक कुली, फूली देवा सीताराम, घासीलाल, फूलचन्द पि गोविन्द 1/8 भौरीलाल जगदीश गुल्ला, भगवानसहाय, हनुमानसहाय शिवराम, रामबाबू पि छोट मु मिश्री देवा छोट हि 1/8 मीणा
				173	मिजी	चाही 3 जाब 3	0.0500	
				174	मिजी	बारानी 1	0.0200	
				175	मिजी	बारानी 1	0.1700	शकर, रामधन पुत्र नानगराम, मोती पत्नी नानगराम हि 1/12, जयना देवी पत्नी चन्दरलाल हि 1/12, पूरा पुत्र छोट हि 1/12, जयनारायण, अर्जुन लाल पुत्र विजयलाल, लाला पुत्र विजयलाल ना० बा० संरक्षक माता रुपादेवी, रुपादेवी पत्नी विजय लाल हि 1/12, लाला, कल्याण, भगवान, रामलाल, रामनारायण पि० रामचन्द, हि 1/12, पांचू पुत्र मंगला हि 1/12 प्रभू, रामफूल पि भौरीलाल हि 1/12 जगदीश, प्रताप होरलाल रामनारायण, रामप्रसाद जगन्नाथ हि 1/8 रामफूल पु भूरा हि 1/4 रामसहाय गोपाल बाबूलाल पि नानग मीणा हि 1/12
				119	मिजी	बारानी 1	0.0050	शकर, भगवान, कालूराम, छागूराम, मोतीलाल, गैन्दीलाल, मूलतन्त्र पि० मंगला मीणा।
				122	मिजी	बारानी 1	0.0100	
				125	मिजी	बारानी 1	0.0050	
				126	मिजी	बारानी 1	0.0050	
				127	मिजी	बारानी 1	0.0100	रुक्मा देवी देवा घासीलाल मीणा
				135	मिजी	बारानी 1	0.0500	वैद्यराम पुत्र सुरजमल बाबा सा० चाकरू।
				257	मिजी	चाही 2 जाब 2	0.0800	जानराम, नैमूराम, बिरधीचन्द, जगदीश, गोपाल, रामकरण पि० रामनारायण मीणा।
				257/495	मिजी	चाही 2 जाब 2	0.0800	
				257/496	मिजी	जाब 2	0.0600	
				120	मिजी	बारानी 1	0.0100	रामनारायण पुत्र सुन्हा जर्जित मोना सा देह खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				137	निजी	बारानी 2	0.0400	कन्हैयालाल, बाबूलाल पि० गणेश हि० 1/12, बिस्वा, कालू पि० भोमा हि० 1/6 लक्ष्मीनारायण, मंगलाराम पि० ग्यारसा हि० 1/4, मु. चन्दी बेवा पांचूलाल हि. 1/16 मु. चौथी बेवा सुन्दरलाल, रामेश्वर पि. सुन्दरलाल हि. 1/16 रामजीलाल, गोपीलाल हि. 1/20 नाथू बिस्वा पि. नारायण हि. 7/10 रामवतार पु. नेनू पारादेवी बेवा नेनू हि. 1/20 प्रहलाद पुत्र चन्दा, लाली बेवा चन्दा, सुमन, मजू, रिकू पुत्रिया सीताराम ना.बा. संरक्षक फूली, फूली बेवा सीताराम, धासीलाल, फूलचन्द पि. गोविन्दा 1/8 भोरीलाल जगदीश गल्ला, भगवानसहाय, हनुमानसहाय, शिवराम, रामबाबू पि. छोदू मु. मिश्री बेवा छोदू हि. 1/8 मीणा
				176	निजी	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0400	कालीवरण पुत्र कल्याण सहाय सैनी, सांगानेर।
				227	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0300	शंकर, भगवान, कालूराम, छोदूराम, मोतीलाल, गैन्दीलाल, मूलचन्द पि० मंगला मीणा।
				228	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0200	
				226	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0300	
				225	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0100	श्यामनारायण पि० सून्डा मीणा।
				177	निजी	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0600	विमलादेवी पत्नि कल्याण सहाय सैनी, माली, सांगानेर।
				210	निजी	गै. मु. तिबारी	0.0100	भैरू पुत्र नाथ्या चमार।
				212	निजी	बारानी 1	0.0700	बदीलाल पुत्र नारायण, हि० 1/18, शंकर गोपाल, जयनारायण पि० रामनाथ हि० 1/18, प्रभाती बेवा किशना बिस्वीचन्द कालूराम पि. किशना श्यामनारायण सुन्दर ग्यारसीलाल पु. रघुनाथ, मंगल्य पु. रामप्रताप हि. 1/2 मीणा।
				209	निजी	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0400	श्यामनारायण पुत्र सून्डा मीणा।
				255	निजी	बारानी 1	0.1000	जगदीश पुत्र बिस्वीचन्द मीणा।
			(4) बिलवा बुजर्ग	1128	निजी	बारानी 3	0.2200	हरीनारायण पुत्र कल्याण मीणा सी-65, साकेत कॉलोनी, जयपुर।
				1127	निजी	बारानी 3	0.1200	पूरुणगिरी प्रोपर्टीज प्रा० लि०, सी-66 साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर निदेशक राजेश कुमार पुत्र नाथूलाल विजय महाजन।
				1130	निजी	बारानी 3	0.2800	
				969	निजी	गै. मु. रास्ता	0.0300	श्रीनाथ नर्सरी, बिलवा पार्टनर राकेश कुमार विजय पुत्र नाथूलाल विजय महाजन म. नं० सी-66, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर।
				924	निजी	गै. मु. रास्ता	0.0200	
				925	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0900	मुन्नी देवी पत्नि राकेश कुमार महाजन, निवासी सी-66, आदर्श नगर, जयपुर।
				968	निजी	चाही 2	0.2400	
				923	निजी	बारानी 2	0.3400	कम्फर्ट फार्मस प्रा० लि०, डायरेक्टर राकेश कुमार, विजय पुत्र नाथूलाल विजय, सी-66, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर।
				908	निजी	बारानी 2	0.0200	गिरीराज प्रसाद मनहार पुत्र गोपी चन्द मनहार माहेश्वरी वगै० गणगौरी बाजार, जयपुर।
				909	निजी	चाही ए	0.0700	
				910	निजी	चाही ए	0.0500	रामेश्वर रामरतन पि० भोरीलाल हि० 1/2 कन्हैयालाल पुत्र ग्यारसा 1/2 वगै० ब्राह्मण
				915	निजी	चाही ए	0.1400	
				916	निजी	चाही ए	0.0700	
				907	निजी	बारानी 2	0.1100	मैसर्स सिलवर लैंक रिसोर्टस प्रा० लि०, जरिये डॉयरेक्टर बी. पी. जी. पन्नीकर पुत्र स्वगीय के. पी. पन्नीकर निवासी-5 मित्र नगर, रामनगर, सोडाला, जयपुर।
				905	निजी	बारानी 2	0.0600	
				906	निजी	बारानी 2	0.0500	हरीनारायण, कन्हैयालाल पि कल्याण हि० 2/3 वगै० कुम्हार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				904	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0300	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
				829	सरकारी	बारानी 2	0.0600	सिवायकफ
				529	मि.जे.	गै. मु. पेट्रोल पम्प	0.0400	पेट्रोलपम्प
				823	मि.जे.	बारानी 1	0.0300	प्रभाती बेवा प्रताप, जगदीश, राधेश्याम, मदनलाल पि० प्रताप 1/8 वर्ग० ब्राह्मण
				612	मि.जे.	चाही 1	0.0400	सुवा पुत्र बालू 1/2, मेखा बेवा काना 1/2 बागडा ब्राह्मण
				618	मि.जे.	चाही 1	0.0400	
				620	मि.जे.	चाही 1	0.0100	
				621	मि.जे.	बंजड 1	0.0400	
				601	मि.जे.	चाही 1	0.0700	पुरुषोत्तमदास पुत्र भागीरथ, राधेश्याम पुत्र पुरुषोत्तम महाजन, सा० देह जयपुर।
				609	मि.जे.	जाब 1	0.0100	पुरुषोत्तमदास पुत्र भागीरथ, राधेश्याम पुत्र पुरुषोत्तम महाजन, जयपुर।
				610	मि.जे.	जाब 1	0.0300	
				611	मि.जे.	जाब 1	0.0100	
				599	मि.जे.	बारानी 1	0.0100	मांगीलाल पुत्र गुल्ला 1/2 जीवणो बेवा गुल्ला 1/2 बागडा ब्राह्मण सा० देह
				600	मि.जे.	बारानी 1	0.0900	
				597/2239	मि.जे.	चाही 2	0.0100	रूपनारायण, हनुमान पि० हरीनारायण, ब्राह्मण
				378	मि.जे.	बारानी 1	0.0100	
				376/2053	मि.जे.	बारानी 1	0.0500	
				377	मि.जे.	बारानी 1	0.0300	
				384	मि.जे.	चाही 3 जाब 3	0.0300	
				598	मि.जे.	बारानी 1	0.0500	भीमराज पुत्र शिवदास जाति खत्री सा० सागानेर।
				533	मि.जे.	बारानी 1	0.0200	सरजू बेवा गयी, नाथूलाल पुत्र गोपी हि० 1/48 रामसहाय बंदी बिरथो बन्द पिता कल्याण हि० 1/16 रामनारायण गणपाल जगदीश पिता श्यामाथ हि० 1/12 मांगीलाल पुत्र गुल्ला हि० 1/6, भीरीलाल प्रभू शंकर पिता बोंदू लाला पुत्र गोपाल हि० 1/6 हरिनारायण पुत्र रामनाथ हि० 1/2 जाति बागडा ब्राह्मण
				532	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0100	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
				527	मि.जे.	बारानी 1	0.0500	प्रदीप कुमार पुत्र शिवचरण माधुर कायस्थ ए-87, श्यामनगर, जयपुर।
				530	मि.जे.	बारानी 2	0.0100	
				493	सरकारी	गै. मु. चाह	0.0200	महाकला इन्जिनियरिंग नहर
				487	मि.जे.	चाही 3 जाब 3	0.0400	जी. रतन सिंघवी, एच. यु. एफ. कर्ता खानदान पुत्र मदनसिंह सिंघवी, न्यू राजनंद नगर, प्लॉट 489, नई दिल्ली।
				489	मि.जे.	चाही 3 जाब 3	0.0600	
				490	मि.जे.	चाही 3 जाब 3	0.0500	
				491	मि.जे.	चाही 3 जाब 3	0.0300	
				385	मि.जे.	बारानी 2	0.0700	रूपनारायण हनुमान पि० हरिनारायण हि० 17/30 सरजू बेवा गोपी नाथ पुत्र गोपी हि० 1/60, रामसहाय बंदी बिरथो बन्द पिता कल्याण हि० 1/20, भीरीलाल प्रभू पि० बोंदू लाला पुत्र गोपाल हि० 8/30, हनुमान सहाय पुत्र हरिनारायण हि० 3/30 जाति ब्राह्मण
				395	मि.जे.	बारानी 2	0.0600	श्रीमती रामशर्मा बाई पति मांगीलाल, पुष्पादेवी पति गिरीराज प्रसाद, विजयलक्ष्मी पति द्वारकादास सोढाणी महाजन
				387	मि.जे.	बारानी 2	0.0300	रामजीवन पुत्र मांगल जाति वमार।
				393	मि.जे.	बारानी 2	0.0300	नाथूलाल पुत्र ग्यारसीलाल, रामप्रताप पुत्र श्योला वर्ग० बैरवा।
				394	मि.जे.	बारानी 2	0.0200	
				395/2040	मि.जे.	बारानी 2	0.0700	गोविन्द नारायण, नारायण लाल पि० रुधनाथ बैरवा
				10	सरकारी	गै. मु.	0.0400	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
				13	सरकारी	गै. मु.	0.0800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11	निजी, सरकारी	बारानी 2	0.0700	जयपुर विकास प्राधिकरण 1/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री गणेश, 1/4 गंगादेवी पत्नि रामचन्द्र 1/4 मीणा
				12	निजी, सरकारी	बारानी 2	0.0800	
				374	निजी	बारानी 2	0.1700	रामजीवन पुत्र भागला
				373	निजी	खात्तीली 1	0.0600	मै0 अजमेरा एण्ड सन्स (एच. यू. एफ.) जमनादास अजमेरा पुत्र गणेशनारायण अजमेरा हि0 1/3 आरती पत्नी विनोद विजयवर्गीय हि0 2/3
				339	निजी	खात्तीली 1	0.0600	
				336	निजी	खात्तीली 1	0.0200	विनोदकुमार पुत्र मदनलाल विजयवर्गीय महाजन
				337	निजी	बारानी 2	0.0200	
				333	निजी	खात्तीली 1	0.0300	भवरी देवी पत्नि मदनलाल विजयवर्गीय, जनता कॉलोनी, जयपुर।
				334	निजी	खात्तीली 1	0.0200	
				312	सरकारी	गे.मु. नहर	0.0200	महकमा इजिनियरिंग नहर
				1132	निजी	चाही 2	0.1200	
				1136	निजी	चाही 2	0.0300	
				1137	निजी	चाही 2	0.0300	जगदीश पुत्र भौरीलाल जाति हरि. ब्राह्मण
				1176	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0700	
				1177	निजी	चाही 2	0.0200	जगदीश, हरीनारायण, चौधमल, शंकरलाल, हनुमान पि0 भौरीलाल, ब्राह्मण
				1182	निजी	गे.मु.रास्ता	0.0100	
				1183	निजी	चाही 1	0.0700	पुरुषोत्तमदास पुत्र भागीरथ, राधेश्याम पुत्र पुरुषोत्तम महाजन, सा0 जयपुर।
				1184	निजी	जाब 1	0.0700	
				1185	सरकारी	गे. मु. आबादी	0.0500	सिवायचक
				1210	सरकारी	गे. मु. आबादी	0.1300	
				1214	निजी	बारानी 1	0.0700	ओमप्रकाश, छोटेलाल, त्रिलोकचन्द, शंकरलाल पुत्र श्रवण, 1/2 सीताराम पुत्र हनुमान हि0 1/8, बिरदी चन्द पुत्र जगननाथ हि0 1/8, गोविन्दा पुत्र श्योनारायण हि0 1/4 जाति मीणा
				1215	निजी	बारानी 1	0.0300	
				1216	निजी	बारानी 2	0.1000	
				1217/2044	निजी	बारानी 2	0.1100	रामेश्वर, रामरतन पि0 भौरीलाल हि0 1/2 कन्हैयालाल पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/12 ब्राह्मण गोपी पुत्र घीसा हि0 1/12, चौधूराम हि0 1/36, सीताराम हि0 1/36, पि. बिरदा, श्रवण, राकेश, रामोतार, राजूलाल, कानाराम पुत्र रामकिशोर, सरस्वती पत्नी रामकिशोर हि0 1/36, जगदीश पुत्र गोदू हि0 1/36, बद्रीनारायण रामचन्द्र पुत्र गोदू हि0 1/3 जाति ब्राह्मण
				1217	सरकारी	चाही 2 जाब 2	0.0600	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
				1211	निजी	बारानी 1	0.0500	ओमप्रकाश, छोटेलाल, त्रिलोकचन्द, शंकरलाल पि0 श्रवण, मीणा सीताराम पुत्र हनुमान हि0 1/8, बिरदीचन्द पुत्र जगननाथ हि0 1/8 गोविन्द पुत्र श्योनारायण हि0 1/4
				1212	निजी	बारानी 1	0.0100	
				1222	निजी	बारानी 2	0.1100	
				1223	निजी	बारानी 2	0.1000	श्रीमति सुमन गोयल पत्नि ताराचन्द गोयल अग्रवाल महाजन सा0 जयपुर।
				1217/2051	निजी	बारानी 2	0.0300	
				1217/2052	निजी	बारानी 2	0.0200	
				1372	निजी	बारानी 3	0.0500	कल्याण पुत्र भागीरथ मीणा हि0 5/288, श्रीमती ग्यारसी पत्नि श्री हनुमान मीणा हि0 139/288, चन्द्रकान्ता पत्नी त्रिलोकचन्द अग्रवाल हि0 1/4 भूरी देवी पत्नी सुखदेव हि0 1/4 जाति मीणा
				1374	निजी	चाही 1	0.1700	
				1375	निजी	चाही 3 जाब 3	0.0600	लक्ष्मीनारायण पि0 गणेशनारायण हि0 1/7, बाबूलाल, हरीनारायण, लक्ष्मीनारायण पि0 रामप्रताप मीणा हि0 3/7 हीरालाल पुत्र माधोप्रसाद हि0 1/7 रामनारायण पुत्र गंगाबक्श हि0 1/7 नानाब पुत्र कानाराम हि0 1/7 जाति मीणा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1377	निजी	चाही 3	0.1000	लक्ष्मीनारायण, बाबूलाल पि० रामप्रताप हि० 2/7. लक्ष्मीनारायण पि० गणेश नारायण 1/7 मीणा हीरालाल पुत्र माधोप्रसाद हि० 1/7 हरिनारायण पुत्र रामप्रताप हि० 1/7 नानगा पुत्र कानाराम हि० 1/7 रामनारायण पुत्र गांगाबक्ष हि० 1/7 जाति मीणा
				970	निजी	बारानी 2	0.5300	श्रीनथ नर्सरी, बिलवा तहसील सागानेर
				335	निजी	खात्तीली 1	0.0200	विनोदकुमार पुत्र मदनलाल विजयवर्गीय महाजन
				922	निजी	बारानी 2	0.0400	कम्फर्ट फार्मस प्रा० लि०, डायरेक्टर राकेश कुमार, विजय पुत्र नाथूलाल विजय, सी-66, साकंत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर।
				623	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0200	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		(5) मानपुरा उर्फ नगल्या		175	सरकारी	गै. मु.	0.4000	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
				208	निजी	बारानी 1	0.0400	रामपाल पि० नारायण, शान्तिदेवी पुत्री भूरा, रामप्रसाद पुत्र भूरा, हमराज पुत्र भूरा हि. 2/7 रामप्रसाद पु. भूरा 1/7 हमराज पु. भूरा हि. 1/7 ममता, लक्ष्मी, पुजा पुत्रियां भूरा हि. 3/7 सरक्षक माता शांती देवी दर हि. 1/2 हि. 1/2 मीणा।
				209	निजी	चाही 2	0.0800	
				210	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0400	विरुषीचन्द, अर्जुन पि० मोती, ज्याना बेवा मोती हि. 1/12 रामपाल भूरा 1/7 हमराज ना बा पु भूरा हि. 1/7, ममता, लक्ष्मी, पुजा ना बा पुत्रियां भूरा सरक्षक माता शान्ति हि. 1/8, पारादेवी गोपाललाल हि. 23/88 कानी देवी पत्नि चाथमल मीणा
				211	निजी	बंजड 1	0.0500	
				213/633	निजी	जाब 2	0.0300	
				213	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0600	गु. काली देवी बेवा भौरीलाल, लालाराम, शकरलाल पि० भौरीलाल मीणा।
				216	निजी	गै.मु. चाह	0.0100	बाबूलाल, गिरिराज पि० प्रभु, विरुषीचन्द अर्जुन पि० मोती मीणा।
				217	निजी	बारानी 1	0.0300	
				220	सरकारी	बारानी 1	0.0500	भूरा पारिवहन मंत्रालय।
				169	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0100	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
				221	निजी	बारानी 1	0.0600	माधोलाल शोताराम पुत्र शकरलाल 1/2 रामेश्वर पु. रवीनारायण 1/2 ब्राह्मण।
				222/1	सरकारी	निवास आवासीय	0.0800	सिंदासदास अबादी
				222/2	निजी	चाही 3 जाब 3		भगवानदास पुत्र बिनमदास पटवारी जाति महाजन।
				223	निजी	गै.मु. चाह	0.0400	राकेश कुमार, विजय पुत्र नाथूलाल विजय, महाजन।
				228/1	सरकारी	निवास आवासीय	0.2000	सिंदासदास अबादी
				228/2	निजी	जाब 3		राकेश कुमार, पुत्र नाथूलाल विजय, महाजन।
				229	निजी	बारानी 1	0.0500	सरजादेवी पत्नि ओमप्रकाश गुप्ता, महाजन।
				230	निजी	बारानी 1	0.0700	श्रीमती आशादेवी धर्मपत्नि कृष्ण कुमार, रजनिश गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश महाजन।
				231	निजी	बारानी 1	0.0900	
				136	निजी	चाही 1 जाब 1	0.0800	
				137	निजी	चाही 1 जाब 1	0.0300	गणेशदासी, स्त. स. स. व्यास (सहाय), जयमलसिंह ग्राम व्यास जिला अमृतसर।
				140	निजी	गै. मु. धार्मिक स्थल	0.1200	
				141	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0700	मानकराम पुत्र कानाराम, लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश नारायण जाति मीणा।
				142	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0300	दाखदेवी पत्नि शकरलाल, कल्याण सहाय कालूशम पि मनलया अर्जुन मीणा।
				143	निजी	चाही 2 जाब 2	0.0200	
				144	निजी	बारानी 1	0.0700	भूरा बेवा शकर माधोलाल शोताराम पुत्र शकर जाति बागड़ा ब्राह्मण।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				145	निजी	घाही 2 जाब 2	0.1400	कालीदेवी बेवा भूरीलाल, लालाराम, शंकरलाल पुत्र भीरीलाल हि. 1/4 रामसहाय पुत्र रामनारायण 1/4 ज्याना पत्नि मोती हि. 1/4 कालूराम पु. मंगल्या 1/4 कजोड़ कल्याण सहाय, बुन्दीप्रकाश, कैलाश पि. छोदू हि. 1/4 मीणा।
				172	निजी	घाही 2 जाब 2	0.0800	बाबूलाल, गिरीराज पुत्र प्रभु, विश्वचन्द अर्जुन पि. मोती, ज्याना पत्नी मोती हि. 1/4, शान्तिदेवी पत्नि भूरा हि. 1/7, रामप्रसाद पुत्र भूरा हि. 1/7 रामपाल, नारायण, हेमराज पत्र भूरा हि. 1/7 ममता, लक्ष्मी, पूजा पुत्रियां भूरा हि. 3/7 दर हि. 1/4, रामपाल पुत्र नारायण हि. 1/4 जाति मीणा।
				170	निजी	घाही 2 जाब 2	0.1400	
				171	निजी	घाही 2 जाब 2	0.0800	कालीदेवी बेवा भीरीलाल, लालाराम, शंकरलाल पि. भीरीलाल, 1/4 रामसहाय पुत्र रामनारायण 1/4, कल्याण सहाय, कालूराम पि. मंगल्या 1/4 कजोड़ बुन्दीप्रकाश कैलाश पि. छोदू हि. 1/4 जाति मीणा।
				169	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0200	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
				254	निजी	बारानी ए	0.0600	
				253	निजी	बारानी ए	0.0800	शोभादेवी पत्नि मोहनलाल, मंजू पत्नि लालचन्द महाजन।
				252	निजी	बारानी ए	0.0800	
				250	निजी	बारानी ए	0.0100	माधोलाल, सीताराम पुत्र शंकरलाल, 1/2 समेश्वर पुत्र बदीनारायण, 1/2 जाति बागडा बाणन।
				251	निजी	बारानी ए	0.0500	
				249	सरकारी	गै. मु. स्कूल	0.0300	निवास एवं बस्तियां
				248	निजी	बारानी ए	0.1300	तारावती धर्मपत्नि चांद बिहारी, साबू जाति माहेश्वरी।
				243	निजी	बारानी ए	0.0300	
				244	निजी	बारानी ए	0.0500	फूलचन्द पत्र. सोहनलाल सरावगी
				245	निजी	बारानी ए	0.0100	
				233	निजी	बारानी ए	0.0700	श्रीमती तारामती पत्नी चांदबिहारी साबू जाति माहेश्वरी, जनता कॉलोनी जयपुर
				234	निजी	बारानी ए	0.0700	श्रीमती सुमन साबू पत्नि श्री सरेन्द्र साबू 1/2 श्रीमती सरला साबू पत्नि राजेन्द्र साबू 1/2 माहेश्वरी।
		(6) राजपुरा उर्फ मथुरावाला		366	सरकारी	बंजड 1	0.0200	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				367	सरकारी	बंजड 1	0.0100	
				370/1	निजी	जावा 3	0.0400	हरि नारायण गोपाल लाल, प्रभूदयाल पिता बालूराम, तीजादेवी पत्नि बालूराम ब्राह्मण
				370/2	निजी	घाही 3	0.0700	भोरेलाल, लालचंद, मोतीलाल, पि. चुन्नीलाल, अंगारी बेवा घुनीलाल 1/2 धापू बेवा डालू, शंकर पुत्र दूला, लक्ष्मी बेवा दूला, 1/2 जाति बागडा
				371/2	निजी	जावा 3	0.0200	
				361	निजी	बारानी 1	0.1100	अमोल प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय बी-6/7, सरोज अपार्टमेंट, महाकाली मेन रोड, अम्बेरी ईस्ट, मुम्बई एम.डी. संदीप सपरा पुत्र जे. पी. सपरा
				362/2	निजी	बारानी 1	0.1400	
				363	निजी	बारानी 1	0.2000	हरि नारायण, गोपाल लाल, प्रभूदयाल पिता बालूराम, तीजा पत्नि बालूराम ब्राह्मण
				364	सरकारी	बारानी	0.3600	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				358	निजी	घाही जाव 3	0.0500	रजनीश ना.डा. पुत्र ओमप्रकाश सरलाक पि. ओमप्रकाश पुत्र कुन्दनलाल गुप्ता महाजन, निवासी प्लॉट नं.1, राजापार्क, जयपुर
		(7) अजयराजपुरा		307	निजी	गै. मु. वाणिज्यिक	0.1600	देवदत्त गोगिया पुत्र शिवदयाल गोगिया पंजाबी म. नं. 520 गली नं. 6, राजापार्क, जयपुर।
				313	सरकारी	गै. मु.	0.0800	
				314/384	सरकारी	गै. मु.	0.0800	
				357	सरकारी	गै. मु.	0.1000	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
				255/382	सरकारी	गै. मु.	0.0500	
				304/375	सरकारी	गै. मु.	0.0200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				322	निजी	बारानी 3	0.1000	फार्म लेण्ड एन्टर प्राईजेज जरिये आलोक खण्डेलवाल नि.
				323	निजी	बारानी 3	0.1300	सोखीया भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर।
				324/2	निजी	बारानी 3	0.0600	प्रभात पुत्र ग्यारसीलाल मीणा, मुरलीपुरा, जयपुर।
				324/1	निजी	बारानी 3	0.0500	मांगल्या, फूल्या, रामू पि० जगन्नाथ मीणा
				325	निजी	बारानी 3	0.0800	
				326	निजी	बारानी 3	0.0300	मंगल्या, फूल्या, रामू पि० जगन्नाथ 1/2 सीताराम, रामधन,
				327	निजी	बारानी 3	0.1500	पि० जगन्नाथ 1/6 सुगना पत्नि रामपाल 1/12 कोशल्या
				328	निजी	बारानी 3	0.0300	पत्नि कैलाश 1/4 जाति मीणा सा. शिवदासपुरा
				332/2	निजी	बारानी 3	0.0100	
				360	निजी	बारानी 2	0.5500	लछमा बेवा छाजू बागडा ब्राह्मण
				300	निजी	चाही 3 बारानी 3	0.0200	नारायण पुत्र भौरीया 1/2, बालूराम, बाबूलाल, हरनन्दा पि०
				305	सरकारी	गै. मु.	0.0500	काना 1/2, मीणा।
				252	सरकारी	गै. मु.	0.0600	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
				253	सरकारी	गै. मु.	0.0400	
				254	सरकारी	गै. मु.	0.1300	
				363	सरकारी निजी	बारानी 2	0.3400	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर हि० 4/9 हनुमान
				367	सरकारी निजी	बारानी 2	0.6600	रामकरण चौहान नन्हा पि. रूपनारायण हि. 1/3 बागडा
				359	सरकारी	गै. मु.	0.0500	ब्राह्मण सा. देह श्रीमती उषा गुप्ता पत्नि ब्रजेन्द्र कुमार गुप्ता
				361	निजी	बारानी 2	0.0800	जाति महाजन नि. बी-31, प्रमू भार्ग, तिलक नगर, हि 2/9
			(8) प्रहलादपुरा	476	निजी	चाही 3	0.0300	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
				476/923	निजी	चाही 3	0.0100	सूजी लाल गोपाल दामोदर मोतीलाल पि छोगा बागडा
			(9) नानकपुरा उर्फ हेमा की नागल	63	सरकारी	गै. मु. शमशान	0.0500	ब्राह्मण सा. देह
				66	सरकारी	गै. मु.	0.0700	फार्मलेण्ड एन्टरप्राईजेज जरिये आलोक खण्डेलवाल पुत्र
				67	सरकारी	गै. मु.	0.4000	रामदास सोखिया, जयपुर
				68	सरकारी	गै. मु.	0.2100	
				69	सरकारी	गै. मु.	0.0500	
				65	सरकारी	गै. मु.	0.0200	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				72	सरकारी	गै. मु.	0.2200	
				87/298	सरकारी	गै. मु.	0.1100	
				87/298/327	सरकारी	गै. मु.	0.0300	
				90	सरकारी	गै. मु.	0.1100	
				92	सरकारी	गै. मु.	0.3100	
				86	सरकारी	गै. मु.	0.2100	
				70	निजी	जाव 2 चाही	0.0600	
				71/2	निजी	जाव 2 चाही	0.0200	रामकरण पि. नानगा जाति ब्राह्मण सा. देह
				71/1	निजी	जाव 2	0.0200	नाथू पि गोविन्दा बागडा ब्राह्मण सा. देह
				78	निजी	गै. मु.	0.0200	जयपुर विकास प्राधिकरण
				77	निजी	गै. मु.	0.0100	जयपुर विकास प्राधिकरण
				73	निजी	जाव 2 चाही	0.1900	सीताराम, मोहन पि. रामसहाय बागडा ब्राह्मण सा. देह,
				74/296	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0500	श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नी देवकीनन्दन गुप्ता
				86/297	सरकारी निजी	बारानी 2	0.2400	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				135	सरकारी	गै. मु.	0.1900	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर 13/51 किस्तूरी देवी
								पत्नि सीताराम रुकमणी देवी पत्नि मोहनलाल 38/51
								बागडा ब्राह्मण सा. देह
								जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				91	निजी	बारानी 2	0.2100	मुन्नी देवी बेवा शंकरलाल रामप्रसाद कन्हैयालाल बाबूलाल पि. शंकरलाल बागडा ब्राह्मण हि. ब. सा. मलवा खातेदार
				134	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0400	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				130	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0900	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				131	निजी	जाव 2 चाही	0.1200	रामप्रसाद कन्हैयालाल बाबूलाल पि. शंकर मु. मुन्नी बेवा शंकर हि. ब. हि. 1/4 श्रीमती रेण अग्रवाल पत्नि अशोक अग्रवाल महाजन सा 25 दयाल नगर गोपाल पुरा 1/2 फिटपैक प्रोपर्टीज एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री सुरेन्द्र कुमार पि. रामप्रसाद महाजन नि. जयपुर 1/4
				133	निजी	बारानी 2	0.1100	मैसर्स फिटपैक प्रोपर्टीज एण्ड रिजटर्स प्राईवेट लिमिटेड जयपुर रजिस्टर्ड आफिस 1 च 8 जवाहर नगर जयपुर जरिये डायरेक्टर सुरेन्द्र कुमार गुप्ता
				132	निजी	जाव 2 चाही	0.0400	डायरेक्टर सुरेन्द्र कुमार गुप्ता
				129	निजी	बारानी 2	0.0100	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				233	निजी	बारानी 1	0.0300	मैसर्स फिटपैक प्रोपर्टीज एण्ड रिजटर्स प्राईवेट लिमिटेड जयपुर रजिस्टर्ड आफिस 1 च 8 जवाहर नगर जयपुर जरिये डायरेक्टर सुरेन्द्र कुमार गुप्ता
				234	सरकारी	गै. मु.	0.1700	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				126	सरकारी	गै.मु. तलाई	0.1200	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				235	निजी	जाव 2 चाही	0.1200	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				236	निजी	चाही 2	0.1600	डॉ. जी.के. अग्रवाल पुत्र एन.एन. बजाज महाजन नि. एसपी 3 मालदीय नगर, जयपुर
				237	निजी	चाही 2	0.2000	पप्पू श्योजी शम्भू पि. हरिनारायण हि 1/4 जगदीश गोपाल रामस्वरूप पि लच्छा बागडा ब्राह्मण सा. देह हि 3/4 हि.ब. खातेदार
				238	निजी	गै.मु. चाह	0.0600	प्रहलाद पि. रोडू 1/32 पप्पू श्योजी शम्भू पि. हरिनारायण हि 1/32 जगदीश गोपाल रामस्वरूप पि लच्छा 3/32 जगदीश नारायण सूरज नारायण शंकरलाल पि. गोमा बागडा ब्राह्मण 1/2 सा. देह जयपुर विकास प्राधिकरण 11/32
				239	निजी	चाही 2	0.0200	मु. सणगारी बेवा प्रभू रामनारायण राजूलाल पि. प्रभू बागडा ब्राह्मण सा. देह
				240	निजी	चाही 2	0.0050	
						योग	20.0036	
	2	चाकम्बू	(1) शिवदासपुरा	604	निजी	बारानी 3	0.2700	गोगा पुत्र हीरा हिस्सा 1/9 जाति ब्राह्मण सा नानगपुरा डा. जी.के. अग्रवाल पुत्र एस.एन. बजाज डा. श्रीमति मंजू अग्रवाल धर्म पत्नि जी.के. अग्रवाल नीरज अग्रवाल पुत्र डा. जी.के. अग्रवाल विशाल अग्रवाल पुत्र जी.के. अग्रवाल जाति महाजन निवासी एस.पी. 3 इण्डिस्ट्रीयल एरिया मालवीयनगर जयपुर हिस्सा 1/9 मंजूदेवी पत्नि लालचन्द अग्रवाल जाति महाजन निवासी 243 पुरोहित जी का कटला जीहरी बाजार जयपुर हिस्सा 1/9 श्रीमति पुष्पा कंवर धर्म पत्नि भंवरसिंह खंगारोत जाति राजपूत निवासी ग्राम किला तहसील दूध जिला जयपुर हिस्सा 1/9 श्रीमति पुष्पाकंवर धर्मपत्नि धीरसिंह जाति शेखावत निवासी प्लाट नं. 337 शान्तीनगर गोपालपुरा मोड जयपुर हिस्सा 1/3 श्रीमति पुष्पा कंवर धर्म पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत सा. 104 बी. हिम्मतनगर गोपालपुरा मोड जयपुर हिस्सा 1/9 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हिस्सा 1/9 खातेदार
				594	सरकारी	गै.मु. रेल्वे	0.1100	रेल्वे विभाग
				595	सरकारी	गै.मु.रेल्वे लाईन	0.0400	
				596	सरकारी	गै.मु. रेल्वे	0.1400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				603	निजी	बारानी 3	0.0100	रोडराम पुत्र मोहन हिस्सा 1/6 बंदी पुत्र बालू हिस्सा 1/6 हरि जगदीश गोपाल समस्वरूप पिता लच्छा हिस्सा 1/6 सीताराम श्रवण मोहन रामकरण नाथू रामपाल पप्पू राजू हिस्सा 1/6 भवरा प्रभू पिता गोपी हिस्सा 1/6 गोपाल पुत्र हिरा हि. 1/6 जाती बैरागी सा. नानगपुरा
				1106	निजी	चाही 3	0.0200	धन्नालाल भनफूल पिता भारया मु. श्रवणी बेवा भौरया जाती मीणा सा. देह खातेदार
				1111	निजी	बारानी 3	0.0100	
				1112	निजी	बारानी 3	0.0900	
				1113	निजी	बारानी 3	0.1900	
				1114	निजी	बारानी 3	0.0100	
				1117/2193	निजी	गै.मु. रास्ता	0.0200	
				1118	निजी	बारानी 1	0.2600	
				1119	निजी	बारानी 1	0.1200	
				1111/2194	निजी	बारानी 2	0.0200	भौरीलाल कल्याण रामनाथ रामू पिता लादू हिस्सा 1/3 जगदीश नहनू पिता नानगा हिस्सा 2/3 जाती मीणा सा. देह
		(2) किलकीपुरा		258	निजी	चरागाह	0.7900	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हि. 412/1542 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) जयपुर हि. 991/1542 मै. मीनाक्षी केमिकल्स प्रा. लि. हि. 139/1542(99 वर्ष लीज पर) आवंटन दिनांक 10.10.85
				272	निजी	बारानी ए	0.2100	सत्यनारायण राव पुत्र मांगीलाल राव जाति राजपूत सा. जे. 16 ए दीपक मार्ग मोती डूंगरी रोड जयपुर
				252	निजी	बारानी ए	0.0900	लादू पुत्र अथा जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह
				263	निजी	बारानी 1	0.0600	
				264	निजी	बारानी 1	0.0400	
				423	निजी	बारानी ए	0.0400	
				424	निजी	चाही 3	0.0100	
				425	निजी	चाही 3	0.1800	
				426	निजी	चाही 3	0.1200	
				270	निजी	बारानी ए	0.2000	ओमप्रकाश पुत्र कुन्दलाल जोहरी व श्रीमति सरला गुप्ता पति: आमप्रकाश गुप्ता 20 बरंडिया कॉलोनी म्यूजियम राड जयपुर
				250	निजी	बारानी 3	0.0900	
				285	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0700	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
				248	सरकारी	गै.मु. पाल	0.0600	
				343	निजी	चाही 3	0.2000	गोपी बेवा धारोराम भौरी बेवा गणपतलाल व मोता बेवा राधेश्याम हि. 1/2 मु. शांति देवी बेवा आनंदीलाल शंकरलाल सत्यनारायण पि. गणपतलाल हि. 1/2 जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह
				348	निजी	चाही 3	0.0100	
				173	निजी	बारानी 1	0.0600	
				188	निजी	गै.मु. आबादी	0.0200	
				249	निजी	बारानी 3	0.0500	
				344	निजी	चाही 3	0.1700	मु. गोपी बेवा धीरया हि. 1/2 मु. शांति देवी बेवा आनंदीलाल शंकरलाल सत्यनारायण पिता गणपत हि. 1/2 कोम बागडा ब्राह्मण सा. देह
				345	निजी	बारानी ए	0.0500	
				346	निजी	गै.मु. मंदिर	0.0100	
				140	निजी	चाही 2	0.1000	
				141	निजी	चाही 2	0.0100	
				347	निजी	चाही 3	0.0200	
				365	निजी	बारानी 1	0.7800	मु. गोपी बेवा धीरया हि. 1/2 मु. शांति देवी बेवा आनंदीलाल शंकरलाल सत्यनारायण पिता गणपत हि. 1/2 दर हिस्सा 22775/24800 कोम बागडा ब्राह्मण सा. देह जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हि. 2025/24800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				345/442	निजी	गै.मु. चाह	0.0300	मु.गोपी बेवा घीस्या हि. 2/10 मु. शांति देवी बेवा आनन्दीलाल शंकरलाल सत्यनारायण पिता गणपत हि. 1/2 व गोपी बेवा घीस्या भीरी बेवा गणपतलाल व मोता बेवा राधेश्याम हि. 3/10 कोम बागडा ब्राह्मण सा.देह
				363	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.0400	सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार
				364	सरकारी	गै.मु. बाड़ा	0.0800	
				422	निजी	बारानी ए	0.1900	भीरी बेवा छीतर व चन्दालाल प्रभातीलाल पि. छीतर जाति मीणा सा शिवदासपुरा
				435	निजी	बारानी 1	0.1300	कमला बेवा श्योजी जगदीश नारायण गणेशनारायण पिता
				437	निजी	बारानी 1	0.0500	श्योजी व मदन पु. मनफूल जाति गुजर सा. शिवदासपुरा
				427	निजी	चाही 3	0.1000	रामधन रामकिशोर बाबूलाल पि. मूल्या हि. 1/2 गोपाल पु. बिरुधा हि. 1/2 कोम मीणा सा. शिवदासपुरा राहिन राजस्थान सरकार मूर्तहीन
				429	निजी	चाही 3	0.1800	
				430	निजी	चाही 3	0.1400	
				431	निजी	चाही 3	0.1000	
				432	निजी	गै.मु. चाह	0.0400	
				428	निजी	गै.मु. चाह	0.0400	भीरी बेवा छीतर चन्दालाल प्रभातीलाल पि. छीतर हि. 1/4 मूल्या गोपाल पिता बिरुधा हि. 1/2 जाति मीणा जीवन पु. भेरु हि. 1/8 जाति गुजर सा. शिवदासपुरा लादू पु. झूथा हि. 1/8 बागडाब्राह्मण सा.देह
				126	निजी	बारानी 1	0.0100	छाजू बदरी पि. ग्यारसा हि. 1/3 रामू भूरा चन्दा पि. उदा हि. 1/3 जयनारायण पुत्र कल्याण मु. गोपाली बेवा नाथू छीतर पुत्र किशना हि. 5/18 लालीदेवी पत्नि स्व. छोटीलाल सुरेश रतन पि. छोटीलाल ना.बा. संरक्षक माता लालीदेवी पत्नी स्व. छोटीलाल हि. 1/18
				127	निजी	बारानी 1	0.0200	
				190	सरकारी	बारानी 2	0.1600	ग्राम पंचायत शिवदासपुरा
				251	निजी	गै.मु. चाह	0.0100	भीरीलाल पु. छीतर कोम गुजर हि. 1/12 राधेश्याम पुत्र झूथा नानगराम ओमप्रकाश पि. ग्यारसा रामप्यारी पत्नि स्व. चौथू जगदीश नारायण कैलाशचन्द घासीलाल शम्भूदयाल पि. चौथू व किशोरीदेवी पुत्री कल्याण हि. 1/12 रामनाथ नाथू पि. माधो हि. 1/12 बृजमोहन रामकिशोर पिता मदन व बृजमोहन अशोक पि. मदन रामनिवास जयसाम पिता चन्दा हि. 1/12 सा. मलवा छोदू ग्यारसा पिता रामनाथ हि. 1/6 काना पु. जगन्नाथ हि. 1/6 गोपी बेवा घासीराम भीरी बेवा गणपतलाल व मोता बेवा राधेश्याम शान्ति बेवा आनन्दीलाल शंकरलाल सत्यनारायण पिता गणपत हि. 1/6 लादू पु. झूथा हि. 1/6 कोम ब्राह्मण सा.देह
				417	निजी	चाही 3	0.0300	कमला बेवा श्योजी जगदीश नारायण गणेशनारायण पिता श्योजी व मदन पु. मनफूल जाति गुजर सा. शिवदासपुरा
				247	सरकारी	गै.मु. तलाई	0.0200	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		(3) चन्दलाई		2387	निजी	बारानी 3	1.1500	नन्दराम पुत्र श्योनारायण हि. 1/24 राहीन यू.को. बैंक चन्दलाई कन्हैयालाल चन्दालाल पि. सोन्या हि. 2/24 मांगीलाल पुत्र गोविन्दा हि. 1/8 बिलारहन चौधमल पुत्र सूरजमल हि. 1/8 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा शिवदासपुरा सीताराम रामप्रसाद आयु 15 वर्ष पि. चौधमल ना.बा. संरक्षक चौधमल पुत्र सूरजमल हि. 1/8 कानीदेवी पत्नि चौधमल मीणा नि. शिवदासपुरा हि. 1/12 सावित्रीदेवी पत्नि एम.एल. मीणा नि. जयपुर हि. 1/24 भूली पत्नि गोविन्दराम हि. 1/8 कन्हैयालाल चन्दालाल पि. श्योनारायण व बल्ली पत्नि नन्दाराम हि. 1/8 व.हि.ब. मीणा सा. शिवदासपुरा
				2386	निजी	चाही 3	0.2500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2371	निजी	चाही 3	0.1500	नन्दराम पुत्र श्योनारायण हि. 1/12 राहीन यू.को. बैंक चन्दलाइ कन्हैयालाल चन्दालाल पि. सोन्या हि.ब.हि. 2/12 लादूराम प्रहलाद पांचूराम पि. छोदू सोनी पत्नि स्व. छोदू हि. 1/4 चोथू पुत्र सूज्या हि. 1/4 मागीलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीणा सा. शिवदासपुरा हि. 1/4 खातेदार
				2372	निजी	चाही 3	0.2300	
				2384	निजी	चाही 3	0.4000	नन्दराम पुत्र श्योनारायण हि. 1/12 राहीन यू.को. बैंक चन्दलाइ चौधमल पुत्र सूज्या हि. 1/4 जाति मीणा सा. शिवदासपुरा रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा शिवदासपुरा कन्हैयालाल चन्दालाल पि. सोन्या हि.ब.हि. 2/12 लादूराम प्रहलाद पांचूराम पि. छोदू सोनी पत्नि स्व. छोदू हि. 1/4 सादेह मागीलाल पुत्र गोविन्दा मीणा सा.देह
				2385	निजी	चाही 3	0.0200	
				2376	निजी	गै.मु. रास्ता	0.0600	
				2373	निजी	चाही 3	0.0300	
				2382	निजी	बारानी 3	0.1700	ओमप्रकाश पुत्र नन्दलाल बजाज जाति पंजाबी अरोडा निवासी 6 ए आचार्य कृपलानी मार्ग आर्दश नगर जयपुर
				2379	निजी	बारानी 3	0.1500	
				2383/6660	निजी	गै.मु.सड़क	0.1600	
				2381	निजी	बारानी 3	0.1100	
				2378	निजी	बारानी 3	0.1700	
				2380	निजी	बारानी 3	0.2100	गोपाल पुत्र जुवारा जाति मीणा सा. शिवदास पुरा
				2198	निजी	बारानी 3	0.3800	
				2199	निजी	बारानी 3	0.2500	
				2192	निजी	बारानी 3	0.1400	
				2182/6655	निजी	गै.मु.सड़क	0.0100	
				2163	निजी	बारानी 2	0.0200	
				2182/6652	निजी	गै.मु.सड़क	0.0400	
				2189	निजी	बारानी 3	0.6400	
				2190	निजी	बारानी 2	0.0300	
				2188/2	निजी	बारानी 3	0.0200	
				2200	निजी	बारानी 2	0.0700	
				2197	निजी	बारानी 2	0.0600	
				2196	निजी	बारानी 3	0.0600	
				2195	निजी	बारानी 3	0.0100	
				2194	निजी	बारानी 3	0.2000	
				1854	सरकारी	बारानी 3	0.1000	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
				1855	सरकारी	बारानी 3	0.0300	
				1837	सरकारी	बारानी 3	0.1000	
				1838	सरकारी	बारानी 3	0.0100	
				1840	सरकारी	बारानी 3	0.0900	
				1841	सरकारी	बारानी 3	0.1500	
				1821	सरकारी	बारानी 3	0.1200	
				1825	सरकारी	बारानी 3	0.0900	
				1845	सरकारी	बारानी 3	0.1600	
				1824	सरकारी	बारानी 3	0.1500	
				1823	सरकारी	बारानी 3	0.0500	
				1843	सरकारी	बारानी 2	0.0200	
				1844	सरकारी	बारानी 2	0.0800	
				1744/6699	सरकारी	बारानी 3	0.0100	
				1853	सरकारी	बारानी 3	0.0700	
				1822	सरकारी	बारानी 3	0.1300	साथर कंवर धर्मपत्नि रामसिंह राजावत हि. 1/3रामस्वरूप पुत्र नारायण लाल जाति खाती हि. 2/3
				1842	सरकारी	बारानी 3	0.1400	
				1857	निजी	बारानी 3	0.0300	
				1858	निजी	बारानी 3	0.1000	
				1859	निजी	बारानी 3	0.3200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1744/6700/1	निजी	गै.मु. सड़क	0.1000	भौरीलाल पूरणमल ग्यारसीलाल भगवान पि. सुन्दरा जाती मीणा हि. 1/3 सारु बेवा प्रभूदयाल राधेश्याम नन्दलाल नरेन्द्र पि. प्रभूदयाल नानगी बेवा रामस्वरूप चन्द्रप्रकाश राकेश ना.बा. पुत्र रामस्वरूप संरक्षक माता नानगी बेवा रामस्वरूप कन्हैयालाल पुत्र श्रीया व कल्याणी बेवा सुखदेव बाबूलाल नाबालिग वली माता कल्याणी बेवा सुखदेव स्वयं राहीन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शिवदासपुरा मूर्तहीन हि. 1/3 प्रहलाद ग्यारसीलाल पि. छीतर हि. 1/3 बैरवा सा.देह
				1598	निजी	बारानी 1	0.1500	
				1589	निजी	बारानी 1	0.0100	
				1599	निजी	बारानी 1	0.2700	
				1600	निजी	बंजड़	0.1100	
				1599/6620	निजी	बारानी 1	0.1300	
				1601	निजी	बारानी 1	0.0300	
				1602	निजी	गै.म. चाह	0.0100	
				1603	निजी	बारानी 3	0.1700	
				1604	निजी	बारानी 3	0.0500	
				1629	निजी	बारानी	0.0100	भौरीलाल पूरणमल ग्यारसीलाल भगवान पि. सुन्दरा जाती मीणा सा शिवदासपुरा
				1606	निजी	बारानी 1	0.0900	
				1605/6313	निजी	बारानी 1	0.0100	भौरीलाल पूरणमल ग्यारसीलाल भगवान पि. सुन्दरा जाती मीणा हि. 1/3 सारु बेवा प्रभूदयाल राधेश्याम नन्दलाल नरेन्द्र पि. प्रभूदयाल नानगी बेवा रामस्वरूप चन्द्रप्रकाश राकेश ना.बा. पुत्र रामस्वरूप संरक्षक माता नानगी बेवा रामस्वरूप कन्हैयालाल पुत्र श्रीया व कल्याणी बेवा सुखदेव
				1607	निजी	बारानी 1	0.0100	
				1627	निजी	बारानी 1	0.2700	बाबूलाल नाबालिग वली माता कल्याणी बेवा सुखदेव स्वयं राहीन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शिवदासपुरा मूर्तहीन हि. 1/3 प्रहलाद पुत्र छीतर हि. 1/6 जाति बैरवा सा.देह गुलाबदेवी पति रामकिशन जाति रेगर सा शिवदासपुरा हि0 1/6
				1628	निजी	बारानी 1	0.1800	
				1626	निजी	चाही 3	0.1800	छोटू पुत्र गणेश जाति मीणा सा. शिवदासपुरा
				1625	निजी	चाही 3	0.0300	
				1655	निजी	गै.मु. आबादी	0.0300	
				1641	निजी	बारानी 3	0.0200	
				1643	निजी	बारानी 3	0.0200	
				1642	निजी	चाही 3	0.2400	
				1654	निजी	चाही 3	0.1000	
				1656	निजी	चाही 3	0.1200	
				1658	निजी	बारानी 3	0.0900	
				1660	निजी	बारानी 3	0.0100	
				1661	निजी	बारानी 3	0.4000	श्रवण लाल पुत्र रामचन्द्र हि. 1/6 राहीन ओ. बी. सी. शाखा बाड़ापदमपुरा मूर्तहीन रामनारायण पुत्र रामचन्द्र हि. 1/6 गोविन्दनारायण पुत्र भोरिया हि. 1/3 लक्ष्मीनारायण हजारीलाल पि. मूल्या हि. 1/3 जाती मीणा सा. शिवदासपुरा
				1708	निजी	बारानी 3	0.5000	
				1662	निजी	चाही 3	0.0200	
				1699/6625	निजी	गै.मु. सड़क	0.0200	
				1709	निजी	बारानी 3	0.4200	
				1710	निजी	बारानी 1	0.0200	
				1712	निजी	बारानी 1	0.2800	
				1713	निजी	बारानी 3	0.2700	
				1657	निजी	चाही 3	0.0600	
				2348	सरकारी	नहरी 1	0.0100	
				2349	सरकारी	नहरी 1	0.0100	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
				2356	सरकारी	नहरी 1	0.0100	
				2357	सरकारी	नहरी 1	0.0100	
				2358	सरकारी	नहरी 1	0.0300	
				2362	सरकारी	नहरी 1	0.1300	
				2363	सरकारी	नहरी 1	0.1600	जगदीश नारायण पुत्र किशनाराम हि0 1/8, कालूराम पुत्र किशनाराम हि0 3/8, ताराचन्द श्रवणलाल रमेशचन्द चन्दालाल पि. गोविन्दा हि. 1/2 जाति मीणा
				1664	निजी	चाही 3	0.0300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1863	सरकारी	बारानी 3	0.3800	राजस्थान खादी सघ चौमू सा. चन्दलाई
				1960	सरकारी	बारानी 3	0.0400	
				1959	सरकारी	बारानी 3	1.1800	
				1957	सरकारी	बारानी 3	0.3700	
				2222	निजी	बजड 1	0.1500	रामगोपाल, हरिनारायण, राधेश्याम पि कल्याण हि 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण हि 0 1/12 रहन यूको बैंक चन्दलाई, दर हि 0 1/3 रामपाल रामजीवन पि. चौथू हि. 2/3 जाति माली सा शिवदासपुरा
				2182/6656	निजी	गै मु सडक	0.0800	
				2228	निजी	बारानी 3	0.0500	
				2229	निजी	बारानी 2	0.0200	
				2243	निजी	बारानी 2	0.0100	
				2265	निजी	बारानी 3	0.0100	
				2367	निजी	नहरी 1	0.1800	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर 90 बी के द्वारा
				2368	निजी	नहरी 1	0.2000	
				2370	निजी	नहरी 1	0.1300	
				2182/6653	निजी	गै मु सडक	0.1500	जीवन रामपाल पि. चौथू हि 2/3 हरिनारायण राधेश्याम पि कल्याण सहाय हि 1/6 हि ब, लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण सहाय हि 0 1/12 रहन यूको बैंक शाखा चन्दलाई मुर्तहीन गोपाल पु. कल्याण हि 1/12 दर हि 0 1/3 जाति माली सा शिवदासपुरा खातेदार
				2164	निजी	बजड 2	0.1500	
				2179	निजी	चाही 3	0.0600	
				2180	निजी	गै मु झेरा	0.0600	
				2181	निजी	बारानी 1	0.0100	
				2172	निजी	चाही 3	0.2300	
				2171	निजी	चाही 3	0.1000	
				2165	निजी	बारानी 1	0.0700	
				2173	निजी	गै मु चाह	0.0200	रामगोपाल हरिनारायण राधेश्याम पि. कल्याण हि. 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण हि 0 1/12 रहन यूको बैंक शाखा चन्दलाई दर हि 0 1/3 रामपाल रामजीवन पि. चौथू हि 2/3 जाति माली सा. शिवदासपुरा
				2245	निजी	चाही 3	0.1000	
				2244/6657	निजी	गै मु सडक	0.0800	विपिनकुमार खिन्दूका पुत्र ज्ञानचन्द खिन्दूका जैन हि. 1/2 निवासी 1136 महावीर पार्क, मनियारों का रास्ता, जयपुर विवेक काला पुत्र विघ्न विनोद काला जाति जैन निवासी 52बी शान्ति पथ तिलक नगर जयपुर हि 1/2
				2253	निजी	चाही 3	0.0700	
				2254	निजी	चाही 3	0.1000	
				2257	निजी	चाही 3	0.1200	
				2259	निजी	चाही 3	0.1300	
				2261	निजी	बजड 1	0.2300	
				2262/6658	निजी	गै मु सडक	0.2000	अजयकुमार जैन संजय कुमार जैन पि. प्रेमचन्द जैन जाति महाजन निवासी 116 ए वसुन्धरा कॉलोनी टॉक रोड जयपुर
			(4) सदाशिवपुरा उर्फ चारलीपुरा	728	निजी	तालाबी	0.0500	
				107	निजी	बारानी 2	0.0200	कंचन भाई पत्नी हजारीलाल भीणा सिकराय जिला दौसा
				108	निजी	बारानी 2	0.0600	
				106	सरकारी	बजड 2	0.1000	अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र सुरजमल अग्रवाल
				109	सरकारी	बारानी 2	0.1200	
				109/1250	सरकारी	गै मु चाह	0.0100	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
				111	सरकारी	बजड 1	0.3100	
				883	सरकारी	चाही 3	0.0200	
				884/1	सरकारी	चाही 3	0.0100	
				1181	सरकारी	गै. म. रास्ता	0.0100	
				120	निजी	बारानी 2	0.0200	
				121	निजी	बारानी 2	0.0600	रामसहाय पुत्र छाज्या कोम गूजर सादेह खातेदार
				122	निजी	बारानी 2	0.0500	
				123	निजी	बारानी 2	0.0900	मोहनलाल पुत्र छाज्या कोम गूजर सा देह खातेदार
				124	निजी	बजड 2	0.0200	
				171	निजी	बारानी 2	0.1000	रामनाथ पुत्र रामचन्द्र कोम गूजर सा देह खातेदार
				172	निजी	बारानी 2	0.0300	
				173	निजी	बारानी 1	0.0300	रामनारायण पुत्र रामचन्द्र कोम गूजर सा देह खातेदार
				174	निजी	बारानी 1	0.0300	
								हरलाल कृष्ण लक्ष्मण पि. रामकरण मुमांगी बेवा रामकरण कोम गूजर सा देह राहीन यूको बैंक शाखा चन्दलाई मुर्तहीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				175	निजी	बारानी 1	0.0400	रामलाल पुत्र रामचन्द्रा कोम गूजर सा.देह खातेदार
				176	निजी	बारानी 1	0.0400	श्रीराम पुत्र रामचन्द्रा कोम गूजर सा.देह खातेदार
				723	निजी	बंजड़ 1	0.0700	लक्ष्मीनारायण मूलचन्द चौधमल पि. दुइया हि. 1/4 मूल्या पुत्र नामगा हि. 1/4 जाति कुम्हार सा.देह गोपाल पुत्र नारायण सूजादेवी पत्नि स्व. नारायण हि. 1/4 श्रीबाब भवन अध्यक्ष श्रीमति सुशीला देवी पत्नि कपूरचन्द जैन सा. जयपुर 1/8, रामचन्द्र पु. गोपालदास महाजन हि. 5/48 जगदीश नारायण पु. छीतर मल ब्राह्मण हि. 1/48
				704	सरकारी	बारानी 2	0.0700	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, हि. 1/6 रेणु अग्रवाल पत्नि अशोक अग्रवाल नि. 25 दयालनगर गोपालपुरा बाईपास
				719	सरकारी	बंजड़ 1	0.0200	जयपुर हि. 1/6 पायोनियर कॉलोनाईजर्स डवलपर्स प्रा. लि. शान्तिनगर जयपुर जरिये राजीव माधुर हि. 7/216 कपूरी पुत्री नारायण व जगदीश पुत्र नारायण जाति मीणा सा.देह हि. 1/216
				1173	सरकारी	बारानी 2	0.0500	
				705	निजी	बारानी 2	0.0600	रामगिलासी पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति मीणा नि. 8 कल्याण नगर प्रथम टॉक फाटक रोड राममंदिर के सामने जयपुर हि. 8/9 भीरीलाल पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी सूरजपुरा घाटी सांगानेर हि. 13/138 गोपाल सुवालाल पि. श्रवण जाति मीणा हि. 23/138 सा.देह खातेदार
				707	निजी	बारानी 2	0.0500	
				700	निजी	बंजड़ 2	0.0400	ग्राम पंचायत कमेटी यारलीपुरा
				701	निजी	बंजड़ 2	0.1800	
				702	निजी	गै.मु. कुआ	0.0100	
				703	निजी	बंजड़ 1	0.0500	
				693	निजी	बंजड़ 1	0.1800	भीरीलाल पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी सूरजपुरा घाटी सांगानेर
				688	निजी	बारानी 2	0.0900	जगदीश सीताराम शंकर पि. नारायण हि. 1/2 कालू पुत्र भीमा हि. 1/3 हनुमान पुत्र प्रहलाद हि. 1/3 जगदीश सीताराम शंकर पि. नारायण सन्ती कपूरी पुत्रियां नारायण हि. 1/3 वर हि. 1/2 जाति मीणा सा.देह खातेदार
				675	निजी	बारानी 2	0.0700	मैसर्स भूतोडिया आयल इन्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड 50 एन.एस. रोड कलकत्ता
				687	निजी	बंजड़ 1	0.2000	
				676	निजी	बारानी 2	0.0400	भोमाराम पुत्र चौधूराम जाति मीणा सा. श्रीरामकीर्णगल
				677	निजी	बारानी 2	0.0700	तहसील सांगानेर
				1172	निजी	बंजड़ 1	0.2600	घनश्याम पुत्र जगदीशप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण सा. म.न. 701 एच.विंग अशोक नगर एल.टी.रोड बोरीवली (प) मुम्बई 4000092
				1179	निजी	बारानी 2	0.0200	प्रभूदयाल पुत्र हरदेवलाल मीणा नि. हीरापुरा पो. लूनियावास तह. सांगानेर
				1165	निजी	बारानी 2	0.0600	मृदुला अग्रवाल पत्नि सुनीलकुमार जाति महाजन निवासी प्लॉट नं. 3 सेठाणी का बाग मोतीढूंगरी रोड जयपुर
				1166	निजी	चाही 3	0.0700	
				1170	निजी	चाही 3	0.2100	
				1161	निजी	बारानी 2	0.0400	गोपीचन्द रामलाल बाबूलाल पि. रामनाथ हि. 1/3 जाति मीणा राहिन ज.ना. ऑ. प्रा. बैंक शाखा शिवदासपुरा मूर्तहीन छोटा सोन्या पि. छाज्या हि. 2/3 जाति मीणा सा.देह हि. ब. खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				725	निजी	बंजड 2	0.0300	कालू पुत्र भोमा हि. 1/3 हनुमान पुत्र प्रहलाद हि. 1/3 जगदीश सीताराम शंकर पि. नारायण सन्ती कपूरी पुत्रियां नारायण ज्ञाना पत्नि स्व. नारायण हि. 1/3 दर हि. 1/24 हनुमान पुत्र प्रहलाद हि. 1/24 कालू पुत्र भोमा हि. 1/24 जगदीश सीताराम शंकर पि. नारायण हि. 1/24 गोबिन्दी बेवा हुक्मा व कानाराम पुत्र हुक्मा हि.ब. ओमप्रकाश मुकेश कुमार श्रवण कुमार पि. देवीराम हि. 1/4 हि.ब. श्योनारायण रामसहाय महादेव पि. भौरीलाल मंगला पुत्र बिरधा व लक्ष्मीनारायण जयनारायण भगवानसहाय पि. नाथू मु. पारा बेवा नाथू हि. 1/4 बराबर गोपीचन्द रामलाल बाबूलाल पि. रामनाथ श्थ. 1/18 छोटू सोन्या पि. छाज्या हि. 1/9 बराबर गोपाल सुवालाल छोटू पि. श्रवण जग्गा पुत्र नैनू राम हनुमान राजू पि. किशना ना.बा. संरक्षिका भोरी बेवा किशना हि. 1/6 बराबर जाति मीणा सा.देह खातेदार
				907	निजी	बंजड 1	0.0200	श्योनारायण रामसहाय महादेव पि. भौरीलाल हि. 1/2 बराबर लक्ष्मीनारायण जयनारायण भगवानसहाय पि. नाथू मु. पारा बेवा नाथू हि. 1/2 जाति मीना सा.देह खातेदार
				892	निजी	बारानी 2	0.1200	श्योनारायण महादेव पि. भौरीलाल हि. 1/3 बराबर चन्दीदेवी पत्नि भौरीलाल नि. श्रीरामकी नागल तह. सांगानेर हि. 25/177 रामसहाय पुत्र भौरीलाल हि. 9/354 लक्ष्मी नारायण जयनारायण भगवानसहाय पि. नाथू मु. पारा बेवा नाथू हि. 1/2 जाति मीना सा.देह खातेदार
				893	निजी	बारानी 2	0.2500	मंजू देवी पत्नि लालचन्द अग्रवाल जाति महाजन नि. जयपुर खातेदार
				884/2	निजी	चाही 3	0.0100	श्रीमति समतादेवी पत्नि मनोज टॉक व मनोज टॉक पुत्र श्री बालकृष्ण टॉक सा. ए-51 माननगर कवीसरोड
				891	निजी	चाही 3	0.0100	सन्तोषदेवी उर्फ शान्तिदेवी पत्नि मागीलाल जाति मीणा नि. शिवदासपुरा खातेदार
				880	निजी	चाही 3	0.0100	दयाराम पुत्र रामसहाय हि. 1/60 मोहनलाल पुत्र छाज्या हि. 2/60 कोम गूजर सा.देह डा. राकेश पुत्र रामेश्वर केदावत जाति महाजन सा. दुर्गापुरा हि. 57/60
				877	निजी	चाही 2	0.0900	शिवदासपुरा खातेदार
				825	निजी	बारानी 2	0.0400	शिवदासपुरा खातेदार
				826	निजी	चाही 3	0.0100	शिवदासपुरा खातेदार
				827	निजी	बंजड 2	0.0100	शिवदासपुरा खातेदार
				828	निजी	चाही 2	0.0200	शिवदासपुरा खातेदार
				729	निजी	बारानी 2	0.0200	शिवदासपुरा खातेदार
				817/2	निजी	बारानी 2	0.0200	शिवदासपुरा खातेदार
				818	निजी	बारानी 2	0.0700	शिवदासपुरा खातेदार
				819	निजी	बारानी 2	0.0300	शिवदासपुरा खातेदार
				820	निजी	बारानी 2	0.0100	शिवदासपुरा खातेदार
				804/2	निजी	बारानी 2	0.0100	शिवदासपुरा खातेदार
				821/1284	निजी	बारानी 2	0.0400	शिवदासपुरा खातेदार
				803	निजी	बारानी 2	0.0400	शिवदासपुरा खातेदार
				802	निजी	बारानी 2	0.0100	शिवदासपुरा खातेदार
				800/1	निजी	बारानी 2	0.0200	शिवदासपुरा खातेदार
				799/1	निजी	बारानी 2	0.0200	शिवदासपुरा खातेदार
				798	निजी	बारानी 2	0.0200	शिवदासपुरा खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				733	निजी	गै.मु.पाल	0.0100	हरलाल कृष्ण लक्ष्मण पि. रामकरण मांगी बेवा रामकरण हि. 1/10 रामसहाय श्रवण लाल मोहनलाल पि. छाज्या हि. 1/2 ब.हि. बराबर रामनाथ श्रीराम रामलाल रामनारायण पि. रामचन्द्र हि. 2/5 ब.हि. ब. जाति गूजर सा.देह खातेदार
				730	निजी	बारानी 2	0.0800	सरस्वतीदेवी पत्नि आत्माराम नैकेवाला जाति महाजन अग्रवाल नि. म.न. 4365 कुन्दीघर मेरु का सस्ता जौहरीबाजार जयपुर
				731	निजी	बारानी 2	0.0300	
				732	निजी	बारानी 2	0.0300	
				1182/1	निजी	गै.मु. आबादी	0.0100	शशि झालानी पत्नि रुपकुमार झालानी जाति महाजन निवासी बी 4 कान्तिचन्द्र रोड जयपुर व पवन जैन पुत्र नैमीचन्द्र जैन नि. 169 मालवीय नगर जयपुर
				1182/2	निजी	गै.मु. आबादी	0.0300	धन्नाज बिल्डकान प्रा. लि. ए-1 लायन्स कॉलोनी अनोखी रेस्टोरेन्ट के पास टॉकरोड सांगानेर निदेशक कैलाशचन्द्र शर्मा पुत्र धन्नालाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि. जयपुर ललिता शर्मा पत्नि कैलाशचन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण नि. ए-1 लायन्स कॉलोनी अनोखी रेस्टोरेन्ट के पास टॉकरोड सांगानेर
		(5) बरखेड़ा		1854	निजी	बारानी 3	0.0300	उर्मिला माहेश्वरी पत्नि शंकरलाल माहेश्वरी हि 1/16 निवासी ग्राम बिलवा तह सांगानेर जिला जयपुर सीमा गुप्ता पत्नि महेश गुप्ता हि 1/6 नि 129 गोविन्दनगर पूर्व अजमेर रोड जयपुर मोहनीदेवी पत्नि दामोदर घीया हि 1/6 कुमारी सोनल पुत्री अशोक खण्डेलवाल हि 1/6 शारदा खण्डेलवाल पत्नि अशोक खण्डेलवाल हि 1/6 उषा खण्डेलवाल पत्नि सतीश खण्डेलवाल हि 1/6 जाति महाजन निवासी बी 146 जनता कॉलोनी जयपुर खातेदार
				1837/1	निजी	बारानी 3	0.3200	श्रीमति मंजूला अग्रवाल पत्नि चन्द्रमोहन अग्रवाल जाति महाजन निवासी 3, सेठाणी का बाग, मोती डूंगरी रोड जयपुर
				1842	निजी	चाही 4	0.0500	
				1843	निजी	चाही 4	0.2700	
				1862	निजी	बारानी 3	0.0100	अल्का अग्रवाल पत्नि रामप्रकाश अग्रवाल जाति महाजन निवासी 3, सेठाणी का बाग मोतीडूंगरी रोड जयपुर
				1863	निजी	बारानी 3	0.1700	श्रीमति मंजूला अग्रवाल पत्नि चन्द्रमोहन अग्रवाल जाति महाजन निवासी 3, सेठाणी का बाग, मोती डूंगरी रोड जयपुर
				1864	निजी	चाही 4	1.6000	
				1880	निजी	बारानी 3	0.3400	
				1881	निजी	बारानी 3	0.0800	अल्का अग्रवाल पत्नि रामप्रकाश अग्रवाल जाति महाजन निवासी 3, सेठाणी का बाग मोतीडूंगरी रोड जयपुर
				1877	निजी	बारानी 3	0.0600	दूडया पुत्र जगन्नाथ हि 1/8 राहीन ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा बाढ़ापदमपुरा बदी पुत्र जगन्नाथ हि 1/8 नारायण छाजू पि. नामगा हि 1/4 रामसहाय पि.मु. गोपाल हि 1/4 मु. नारायणी बेवा भोमा भीरीलाल व रामफूल पि. भोमा हि 1/4 जाति मीणा सादेह
				1878	निजी	बारानी 3	0.3400	
				1879	निजी	बारानी 3	0.0200	
				1877/2000	निजी	बारानी 3	0.1300	बदीनारायण बैरवा प्रतिनिधि गौरव प्राइवेट लि कृष्णपुरी गृहनिर्माण सहकारी समिति लि जयपुर
				1885	निजी	बारानी 3	0.1200	
				1894	निजी	बारानी 3	0.0700	
				1895	निजी	बारानी 3	0.2800	
				1896	निजी	बारानी 3	0.3100	
				1932	निजी	बारानी 3	0.4500	
				1933	निजी	बारानी 3	0.3500	
				1934	निजी	बारानी 3	0.2500	
				1935	निजी	बारानी 3	0.0300	
				1941	निजी	बारानी 3	0.4500	
				869	निजी	बारानी 3	1.9000	छीतर, बदी, सुखदेव मीणा सादेह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				880	निजी	चाही 3	0.2300	लल्लू पुत्र पन्ना, फूल्या, कन्हैया, कालू अलख्या छोदू गोपाल पिता कल्याण गुलाब, पत्नि रामकिशन, भौरीलाल पु. रामकिशन राजू देवी पुत्री रामकिशन, गुडडी पत्नि सीताराम सुरेश, ओमप्रकाश पि. सीताराम आशा, ललिता पुत्री सीताराम जाति मीणा
				879	निजी	चाही 3	0.2000	
				878	निजी	चाही 3	0.2300	
				877	निजी	चाही 3	0.0600	
				872	निजी	बारानी 2	0.4100	
				873	निजी	बारानी 2	0.3000	
				874	निजी	चाही 3	0.1300	
				870	निजी	बारानी 3	0.2000	
				902	निजी	बंजड 2	0.4000	झुंडया पुत्र जगन्नाथ हि० 1/8 रहिन ओबीसी बाड़ा पदमपुरा मुर्तहीन, ब्रदी पिता जगन्नाथ हि० 1/8, नारायण छाजू पिता नानगा 1/4 रामसहाय पि० मु० गोपाल हि 1/4 नारायणी देवा भोमा भौरीलाल रामकुल पि. भोमा हि 1/4 जाति मीणा
				903	निजी	बंजड 2	0.0400	
				913	निजी	बारानी 2	0.1700	
				904	निजी	बारानी 2	0.0300	
				912	निजी	बारानी 2	0.1800	
				910	निजी	बारानी 2	0.0200	
				911	निजी	गै.मु.चाह	0.0100	
				921	निजी	बारानी 2	0.1200	
				922	निजी	बारानी 2	0.0300	ग्याना पुत्र ग्यारसा मीणा साकिन देह
				920	निजी	बारानी 2	0.2100	
				914	निजी	बारानी 2	0.2100	
				915	निजी	बारानी 2	0.0700	
				917	निजी	बारानी 2	0.1000	
				918	निजी	बारानी 2	0.1300	
		(6) गोपीरामपुरा		497	निजी	बारानी 3	0.6400	
				498	निजी	बारानी 3	0.1400	प्रताप सिंह पुत्र हरिचन्द हि. 1/2 सा. हाथोज जिला जयपुर भीम सिंह पुत्र शोभारामसिंह हि. 1/2 सा. ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर कोम जाट
				503	निजी	बारानी 3	0.0400	
				505	निजी	बारानी 3	0.0700	
				506	निजी	बारानी 3	0.0300	
				496	निजी	बारानी 3	0.5100	शयोनारायण रामसहाय महादेव पि. भौरीलाल हि 287/960 व लक्ष्मी नारायण जयनारायण भगवानसहाय पि.नाथूराम हि 287/960 कोम मीणा ग्राम वारलीपुराव तोफान किलाण पि. महादेव हि 287/960 वफूलचन्द बाबूलाल मागीलाल छोदू पि. जगू हि. 99/960 बराबर कोम मीणा सा. ना. नरजी तहसील साँगानेर खातेदार
				499	निजी	बारानी 3	0.2800	
				502	निजी	बारानी 3	0.3200	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
				490	सरकारी	चरागाह	0.3000	
				504	निजी	बारानी 3	0.2100	प्रताप सिंह पुत्र हरिचन्द हि. 1/2 सा. हाथोज जिला जयपुर भीम सिंह पुत्र शोभारामसिंह हि. 1/2 सा. ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर कोम जाट
		(7) दादनपुरा		286	निजी	बंजड 2	0.4000	कल्याण पुत्र रामनाथ जाति गुजर सा.देह छोदूराम सुखराम गंगाराम पि. लक्ष्मीनारायण गोपाल पुत्र गणेश हि.1/4हि.ब. जगदीश पुत्र गोपी हि.1/4 मोहरपाल पुत्र गोविन्दा हि. 1/4 जगदीशनारायण नन्दलाल हरिनारायण पि. गोपीराम हि.1/4 जाति गुजर सा.देह
				140	निजी	बारानी 2	0.4000	
				141	निजी	बारानी 2	0.2600	
				142	निजी	बंजड 2	0.0500	
				157	निजी	बारानी 2	0.3200	
				160	निजी	चाही4	0.4400	
				161	निजी	चाही4	0.3000	पुष्पा खण्डेलवाल पत्नि राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल हि.1/6 जाति महाजन नि. सुरजपोल जयपुर हरपाल पोखरिया जगदीश प्रसाद पिता किशना हि.1/2 हीरालाल पुत्र बक्सा ना.बा. संरक्षक माता पांजी देवा बक्सा हि.1/6 मु. राधा देवा छीतर हि.1/6 जाति गुजर सा.देह खातेदार
				83	निजी	बारानी 2	0.2000	
				87	निजी	चाही 3	0.2000	
				88	निजी	बारानी 2	0.1600	
				288	निजी	बारानी 2	0.0400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				79	निजी	गै.मु.आबादी	0.2200	पुष्पा खण्डेलवाल पत्नि राजेन्द्रकुमार खण्डेलवाल जाति महाजन नि. राधाकृष्ण निकुंज गांधी सर्किल हीदा की मोरी सुरजपोल जयपुर
				80	निजी	गै.मु.आबादी बाराणी 2	0.1400	
				290	निजी	बाराणी प्रथम	0.0600	गोपी पुत्र राधू देवहंस पुत्र रामफूल हि.1/3 जाति गुजर गायत्रीदेवी पत्नि रामायतार जाति ब्राह्मण हि.1/3 देवसाम हरिनारायण मोरपाल रामकिशन पि. जुवारा अनाखी पुत्री जुवारा हि.1/15 लाला पुत्र प्रताप हि. 1/15 जगदीश रेवड. पि. कानू हि.1/15 लादू भगवान पि. रामनाथ हि.ब. 1/15 बिरघा करणा मोती बाबू लछमन पि. कल्याण हि. 1/15 ब. हि. ब जाति गुजर सा.देह
				131	निजी	बाराणी 3	0.0500	भोरीलाल मोडूराम गंगाराम पि. कालूराम हि.1/4 जाति गुजर देवहंस पु. रामफूल रामसहाय पुत्र गोपी हि. 1/4 जाति गुजर हरिनारायण पुत्र जवाहरा जगदीश पुत्र काना भगवान पुत्र रामनाथ किशना पुत्र लालाराम मोतीलाल पुत्र कल्याण जाति गुजर निवासी दादनपुरा हि.1/4 श्रीमति नारायणी देवी पत्नि लालाराम श्रीमति नर्वदादेवी पत्नि रेवडराम श्रीमति झूंथीदेवी पत्नि कल्याण श्रीमति शांतीदेवी पत्नि मोहरपाल श्रीमति देवलीदेवी पत्नि भगवानसहाय हि. 1/4 जाति गुजर सा.देह
				132	निजी	बाराणी 3	0.0600	
				133	निजी	बाराणी 3	0.0600	
				134	निजी	बाराणी 3	0.0400	
				135	निजी	बाराणी 3	0.1000	
				287	निजी	बाराणी 2	0.0200	भोरीलाल मोडूराम पि. कालू हि.ब.हि. 2/3 हसराम मानसिंह पि. गंगाराम मु. गौरादेवी बेवा गंगाराम हि.ब. हि. 1/3 जाति गुजर सा.देह
				289	निजी	बाराणी 2	0.0600	
				127	निजी	बाराणी 3	0.0500	
				128	निजी	बाराणी 3	0.0400	
				143	निजी	बंजड 1	0.0600	विनिता गुप्ता पत्नि सुरेश अग्रवाल-जाति महाजन निवासी राजहंस कॉलोनी जयपुर हि. 130/1280 भगवान पु. रुगन्नाथ व जगदीश पुत्र गोपी जाति गुजर हि. 225/1280 हि.ब. भगतराय रामराज पि. गोपी हि. 160/1280 हि.ब. गोपी रामसुख मोहरपाल पुत्र गोबिन्द हि. 270/1280 हि.ब. जाति गुजर सा.देह जगदीशनारायण हरलाल पि. गोपी जाति गुजर सा.देह हि. 131/1280 भगवानसहाय बदीनारायण रामप्रसाद छोटलाल पि. रुगन्नाथ हि.131/1280 हि.ब. जाति गुजर सा.देह गोपीराम पुत्र घासीराम जाति मीणा हि. 233/1280 सा. खोकावास तह. सांगानेर
				144	निजी	बाराणी 3	0.1600	
				146	निजी	बाराणी 2	0.3500	
				147	निजी	बाराणी 1	0.0400	
				149	निजी	बाराणी 2	0.4000	
				150	निजी	बाराणी 2	0.1400	
				151	निजी	बाराणी 2	0.1100	
				136	निजी	बाराणी 3	0.0600	
				137	निजी	बाराणी 3	0.0300	
				138	निजी	बाराणी 3	0.0700	
				139	निजी	बाराणी 3	0.0100	
				296	सरकारी	चरागाह	0.0400	
				82	सरकारी	गै.मु. नाला	0.1100	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
				162	निजी	बाराणी 2	0.4700	छोटूराम सुखराम गंगाराम पि. लक्ष्मीनारायण गोपाल पुत्र गणेश हि.1/4 हि.ब. जगदीश पुत्र गोपी हि.1/4 मोहरपाल पुत्र गोविन्दा हि. 1/4 जगदीशनारायण नन्दलाल हरिनारायण पि. गोपीराम हि.1/4 जाति गुजर सा.देह
		(8) सालगरामपुरा		959	निजी	बाराणी 3	0.0500	जगदीश छोटू चन्दालाल मोतीलाल जन्सी कजोड़ पि. लालाराम जाति गुजर सा. लाखावास खातेदार नोट:- (श्रीमान उपशसन सचिव थ्रुप-6 के आदेश क्रमांक -1(6)राज. 06/93/14 जयपुर दिनांक 4/9/1993 की पालना में खसरा नं. 958/0.0108, 959/0.0774 960/0.0952, 961/0.03, 986/0.0054 का रकबा 0.2196 है. की भूमि के उपयोग का अधिकार भारतीय तेल निगम में निहित है जिस पर निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता कुआ या नहरें पेड़ नहीं लगाये जा सकते ।
				960	निजी	बाराणी 3	0.2800	
				961	निजी	बाराणी 3	0.2700	
				962	निजी	बाराणी 3	0.1900	
				967	निजी	बाराणी 3	0.2300	
				968	निजी	बाराणी 3	0.0600	
				984	निजी	बाराणी 3	0.0400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				976	निजी	गै.मु.आबादी बाराणी 3	0.1300	पुष्पा खण्डेलवाल पत्नि राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल जाति महाजन हि. 2/3 अनिता खण्डेलवाल पत्नि राकेशकुमार खण्डेलवाल जाति महाजन हि. 1/3 नि. राधाकृष्ण निकुन्ज गाँधी सर्किल हीदा की मोरी सूरजपोल जयपुर
				937	निजी	चाही 4	0.0100	राजेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद खण्डेलवाल जाति महाजन नि. राधाकृष्ण निकुन्ज गाँधी सर्किल सूरजपोल जयपुर
				938	निजी	चाही 4	0.0100	
				969	निजी	बाराणी 3	0.1900	
				970	निजी	बाराणी 3	0.0700	
				971	निजी	बाराणी 3	0.3000	
				972	निजी	बाराणी 3	0.1400	
				973	निजी	बाराणी 3	0.2000	
				974	निजी	चाही 4	0.1700	
				975	निजी	चाही 4	0.3600	
				832	निजी	चाही 3	0.2400	सत्यनारायण जगदीश पि. जयनारायण कोम ब्राह्मण सा.देह
		(9) महासिंहपुरा उर्फ लाखावास		1	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0300	राजकीय सिवायक भूमियां
				44	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0100	हरि सिंह जैन पुत्र रुग्न्नाथ सिंह जैन निवासी 203, तिलकनगर इन्दौर म.प्र.
				3	निजी	बाराणी 2	0.1700	
				5	निजी	बाराणी 2	0.0800	
				6	निजी	बाराणी 2	0.0800	
				12	निजी	बाराणी 2	0.0100	
				51	निजी	बाराणी 2	0.0050	गोपी पुत्र श्योनारायण जाति गुजर सा.देह
				4	निजी	बाराणी 2	0.4500	
				86	निजी	बाराणी 2	0.0300	रामरूप पुत्र कल्याण प्रसाद मिश्रा जाति ब्राह्मण सा. दौसा
				53	निजी	बाराणी 2	0.0200	
				53/594	निजी	बाराणी 2	0.0100	धीरया पुत्र मोहन जाति गुजर सा.देह
				55	निजी	बाराणी 2	0.0100	
				56	निजी	बाराणी 2	0.0100	ब्रूथा नाथू गोपी रामकरण रामसहाय पि. सौन्या नैहना बेवा सोन्या हि.ब. जाति गुजर सा. देह
				57	निजी	बाराणी 2	0.0100	
				85	निजी	बाराणी 2	0.0100	छाजूलाल शंकरलाल पि. रामकुमार ना.बा. संरक्षिका माता बच्चीदेवी बेवा रामकुमार व बच्चीदेवी बेवा रामकुमार हि. 1/2 रामप्रसाद देवा पि. कल्याण हि. 1/2 जाति गुजर सा. देह
				87	निजी	बाराणी 2	0.0600	
				88	निजी	बाराणी 2	0.0700	कमलादेवी पत्नि स्व. केसरा बाबूलाल मुन्नालाल पि. केसरा हि. 1/6 महादेव रामसहाय पि. बिस्वा हि. 1/3 चौथमल सीताराम राधेश्याम लल्लूलाल कैलाश पि. शंकरलाल हि.ब. हि. 1/2 जाति कुम्हार सा. रुपनिवास उर्फ धूनी
				142	निजी	गै.मु. रास्ता	0.0400	
				145	निजी	बाराणी 2	0.0900	
				146	निजी	बाराणी 2	0.1500	
				148	निजी	बाराणी 2	0.0400	अकित पुत्र भगवती सहाय जाति अग्रवाल
				50	निजी	बाराणी 2	0.0100	
				49	निजी	बाराणी 2	0.0200	लाडकवर पत्नि विजय सिंह टोक रोड जयपुर
				43	निजी	बाराणी 2	0.0300	जाल्या काल्या पि. नानगा जाति गुजर सा.देह
				45	निजी	बाराणी 2	0.0200	
				2	निजी	बाराणी 2	0.5700	श्रीनारायण पुत्र गणेश जाति गुजर सा. देह
		(10) रुपनिवास उर्फ धूनी		250	निजी	बाराणी 1	0.1800	कल्याण पुत्र छीतरमल हि.1/3 जगदीशनारायण पुत्र छीतरमल हि. 2/3 जाति मीणा सा. हुकण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				153	निजी	बारानी 2	0.3100	कल्याण पुत्र छीतरमल हि.1/6 जगदीशनारायण पुत्र छीतरमल हि. 1/3 प्रहलाद पुत्र घासी हि.1/2 जाति मीणा सा. हुकण
				154	निजी	बारानी 2	0.1800	
				156	निजी	बारानी 2	0.0100	
				163	निजी	गै.मु. रास्ता	0.0400	
				164	निजी	बारानी 2	0.0800	
				165	निजी	बारानी 2	0.3000	
				249	निजी	बारानी 1	0.1800	जगन्नाथ पुत्र घासी रुपनारायण पुत्र गुलाब जाति मीणा सा. देह
				316	निजी	बारानी 1	0.2300	नारायण भागीरथ पि. चोधमल हि. 1/2 जाति मीणा सा. हुकण मूलचन्द पुत्र जगदीश हि. 1/2 जाति मीणा सा.देह
				172	निजी	बारानी 2	0.2000	फैलीराम पुत्र कल्ला हि.23/331 रामकरण अर्जुन पि.कैल्या हि. 32/331 गोपी पुत्र कल्ला हि. 25/331 जगन्नाथ पुत्र घासी रुपनारायण पुत्र गुलाब बाली देवी पुत्री गुलाब हि. 13/331 कालू पुत्र छीतर जाति मीणा सा. हुकण हि. 24/331 भगवानसहाय पु. सांवताराम मीणा हि. 14/331 छीतर पुत्र भोरिया हि.24/331 नारायण भागीरथ पि. चोधमल हि.11/331 मूलचन्द पुत्र जगदीश हि.11/331 मनभर बेवा गोपाल नाथूलाल कालूराम पि. गोपाल धर्मराज भोलूराम छोटी कोशल्या संतरा पि. गोपाल ना.बा. संरक्षिका माता मनभर बेवा गोपाल हि. 33/331 रामसुखा पुत्र रुपा हि. 48/331 दामोदर मोतीलाल लालचन्द सुरेशचन्द पि. प्रहलाद गंगा बेवा प्रहलाद हि. 23/662 लक्ष्मण भगवाना रामराय बाबूलाल रणजीता पि. सांवता हि. 23/662 रामसहाय पुत्र जगन्नाथ हि. 25/331 जाति मीणा सा.देह
				173	निजी	बारानी 2	0.3900	मनभर बेवा गोपाल नाथूलाल कालूराम पि. गोपाल धर्मराज भोलूराम छोटी कोशल्या संतरा पि. गोपाल ना.बा. संरक्षिका माता मनभर बेवा गोपाल जाति मीणा सा.देह
				174	निजी	बंजड 1	0.4100	
				245	निजी	बारानी 1	0.4000	
				307	निजी	बारानी 1	0.3000	
				308	निजी	बारानी 1	0.1700	
				246	निजी	बारानी 1	0.2400	रामसुख पुत्र रुपा जाति मीणा सा.देह
				247	निजी	बारानी 1	0.0200	
				309	निजी	बारानी 1	0.1700	
				151	निजी	बारानी 2	0.2000	लक्ष्मीनारायण पुत्र रामसहाय जाति मीणा सा.देह
				152	निजी	बारानी 2	0.2000	
			(11) हुलासपुरा उर्फ हुकण	965	सरकारी	गै.मु. नाला	0.0700	राजकीय सिवायचक भूमियाँ
				923	निजी	बारानी 2	0.0400	कानाराम गणेश किशन लक्ष्मीनारायण हनुमान भगवान मोतीलाल पि. परस्या ग्यारसी बेवा परस्या हि.ब. जाति मीणा सा.देह
				921/1258	निजी	बारानी 2	0.0200	
				805	निजी	बारानी 2	0.0800	कानाराम गणेश किशन लक्ष्मीनारायण हनुमान भगवान मोतीलाल पि. परस्या ग्यारसी बेवा परस्या हि.ब.हि.1/3 विला रहन कल्या पुत्र माग्या हि.1/3 राहीन ज.जि.सह.भू.वि. बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन माधो भागीरथ पि. बालू हि. 1/3 जाति मीणा सा.देह
				806	निजी	बारानी 2	0.0400	
				938	निजी	बारानी 2	0.0300	केसरा पुत्र गंगल्या हि. 1/3 जयनारायण पुत्र रुपा हि. 1/3 प्रहलाद-किशना पि. घासी हि.1/6 चन्दालाल पुत्र उदा हि. 1/6 जाति मीणा सा.देह
				939	निजी	बारानी 2	0.1500	
				940	निजी	बारानी 2	0.1000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				730	निजी	गै.मु.	0.0600	गोदू पुत्र ग्यारसा हि. 1/2 मु. मंगली बेवा भोरिया हि. 1/16 गोपाल पि. लाला हि. 1/16 कालूराम रामसहाय पि. जगदीश भंवरीदेवी बेवा जगदीश हि. 1/8 रामफूल पुत्र बीज्या हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह
				756	निजी	बंजड़ 1	0.0900	चन्दा पुत्र उदा कल्याण पुत्र छीतर जगदीशनारायण पुत्र छीतर हि.ब. रामफूल पुत्र बीज्या, कालूराम रामसहाय पि. जगदीश भंवरीदेवी बेवा जगदीश रामसहाय पुत्र भोरिया रामसुख पुत्र चूना केसरा पुत्र गंगल्या जयनारायण पुत्र रुपा फैलीराम शंकरलाल पि. नानगराम मोहरी बेवा नानगराम हि.ब.
				757	निजी	चाही 2	0.0300	पितू नारायण कल्याण हजारी पि. इन्द्राज हि.ब.पाँची बेवा जगन्नाथ नैनू पुत्र जगन्नाथ गोदया पुत्र ग्यारसा मु. मोती बेवा रामचन्द्र रामनारायण लक्ष्मीनारायण बदीनारायण पि. रामचन्द्र कालाराम गणेश किशन
				934	निजी	बारानी 2	0.3400	लक्ष्मीनारायण हनुमान भगवान मोतीलाल पि. परस्या मु. ग्यारसी बेवा परस्या व कल्या पि. मांग्या हि. 2/3 माधो भागीरथ पि. बालू हि. 1/3 दर हि. 1/15 बिहारीलाल पुत्र भूरा जाति मीणा सा.देह
				935	निजी	बारानी 2	0.2900	चन्दा पुत्र उदा हि. 1/4 प्रहलाद किशना पि.घासी हि. 1/4 कल्याण पुत्र छीतर हि. 1/12 जगदीशनारायण पुत्र छीतर हि. 1/6 नारायण भागीरथ पि. चोथ्या हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह
				731	निजी	गै.मु.चाह	0.0500	जयनारायण पुत्र रुपा हि. 1/16 लादू महादेव रतनलाल पि. लाला हि. 1/16 छोटीदेवी बेवा बालूराम हरसहाय गंगासहाय रंगलाल भरतलाल उर्फ रामकिशोर पि. बालूराम हि. 1/8 केसरा पुत्र गंगल्या हि. 1/8 रामपाल भूराम रामलाल पि. पाँच्या हि. 3/32 भागीदेवी बेवा सांवतराम बाबूलाल रामभजन ग्यारसीलाल पि. सावतराम पूनीदेवी धन्नीदेवी विमलादेवी पुत्रियां सांवता हि. 1/32 मु. मंगली बेवा भोरिया हि. 1/16 गोपाल पि. लाला हि. 1/16 कालूराम रामसहाय पि. जगदीश भोरी बेवा जगदीश हि. 1/8 रामफूल पुत्र बीज्या हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह
				732	निजी	गै.मु.	0.0700	
				733	निजी	बारानी 1	0.0300	
				734	निजी	चाही 2	0.0200	
				735	निजी	चाही 2	0.0200	
				736	निजी	चाही 2	0.0500	
				737	निजी	चाही 2	0.0600	
				755	निजी	बारानी 1	0.1400	
				758	निजी	चाही 2	0.0400	
				761	निजी	चाही 2	0.0500	
				842	निजी	चाही 2	0.1900	
				848	निजी	चाही 2	0.0900	
				849	निजी	चाही 2	0.0300	
				931	निजी	बारानी 2	0.3800	
				810	निजी	बारानी 1	0.0600	
				811	निजी	बारानी 1	0.0500	
				812	निजी	बारानी 1	0.0900	
				814	निजी	बारानी 1	0.0300	
				817	निजी	बारानी 1	0.0600	
				818	निजी	बारानी 1	0.0100	
				819	निजी	बारानी 1	0.0500	
				820	निजी	बारानी 1	0.0900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				802	निजी	बारानी 1	0.0500	रामसहाय पुत्र भोरिया जाति मीणा सा.देह खातेदार
				803	निजी	बारानी 1	0.0200	
				804	निजी	बारानी 1	0.0600	
				852	निजी	चाही 2	0.2100	
				809	निजी	बारानी 1	0.0300	रामसहाय पि. जगदीश भेंवरीदेवी बेवा जगदीश हि. 1/3 बिलारहन कालूराम पुत्र जगदीश हि. 1/8 मंगली बेवा भोरिया हि. 1/4 गोपाल पि. लासा हि. 1/4 राहीन ज.जि. सह. भू. वि. बैंक शाखा चाकसू भूतहीन जाति मीणा सा.देह खातेदार
				813	निजी	बारानी 1	0.0300	
				762	निजी	चाही 2	0.0800	
				763	निजी	चाही 2	0.1200	
				815	निजी	बारानी 1	0.0300	फैलीराम शंकरलाल पि. नानगशम व मोहरी बेवा नानगशम जाति मीणा हि.ब. सा.देह खातेदार
				816	निजी	बारानी 1	0.0500	
				754	निजी	बारानी 1	0.0900	
				764	निजी	बारानी 1	0.1000	
				765	निजी	बारानी 1	0.0100	
				766	निजी	बारानी 1	0.0100	
				767	निजी	बारानी 1	0.0700	
				768	निजी	बारानी 1	0.0900	
				769	निजी	बारानी 1	0.0600	
				770	निजी	बारानी 1	0.0500	
				771	निजी	बारानी 1	0.0500	रामसुखा पुत्र चून्या जाति मीणा सा.देह खातेदार
				772	निजी	बारानी 1	0.0500	
				843	निजी	चाही 2	0.1300	
				850	निजी	चाही 2	0.1700	
				851	निजी	चाही 2	0.0100	रामसहाय पुत्र भोरिया जाति मीणा सा.देह खातेदार
				853	निजी	बारानी 2	0.1100	
				847	निजी	चाही 2	0.2500	रामफूल पुत्र बीज्या जाति मीणा सा.देह खातेदार
				859	सरकारी	चरागाह	0.0900	चरागाह भूमियां
				860	सरकारी	चरागाह	0.0500	
				861	सरकारी	चरागाह	0.0900	
				862	सरकारी	चरागाह	0.1100	
				863	सरकारी	चरागाह	0.0600	
				864	सरकारी	चरागाह	0.0600	
				503	सरकारी	चरागाह	0.3400	
				921	सरकारी	चरागाह	1.9100	
				923/1259	सरकारी	चरागाह	0.1400	
				932	सरकारी	चरागाह	0.1200	
				957	सरकारी	चरागाह	0.6500	लावू महादेव रतनलाल पि. लासा हि. ब. जाति मीणा सा.देह खातेदार
				502/1274	निजी	बारानी 2	0.7500	
				921/1285	निजी	बारानी 2	0.2500	
				920/1301	निजी	बारानी 2	0.0700	मंवरलाल पुत्र हरिनारायण जाति बोली सा.देह खातेदार
			(12) साहबबामपुरा उर्फ सिरंज्या	232/477	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.3700	राजकीय सरकारी भूमि
				343	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0500	
				247	सरकारी	बंजड़1	0.0600	
				248	सरकारी	चाही 2	0.0300	
				222	निजी	बारानी 2	0.1300	रामप्यारी पति जगदीश जाति गुजर सा. आकोडिया
				223/481	निजी	बारानी 2	0.0300	
				243	निजी	चाही 2	0.0200	
				244	निजी	बंजड़1	0.0100	
				245	निजी	चाही 2	0.0500	मोहम्मद खां पि. हुसैन खां हि. 1/2. शहीदन पति इब्राहिम खां हि. 1/6 जाति मुसलमान सा. खो नागोरियान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				246	निजी	चाही 2	0.0800	इब्राहीम खां फकीर खां पि. भूरे खां, हि० 1/3 सुब्राती खां मोहम्मद खां पि. हुसैन खां हि. 1/2. रमजू खां पुत्र भूरे खां हि० 1/6 जाति मुसलमान सा. खो नागोरियान
				249	निजी	चाही 2	0.0600	
				303	निजी	चाही 2	0.2000	
				304	निजी	चाही 2	0.0700	
				339	निजी	चाही 2	0.0200	
				340	निजी	चाही 2	0.0900	
				341	निजी	चाही 2	0.0200	
				342	निजी	चाही 2	0.0100	
				339/474	निजी	गै.मु. चाह	0.0200	
				223	निजी	बारानी 2	0.0100	कालू खां गन्नी खां पि. अल्लादीन खां जाति मुसलमान सा. खो नागोरियान तह. सांगानेर जयपुर
				215	निजी	बारानी 2	0.0600	सुब्राती खां पुत्र जमाल खां जाति मुसलमान सा. खो नागोरियान तह. सांगानेर जयपुर
				236	निजी	बारानी 2	0.1200	
				216	निजी	बारानी 2	0.0100	
				233	निजी	बारानी 2	0.2300	नसीर खां पि.मु. उमर खां हि.1/2 राहीन ज.जि. सह. भू. वि. बैक शाखा चाकसू जुम्मीबानू पत्नि नसीर खां जैतून पत्नि सुब्राती खां हि. 1/2 जाति मुसलमान सा.देह
				234	निजी	बारानी 2	0.0600	
				235	निजी	बारानी 2	0.1600	
				219	निजी	बारानी 2	0.1700	सुब्राती खां पुत्र भूरे खां हि. 3/4 रईसा बेवा कालू खां शबाना अनीसा साहिना पुत्रियां कालू खां ना.बा. संरक्षिका रईसा बेवा कालू खां हि. ब.हि. 1/4 जाति मुसलमान सा.देह
				232	सरकारी	बंजड़ 1	0.9300	धरागाह भूमि
				238	सरकारी	बंजड़ 1	0.0200	
			(13) श्रीलक्ष्मणपुरा	10	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.0400	राजकीय सिवायचक भूमियां
				16	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.0300	
				45	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.0300	
				42	निजी	चाही 2	0.2900	कल्या पुत्र मुल्या जाति भीमा सा.देह राहीन दी जयपुर सैन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैक लि. शाखा चाकसू
				43	निजी	चाही 2	0.0400	
				66	निजी	चाही 2	0.4300	
				67	निजी	बारानी 1	0.0100	
				100	निजी	तालाबी	0.1100	
				101	निजी	चाही 2	0.3300	
				102	निजी	गै.मु. रास्ता	0.0900	
				103	निजी	चाही 2	0.2200	
				195	निजी	बारानी 2	0.4500	नारायण नन्दा पि. भूरा जाति जाट सा. निमोडिया हि.ब.
				196	निजी	बारानी 2	0.0600	
				4	निजी	चाही 2	0.0600	महादेव गोपाल रामनारायण पि. भोमा जाति भीमा सा.देह हि. ब.
				5	निजी	चाही 2	0.0600	
				6	निजी	चाही 2	0.0800	
				11	निजी	बारानी 1	0.0500	
				46	निजी	चाही 2	0.0400	
				47	निजी	चाही 2	0.0200	
				48	निजी	चाही 2	0.0100	
				57	निजी	चाही 2	0.0700	
				58	निजी	चाही 2	0.0100	मु.गंगा बेवा रामराहाय हनुमानसहाय दत्तक पुत्र रामसहाय हि. 1/5 फैला ताराचन्द गोपाल श्योजी पि. भीरिया जाति भीमा सा.देह हि.ब. हि. 4/5
				128	निजी	बारानी 2	0.0700	
				126	निजी	तालाबी	0.0100	
				127	निजी	तालाबी	0.1300	
				132	निजी	बारानी 2	0.0100	
				138	निजी	बारानी 2	0.0800	
				139	निजी	बारानी 2	0.1300	
				140	निजी	बारानी 2	0.1500	
				141	निजी	बारानी 2	0.0400	
				145	निजी	तालाबी	0.0500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1	निजी	बाराणी 2	0.0600	रामकुमार पुत्र नाथू हि. 1/2 राहीन एस.बी.बी. जे. शाखा चाकसू बदीनारायण पुत्र नाथू हि. 1/2 राहीन ज.जि. सह. भू. वि. बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन
				7	निजी	चाही 2	0.1500	
				8	निजी	चाही 2	0.1000	
				12	निजी	बाराणी 1	0.0300	
				44	निजी	चाही 2	0.0600	
				52	निजी	चाही 2	0.0300	
				56	निजी	चाही 2	0.0100	
				130	निजी	बाराणी 2	0.1500	रामकरण पुत्र काना हि. 1/4 कल्याण श्योजी घासी पि. काना हि. 3/4 जाति मीणा सा.देह
				9	निजी	चाही 2	0.1600	
				49	निजी	चाही 2	0.2800	
				50/203	निजी	चाही 2	0.0400	रेवड़ पुत्र गणेश जाति मीणा सा.देह
				50	निजी	चाही 2	0.0200	
				137	निजी	बाराणी 2	0.6400	रामचन्द्र रामलाल पुत्र गोरू हि. 1/2 पोखरमल श्योनारायण बदीनारायण बजरंगलाल गोपाल पि. रामसहाय हि. 1/2 हि. ब.जाति जाट सा. निमोडिया
				99	निजी	चाही 4	0.4200	
				98/201	निजी	चाही 4	0.0500	
				131	निजी	बाराणी 2	0.4500	सुखा देवी बेवा फूलचन्द हि. 1/5 बिलारहन गुल्लासम बाबूलाल समकरण कैलाश चन्द पि. फूलचन्द हि. 4/5 हि. ब. जाति मीणा सा.देह राहीन यू.को. बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन
		(14) दयपुरा	80/317	सरकारी	गै.मु. रास्ता		0.0100	राजकीय सिवायचक भूमिया
			81/318	सरकारी	गै.मु. रास्ता		0.0100	
			212	सरकारी	गै.मु. रास्ता		0.0600	
			219	निजी	बाराणी 2		0.0100	कल्याण पुत्र छीतरमल हि. 1/3 जगदीशनारायण पुत्र छीतरमल हि. 2/3 जाति मीणा सा. हुकण
			220	निजी	बाराणी 2		0.0500	
			251	निजी	बाराणी 2		0.2500	
			252/303	निजी	बाराणी 2		0.0200	माफी मंदिर श्री रामकुमार जी, अपील हाईकोर्ट स्ट्रेस 550/99 से आदिनांक स्थिति रखने हेतु
			280	निजी	बाराणी 2		0.0700	
			249	निजी	बाराणी 2		0.6200	
			84/331	निजी	बाराणी 2		0.1300	परसराम पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण सा.देह राहीन वी जयपुर सैन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लि. शाखा चाकसू मूर्तहीन
			83	निजी	बाराणी 2		0.0500	
			84	निजी	बाराणी 2		0.7000	रमेशचन्द पुत्र काना जाति ब्राह्मण सा.देह
			70	निजी	बाराणी 2		0.5400	मनभरदेवी पत्नि रामसहाय व गीतादेवी पत्नि लालचन्द जाति बागड़ा ब्राह्मण सा. रामपुरा उर्फ कंवरपुरा सह. सांगानेर हि. 118/134 रमेश चन्द पुत्र काना जाति ब्राह्मण सा.देह हि. 16/134
			80/316	निजी	बाराणी 2		0.0300	
			259	निजी	बाराणी 2		1.0500	मंजू पत्नि राधाकृष्ण हि. 1/2 रामजीलाल पुत्र जगदीश नारायण हि. 1/2 जाति ब्राह्मण सा.देह
			66	निजी	बाराणी 2		0.0200	रामसहाय पुत्र कल्याण जाति जाट सा. निमोडिया
			265	निजी	बाराणी 2		0.2600	रामेश्वर जयनारायण पि. लक्ष्मीनारायण हि. 040 हि. 1/2 बिलारहन बदीनारायण जगदीश मदन पि. केसरा हि. 1/2 जाति जाट सा. निमोडिया राहीन ज.जि. सह. भू. वि. बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन
			266	निजी	बाराणी 2		0.2300	
			267	निजी	बाराणी 2		0.1700	
			268	निजी	बाराणी 2		0.2600	
			270	निजी	बाराणी 2		0.4300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				252	निजी	बारानी 2	0.6600	हनुमानप्रसाद पुत्र रामप्रसाद जाति जाट ना.बा. संरक्षक रामप्रसाद पिता खुद सा. निमोडिया हि. 1/3 रितू गुप्ता पति आलोक कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी रामनगरीया तहसील संगानेर रमा गोयल पति रामदयाल गोयल जाति महाजन निवासी जयपुर अंजू डंगायच पति आलोक डंगायच जाति महाजन निवासी सेठी कॉलोनी जयपुर हि.ब. हि. 2/3 खातेदार
				85/321	निजी	बारानी 2	0.0100	गोपाल पुत्र चोधमल हि. 1/2 रामवन्द पुत्र चोधमल हि. 1/2 जाति ब्राह्मण सा.देह राहीन एस.बी.बी.जे. शाखा चाकसू भूतहीन
				76	निजी	चाही 3	0.0800	
				70/314	निजी	बारानी 2	0.0100	सीताराम बाबूलाल पि. कल्याण हि.ब. जाति ब्राह्मण सा.देह
				66/313	निजी	बारानी 2	0.0400	
				71	निजी	बारानी 2	0.4400	रामेश्वर पुत्र मूलचन्द हि. 1/2 जाति ब्राह्मण सा.देह अब्दुल मजिद खां पुत्र हाजी इस्माईल खा हि. 1/2 जाति मुसलमान सा. खौ नागोरियान तह. सांगानेर जयपुर
				72	निजी	बारानी 2	0.3200	
				74	निजी	चाही 3	0.1000	
				270/338	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.0200	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				81	सरकारी	चरागाह	0.0900	
				82	सरकारी	बारानी 2	0.0900	चरागाह भूमियां
		(15) चाकसू		4023	निजी	बारानी 2	0.7600	रूपनारायण जगदीश घासी पि. भौरीलाल नानगी बेवा भौरीलाल हि. 1/4 भगवानसहाय रामवतार छोदू बट्टी पि. काना रामप्यारी बेवा कानाराम हि. 1/4 जाति बैरवा नाथूराम गोदुराम गंगाराम पम्दयाल जगदीश पि. पांचूराम हि. 1/4 हि.ब. खेमा पुत्र रामनाथ हि. 1/4 जाति चमार सा.देह खातेदार
				4032	निजी	चाही 4	0.2400	
				4023	निजी	बारानी 2	0.3100	
				4034	निजी	बारानी 2	0.0200	
				4037	निजी	चाही 4	0.1700	
				4042	निजी	चाही 4	0.0800	
				4038	निजी	गै.मु. चाह	0.0200	
				4043	निजी	बारानी 2	0.2200	रुपा पुत्र भोरिया जाति बैरवा हि. 1/2 रामप्यारी पति महेन्द्र व संतोष पत्नी मुकेश कुमार हि. 3/4 भगवान सहाय पुत्र कानाराम हि. 1/4 दर हि. 1/2 जाति बैरवा
				4058/11896	निजी	बारानी 2	0.1800	
				4036	निजी	बारानी 2	0.1500	
				4049	निजी	गै.मु. नहर	0.0800	रुपा पुत्र भोरिया जाति बैरवा हि. 1/2 रामज्यानकी पति कानाराम भगवानसहाय छोदू बट्टी पि. कानाराम जाति बैरवा हि. 1/2
				4058	निजी	बारानी 2	0.3000	गुल्ली बेवा मोदू प्रहलाद पुत्र मोदू हि. 1/4 दोलतराम पु. पांचूराम हि. 1/4 गुल्ला गोदू पि. नोन्दा हि. 1/2 हि.ब. जाति बैरवा
				4081	निजी	बारानी 2	0.2700	गुल्ली बेवा मोदू प्रहलाद पुत्र मोदू हि. 1/4 गुल्ला गोदू पि. नोन्दा हि. 1/2 हि.ब. जाति बैरवा नारायण लाल पुत्र छोटाराम हि. 1/4 जाति खटीक सा.देह
				4080	निजी	बारानी 2	0.3000	बाबूलाल पुत्र भीमा पण्णूलाल पुत्र रामचन्द्र मोहरपाल पुत्र मूल्य मु. झूथी बेवा भोरिया रामलाल पुत्र भोरिया हि. 3/4 जाति बैरवा भीमती गुलाबदेवी पति फूलचन्द राजोरिया जाति खटीक हिस्सा 1/4 सा.देह
				4087	निजी	बारानी 2	0.1300	
				4088	निजी	बारानी 2	0.0050	
				4091	निजी	चाही 4	0.2400	
				4092	निजी	चाही 4	0.1700	
				4093	निजी	बारानी 2	0.1500	
				4096	निजी	चाही 4	0.0050	
				4097	निजी	चाही 4	0.0400	
								गंगाधर पि. भौरीलाल हि. 1/3 रामादेवी बेवा भौरीलाल हि. 1/3 सूरजमल पुत्र कजोडमल हि. 1/3 जाति बैरवा सा.देह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4089	निजी	बारानी 2	0.1800	ललितादेवी पत्नि शंकरलाल हि.2/5 जाति बैरवा सा.देह हनुमान पुत्र किशनलाल जाति खटीक हि. 1/5 सा. चन्दलाई श्रीमति कुशलीदेवी पत्नि श्रवण कुमार हि. 2/5 जाति रेगर निवासी रामचन्द्रपुरा तह. सांगानेर
				4090	निजी	गै.मु. चाह	0.0200	गंगाधर पि. श्रीलाल हि. 2/5 सूरज मल पुत्र कजोड मल हि. 2/5 जाति बैरवा सा. देह. हनुमान पुत्र किशनलाल जाति खटीक हि.1/5 सा. चन्दलाई
				4098	निजी	चाही 4	0.0600	
				4099	निजी	बारानी 2	0.2100	बमवारीलाल मेहरड़ा पुत्र महादेव प्रसाद मेहरड़ा जाति बलाई निवासी 4 क -24 जवाहर नगर जयपुर हि. 4/5 हनुमान पुत्र किशनलाल जाति खटीक हि. 1/5 सा. चन्दलाई
				4702/11959	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.2000	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				11135	निजी	बारानी 2	0.6000	श्रीरीलाल पुत्र माधो गोपाल रामसहाय जगदीश पि. रतना रामफूल. रघुदयाल कन्हैयालाल सीताराम छुट्टन पि. गोविन्दराम जाति गूजर सा. छांदेल
				11138	निजी	बारानी 2	0.5000	छीतरमल पुत्र घासीराम जाति बारगांव ब्राह्मण नि.
				11142	निजी	गै.मु. नाला	0.0100	सीतारामपुरा
				11140	निजी	बारानी 2	0.0800	श्रीमति विनोदरानी मेहरड़ा पत्नि बी.एल.मेहरड़ा नि.4 क-24 जवाहर नगर जयपुर जाति बलाई
				11141	निजी	बारानी 2	0.1600	
				11144	निजी	बारानी 2	0.9500	
				11145	निजी	बारानी 2	0.0800	
				11146	निजी	बारानी 2	0.0050	
				11189	निजी	बारानी 2	0.1100	
				11190	निजी	बारानी 2	0.0700	चिरंजीलाल पुत्र पांचू जाति बैरवा सा.देह खातेदार
				11191	निजी	बारानी 2	0.3500	
				11737	निजी	चाही 4	0.1700	
				11738	निजी	चाही 4	0.3800	
				11741	निजी	चाही 4	0.1500	
				11742	निजी	चाही 4	0.1600	
				11747	निजी	गै.मु. चबूतरा	0.0400	
				11748	निजी	गै.मु. चाह	0.0400	
				11749	निजी	चाही 4	0.1100	नारायण पुत्र रामनाथ हि. 1/2 राहीन ज.ना. ऑ. ग्रामीण बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन कैलाशचन्द मुकेश पि. जगदीश हि. 4/10 गल्लीदेवी पत्नि जगदीश हि. 1/10 जाति जाट राहीन यू.को.बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन
				11750	निजी	चाही 4	0.1500	
				11759	निजी	बारानी 2	0.0100	
				11760	निजी	बारानी 2	0.0700	
				11758	निजी	बारानी 2	0.2300	
				11757	निजी	बारानी 2	0.1200	
				11756	निजी	बारानी 2	0.0700	
				11755	निजी	बारानी 2	0.2500	
				11761	निजी	बारानी 2	0.0400	
				11808	निजी	बंजड 1	0.0400	
				11850	निजी	तालाबी	0.0100	
				11851	निजी	तालाबी	0.0300	
				11852	निजी	तालाबी	0.0500	
				11853	निजी	तालाबी	0.0500	
				11854	निजी	तालाबी	0.0500	रामफूल जगदीश पि. रामचन्द्र हि. 2/3 रामकरण पुत्र रामचन्द्र पि.मु. काना हि. 1/3 जाति जाट सा.देह
				11855	निजी	तालाबी	0.0700	
				11856	निजी	तालाबी	0.0700	
				11857	निजी	तालाबी	0.1400	
				11858	निजी	तालाबी	0.1200	
				11860	निजी	तालाबी	0.1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11863	सरकारी	तालाब	0.0500	चरागाह
				11864	सरकारी	चरागाह	0.0300	
				11865	सरकारी	चरागाह	0.0400	
				11866	सरकारी	चरागाह	0.0600	
				11867	सरकारी	चरागाह	0.0400	
				11868	सरकारी	चरागाह	0.8500	
				11871	सरकारी	चरागाह	1.7500	
				11861	सरकारी	तालाबी	0.0400	
				11211	सरकारी	चरागाह	0.0700	
				11212	सरकारी	चरागाह	1.4600	
				11226	सरकारी	चरागाह	0.0500	
				11762	सरकारी	गै.मु. नहर	0.0500	सिचाई विभाग
				11763	निजी	बारानी 2	0.2800	रामफूल पुत्र रामचन्द्र गोपी पुत्र रामनाथ जाति जाट सा.देह खातेदार
				11764	निजी	बारानी 2	0.5600	
				11765	निजी	बंजड 1	0.3600	
				11766	निजी	गै.मु. सड़क	0.1400	
				11774	निजी	चाही 4	0.0100	
				11775	निजी	चाही 4	0.0100	
				11208	निजी	बारानी 2	0.4300	कन्हैयालाल पुत्र धन्ना हि. 141/166 व घीसी देवी पत्नि कन्हैयालाल हि. 25/166 जाति बैरवा सा. देह
				11209	निजी	गै.मु. रास्ता	0.0100	
				11210	निजी	बारानी 2	0.2000	
				11130	निजी	बारानी 2	0.6100	चुन्नीलाल पुत्र ग्यारसा हि. 1/8 ज्ञानचन्द पुत्र ग्यारसा हि. 1/8 प्रभूदयाल गोकुल पि. महादेव हि. 1/8 शंकर पुत्र आनन्दा हि. 1/48 बाबूलाल पुत्र आनन्दा हि. 1/16 दाखादेवी पत्नि कालूराम हि. 117/310 जाति रेगर गीतादेवी पत्नि शंकरलाल हि. 1/24 जाति खटीक लक्ष्मीदेवी पत्नि चुन्नीलाल हि. 38/310 जाति बैरवा सा.देह
				11132	निजी	बारानी 2	0.0100	चुन्नीलाल पुत्र ग्यारसा हि. 1/8 ज्ञानचन्द पुत्र ग्यारसा हि. 1/8 प्रभूदयाल गोकुल पि. महादेव हि. 1/8 बाबूलाल पुत्र आनन्दा हि. 1/16 मुशीराम पु. मोहनलाल खटीक हि. 1/16 दाखा देवी पत्नि कालूराम हि. 1/2 जाति रेगर साकिन सांगानेर
				11133	निजी	बारानी 2	0.4600	
				11134	निजी	बारानी 2	0.0700	
				11809	सरकारी	बंजड 1	0.0600	राजकीय सिवायचक भूमि
				11192	निजी	बारानी 2	0.0100	श्रीमती प्रेम देवी पत्नि भोमा राम जाति बैरवा सा. देह
		(16) श्री भगवानपुरा	354/833	सरकारी	गै.मु. नाडा		0.0100	राजकीय सिवायचक भूमी
			374	सरकारी	बारानी 2		0.0900	
			519	सरकारी	बंजड 1		0.0800	
			622/868	सरकारी	बारानी 2		0.1900	
			25	निजी	बारानी 2		0.0400	इन्द्रपालसिंह पुत्र दुर्गा सिंह जाति जाट हि. 2/5 सी-25 देवनगर जयपुर बैजनाथ रामरख पि.श्रीनारायण हि.2/5 श्रीमति राजीदेवी पत्नि रामफूल हि. 1/5जाति जाट दर हि. 1/2 जगदीश पुत्र रामजीवण हि.1/4रामचन्द्र पुत्र मोहरू व रामकरण पुत्र रुग्नाथ हि.1/4 जाति बैरवा सादेह खातेदार
			26	निजी	बारानी 2		0.0900	
			27	निजी	बारानी 2		0.3900	
			28	निजी	बारानी 2		0.1300	
			29	निजी	बारानी 2		0.0500	
			774	निजी	बारानी 2		0.0700	श्रीमति रसमी देवी पत्नि गंगाराम मीणा सा. कि. झांपदा कला
			775	निजी	बारानी 2		0.0600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				343	निजी	चाही 2	0.3500	उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह व मोहनीदेवी स्त्री उम्मेद सिंह हि. 514/607 हि. बराबर सा.देह अशोक कुमार पुत्र कालूराम जाति बैरवा सा.देह हि.93/607
				344	निजी	बंजड 1	0.0500	
				345	निजी	चाही 2	0.1900	
				346	निजी	बंजड 1	0.0100	
				376	निजी	बंजड 1	0.1300	
				377	निजी	बंजड 1	0.0800	
				510	निजी	बारानी 2	0.1700	
				511	निजी	बारानी 2	0.3800	
				512	निजी	बंजड 1	0.0100	ग्यारसा काल्या रामचन्द्रा घासी पि. झूगा जाति चमार सा. निमोड़िया खातेदार
				9	निजी	बारानी 2	0.0400	
				13	निजी	बारानी 2	0.1700	
				14	निजी	बारानी 2	0.5500	
				15	निजी	बारानी 2	0.1400	ग्यारसा काल्या रामचन्द्रा घासी पि. झूगा जाति बैरवा सा. निमोड़िया खातेदार
				18	निजी	बारानी 2	0.0400	
				10	निजी	बारानी 2	0.1000	
				12	निजी	बारानी 2	0.0900	
				16	निजी	बारानी 2	0.0100	लोडच्या पुत्र तेजाराम जाति मीणा निवासी मिडक्यावास तह. चाकसू
				73	निजी	चाही 3	0.0400	
				75	निजी	चाही 3	0.0600	
				76	निजी	बारानी 2	0.0400	
				77/850	निजी	बारानी 2	0.0400	
				79/851	निजी	बारानी 2	0.0400	
				80	निजी	बारानी 2	0.0600	राजकीय भूमि चरागाह
				81	निजी	बारानी 2	0.0100	
				85	निजी	चाही 2	0.0200	
				370	सरकारी	चरागाह	0.0200	
				77	सरकारी	चरागाह	0.1200	
				78	सरकारी	चरागाह	0.1000	
				79	सरकारी	चरागाह	0.0600	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				372	सरकारी	गै.मु. पाल	0.0200	
				1/874	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.1400	
				7/878	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.0100	
				11/875	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.0500	गंगा देवी पत्नी भौरीलाल जाति बलाई हि. 1/6 वार्ड नं. 17 चाकसू, मु. लक्ष्मा बेवा घासी रामस्वरूप पि. घासी रामकरण पुत्र रुगन्नाथ हि. 1/3 रामजीवण रामचन्द्रा पि. मोहरु हि. 1/2 कोम बैरवा सा. निमोड़िया रहन रामकरण पुत्र रुगन्नाथ हि. 1/6 जयपुर नागौर औद्योगिक ग्रामीण बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन
				82	निजी	बारानी 2	0.0200	
				83	निजी	बारानी 2	0.0600	
				84	निजी	बारानी 2	0.2300	
				88	निजी	बारानी 2	0.1700	
				90	निजी	बारानी 2	0.0300	
				91	निजी	बारानी 2	0.1400	
				92	निजी	बारानी 2	0.1400	
				93	निजी	बारानी 2	0.1600	
				94	निजी	बारानी 2	0.2100	
				95	निजी	बारानी 2	0.0300	
				96	निजी	बारानी 2	0.0600	
				100	निजी	बारानी 2	0.1500	कन्हैयालाल पुत्र नानगराम हि. 5/6 कैलाश पुत्र प्रभात हि. 1/6 कोम बैरवा सा. चाकसू
				101	निजी	बारानी 2	0.0200	
				385	निजी	बारानी 2	0.0900	
				386	निजी	बारानी 2	0.1800	
				387	निजी	बारानी 2	0.2300	
				388	निजी	बारानी 2	0.0300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				102	निजी	बारानी 2	0.0600	गोकुल पुत्र श्रीया हि. 37/167 जाति बैरवा सा. देह तीजादेवी पत्नि कजोड़मल कमलादेवी पत्नि रेवडराम भागोत पत्नि प्रह्लाद, मीरा पत्नि परसराम हि. 130/167
				755	निजी	बारानी 2	0.0100	मोती पि. धन्ना मांगी बेवा धन्ना हि. 1/3 गोरुराम महादेव रामजीलाल तेंजराम पि. छोदू हि. 1/3 कोम चमार सा. देह खातेदार रहन मन्नादेवी बेवा सोहन श्रवण छोदूराम पि. सोहन हि. 1/18 काना ग्यारसा पांचू पि. चन्दा जानकी बेवा चन्दा हि. 4/18 बट्टी प्रभू अर्जुन भगवान्या मोहन पप्पू पि. नाथू लक्ष्मी बेवा नाथू हि. 1/18 जयपुर नागौर औचलिक ग्रामीण बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन
				756	निजी	बारानी 2	0.0400	
				758	निजी	बारानी 2	0.0400	
				759	निजी	बारानी 2	0.1100	
				760	निजी	बारानी 2	0.0700	
				762	निजी	बंजड़ 1	0.1900	
				763	निजी	बारानी 2	0.0700	
				764	निजी	बारानी 2	0.0700	
				765	निजी	बारानी 2	0.0500	
				766	निजी	बारानी 2	0.0300	
				767	निजी	बारानी 2	0.0200	
				768	निजी	बारानी 2	0.1500	
				769	निजी	बारानी 2	0.0200	
				499	निजी	चाही 3	0.1100	भौरीलाल जगदीश कालू मंगला पि. जगन्नाथ कौम बैरवा सा. बीड़ पीनारपुरा
				500	निजी	चाही 3	0.1800	
				501	निजी	चाही 3	0.0600	
				505	निजी	चाही 3	0.1800	
				506	निजी	चाही 3	0.1500	
				507	निजी	चाही 3	0.0100	
				508	निजी	चाही 3	0.1200	
				509	निजी	बंजड़ 1	0.0500	रामदेव पुत्र बरदा कौम बैरवा सा. बीड़पीनारपुरा
				485	निजी	बारानी 2	0.4700	
				502	निजी	चाही 3	0.0300	बालू रामनारायण पि. कल्याण हि. 1/4 श्योपाल मन्ना गोपाल पि. गणेश हि. 3/16 मूलीदेवी बेवा काना जगदीश पप्पू पि. काना हि. 1/16 मांगीलाल देवनारायण पि. गोपी हि. 1/4 रंगन्नाथ पुत्र मुण्डा हि. 1/4 कोम मीणा सा. बीड़पीनारपुरा राहीन जयपुर नागौर औचलिक ग्रामीण बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन मांगीलाल देवनारायण पि. गोपी हि. 1/4
				611	निजी	बारानी 2	0.0100	
				612	निजी	बारानी 2	0.4400	
				613	निजी	बारानी 2	0.1600	
				616	निजी	बारानी 2	0.0100	
				617	निजी	बारानी 2	0.2800	श्रीमति शवर ककर पुत्री लक्ष्मण सिंह चौहान पत्नि कल्याण सिंह राठौड़ जाति राजपूत सा. नालावास (टापरिया) तह. लालसोट (स्टे. रेफरेंस अब्दुलरहमान)
				485/861	निजी	बारानी 2	0.0200	
				622	निजी	बारानी 2	0.0500	अशादेवी पत्नि गोरी शकर धीया जयपुर
				618	निजी	बारानी 2	0.1700	
				619	निजी	बारानी 2	0.1800	
				620	निजी	बारानी 2	0.0400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				117	निजी	बारानी 2	0.0200	धापू देवी पत्नि रामरखा मदन लाल कैलाश चन्द गोपाल लाल कन्हैया लाल पि. रामरखा 1/4 गिराज हरिनारायण राजेन्द्र बाबूलाल पि. केशरलाल हि. 1/4 जाति माली साठ निमोड़िया, मु. गौरादेवी बेवा श्रीला, गोकुल, रेवठ प्रहलाद प्रमोदराम पि. श्रीला हि. 5/6 तीजा देवी बेवा कजोड़, मुकेश पु. कजोड़ हि. 1/6 दर हि. 1/2, हरिनारायण पुत्र केशर लाल हि. 1/16 रहिन भूमि विकास बैंक चाकसू
				379	निजी	बंजड़ 1	0.0800	कन्हैयालाल पुत्र नानगराम हि. 5/6 कोम बैरवा, कैलाश पुत्र प्रभात जाति बैरवा ना.बा. बली प्रभात गोपी बैरवा सा. खातेदार हि. 1/6
				493	निजी	बंजड़ 1	0.0059	भौरीलाल जगदीश कालू मंगला पि. जगन्नाथ कोम बैरवा सा. बीड़ पनारपुरा
				504	निजी	चाही 3	0.0050	
				610	निजी	बारानी 2	0.0100	बालू रामनारायण पि. कल्याण 1/4 श्योपाल मन्ना गोपाल पि. गणेश भूली देवी पत्नि काना, जगदीश पप्पू पि. काना हि. 1/4 मांगीलाल देवनारायण पि. गोपी 1/4 रुगन्नाथ पुत्र सुण्डा 1/4 कोम मीना सा. बीड़पीनारपुरा
			(17) बिहारीलालपुरा उर्फ बीड़ पनारपुरा	695	निजी	बारानी 2	0.0300	कल्याण छोदू लछमन पांच्या गंगा पि. काना हि. 1/2 मंगलाराम बदरीनारायण पि. गंगलया, बोदीलाल पु. बदरीनारायण सा.कि. गोविन्दपुरा हि. 1/2 मीना सा.देह खातेदार
				696	निजी	बारानी 2	0.0100	
				697	निजी	बारानी 2	0.0500	
				768	निजी	बारानी 2	0.2500	
				769	निजी	बारानी 2	0.1500	
				770	निजी	बारानी 2	0.1200	
				767	निजी	बारानी 2	0.1600	
				766	निजी	चाही 3	0.0100	
				776	निजी	बारानी 2	0.3200	
				771	निजी	बारानी 2	0.0800	
				773	निजी	बारानी 2	0.0100	
				775	निजी	बारानी 2	0.5500	
				777	निजी	बारानी 2	0.1400	
				778	निजी	बारानी 2	0.0700	
				779	निजी	बारानी 2	0.0200	
				780	निजी	बारानी 1	0.2000	श्योराम रामपाल बाबूलाल पि. पूरया हि. 3/4 नानगी बेवा रामकिशन हि. 1/4 दर हि. 1/2 राहीन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा लि. चाकसू देवकरण पि. मु. पुन्या हि. 1/2 कोम बैरवा सा.देह खातेदार
				782	निजी	बारानी 1	0.0100	
				794	निजी	बारानी 1	0.3400	
				793	निजी	चाही 3	0.3100	
				792	निजी	चाही 3	0.0300	
				791	निजी	चाही 3	0.1100	
				761	निजी	चाही 2	0.0400	जगन्नाथ हरनाथ नैनुराम सीताराम मोहनलाल पि. महादेव हि. 5/32 प्रहलाद छोदूराम पुत्र रामकुवार लल्ली पत्नि रामकुवार लाली पुत्री रामकुवार कंसर पुत्री रामकुवार ना.बा. संरक्षक मां लल्ली हि. 1/32 राजकमल पुत्र श्रवणलाल लच्छी पत्नि श्रवण लाल कजोड़ी पुत्री श्रवणलाल ना.बा. संरक्षक मां लच्छी हि. 1/32 पारादेवी पत्नि बिच्छीचन्द हि. 1/32 गोबिन्दा पांच्या पि. छाजू हि. 1/2 हि.ब. मांगीदेवी बेवा नारायण श्रीलाल गोखन पुत्र नारायण हि. 1/4 कोम मीना सादेह खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				784	निजी	गै.मु.घाह	0.0400	रामलाल प्रभूदयाल भगवान सहाय गंगाराम गोपाल चन्दालाल पि. भौरीलाल हि. 1/2 हि.ब. अर्जुन पुत्र मूलचन्द हि. 1/2 कौम बैरवा
				785	निजी	चाही 3	0.0900	
				786	निजी	चाही 3	0.0700	
				807/1187	निजी	गै.मु.नहर	0.0900	
				816	निजी	चाही 3	0.0500	
				817	निजी	चाही 3	0.0300	
				815	निजी	चाही 3	0.1200	
				813	निजी	चाही 3	0.2000	
				814	निजी	चाही 3	0.0800	
				810	निजी	चाही 3	0.0200	
				811	निजी	बारानी 2	0.0500	चरागाह
				812	निजी	बारानी 2	0.0900	
				829	सरकारी	चरागाह	2.3000	सिचाई विभाग
				828	सरकारी	गै.मु. कुआ	0.0300	
				807	सरकारी	गै.मु. नहर	0.0800	राजकीय सिवायक भूमि
			(18) तीगरिया	584	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0200	
				649/2		बारानी 2	0.2400	आनदा पुत्र गोपी जाति गूजर सा.देह राहिन एस.बी.बी. जे. शाखा चाकसू मूर्तहीन
				585	निजी	नहरी 2	0.0400	
				586	निजी	नहरी 2	0.3200	
				587	निजी	नहरी 2	0.4800	
				640	निजी	नहरी 2	0.1200	कालू पुत्र जीवण जाति गूजर सा.देह
				453	निजी	बारानी 2	0.9400	
				650	निजी	बारानी 2	0.1000	गुलाब देवी पत्नि स्व. गोबिन्दा हि. 1/2 राहीन एस.बी.बी. जे. शाखा चाकसू मूर्तहीन हरलाल पुत्र सूज्या जाति गूजर सा.देह हि. 1/2
				340	निजी	बारानी 2	0.1000	
				347	निजी	नहरी 2	0.3700	रुकमादेवी पत्नि प्रेमराज जाति गुर्जर
				348	निजी	चाही 4	0.0900	रुकमा देवी पत्नी प्रेमराज जाति गुर्जर हि. 9/39, सुशीला देवी पत्नी काशी नारायण जाति ब्राह्मण हि. 30/39
				349	निजी	चाही 4	0.2700	बिमलादेवी पत्नि चिरजीलाल बांढमण सा. जयपुर
				350	निजी	चाही 4	0.1800	
				351	निजी	गै.मु.चाह	0.0100	सुशीला देवी पत्नी काशी नारायण जाति ब्राह्मण
				352	निजी	चाही 4	0.2800	
				645	निजी	नहरी 2	0.0800	गुलाबदेवी पत्नि स्व. गोबिन्दा जाति गूजर राहीन एस.बी.बी.जे. शाखा चाकसू मूर्तहीन
				646	निजी	बारानी 2	0.0800	
				643	निजी	नहरी 1	0.1200	राजेश भगवान हेमराज पुत्र गिराज रुकमादेवी बेवा गिराज हि. 1/2 मागीलाल पुत्र दूला हि. 1/2 जाति गुजर सा.देह राहीन एस.बी.बी.जे. शाखा चाकसू मूर्तहीन
				563	निजी	बारानी 3	0.1800	बंदी पुत्र विशना हि. 1/8 रामलाल पि. गोपी हि. 1/24 राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा चाकसू गंगाराम सुखदेव पि. गोपी हि. 1/12, मोहन पुत्र कन्हैया कुला बेवा कन्हैया मैनी शान्ति देवी पुत्रियां कन्हैया हि. ब. 1/4 हरिनारायण पुत्र घासी हि. 1/4 रामस्वरूप पुत्र नारायण 1/8 नारायणी बेवा नारायण रामधन, रामकिशोर पि. नारायण हि.ब. हि. 1/8 जाति गूजर सा.देह
				569	निजी	बारानी 3	0.9800	
				564	निजी	बारानी 3	0.1900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				507	निजी	चाही 4	0.0900	बद्री पुत्र किशना हि. 1/2 रामलाल गंगाराम सुखदेव पि. गोपी हि. 1/2 क्रीम गूजर सा.देह
				508	निजी	चाही 4	0.1700	
				509	निजी	चाही 4	0.1800	
				510	निजी	चाही 4	0.1400	
				511	निजी	गै.मु. चाह	0.0200	
				512	निजी	चाही 4	0.0500	
				513	निजी	चाही 4	0.0100	
				515	निजी	नहरी 2	0.0100	
				516	निजी	नहरी 2	0.1200	
				574	निजी	नहरी 2	0.1700	
				354	निजी	नहरी 2	0.0100	नाथू पि.मु. रामकुमार जाति गूजर सा.देह
				386	निजी	चाही 2	0.2500	भीरीलाल रामराज बाबूलाल श्रीराम हरजीराम पुत्र मनफूला हि.ब. जाति गूजर सा.देह
				387	निजी	चाही 2	0.1200	
				393	निजी	चाही 2	0.0100	
				454	निजी	नहरी 1	0.0200	
				588	निजी	बारानी 3	0.3500	मांगीलाल पुत्र लालाराम जाति खटीक नि. चाकसू वार्ड नं.12
				583	निजी	बारानी 3	0.5500	मोहन पुत्र कन्हैया फूला बेरा कन्हैया नैनी शान्ति पुत्रियां कन्हैया जाति गूजर सा.देह
				389	निजी	गै.मु. चाह	0.1500	भीरीलाल रामराज बाबूलाल श्रीराम हरजीराम पि. मनफूल हि. 5/8 शंकर पुत्र भीरिया हि.3/8 जाति गूजर सा.देह
				639	निजी	बारानी 2	0.2700	रामप्रसाद राधाकिशन लालाराम मदनलाल पि. लादूराम जाति गूजर राहीन एस.बी.बी.जे. शाखा चाकसू मूर्तहीन
				642/828	निजी	बारानी 2	0.1000	
				649/830	निजी	बारानी 2	0.0500	
				644	निजी	बारानी 2	0.7600	
				647	निजी	बारानी 2	0.0300	रामप्रसाद लालाराम राधाकिशन मदनलाल पि. लादूराम हि. 180/200 ब.हि.ब. राहीन एस.बी.बी. जे. शाखा चाकसू मूर्तहीन व देवालाल नन्दराम पि. नाथू लाल हि. 20/200 हि. बरा. जाति गूजर सा.देह
				641	निजी	बारानी 3	0.2100	
				642	निजी	बारानी 3	0.1000	रामलाल गंगाराम सुखदेव पि. गोपी जाति गूजर सा.देह
				589	निजी	गै.मु. रास्ता	0.0400	
				590/1	निजी	बारानी 3	0.0600	
				341	निजी	नहरी 2	0.5500	
				342	निजी	नहरी 2	0.4000	रामलाल पुत्र नारायण हि. 1/8 गुलाबदेवी पत्नि स्व. गोविन्दा हि. 1/4 राहीन एस.बी.बी. जे. शाखा चाकसू मूर्तहीन, जगदीश पुत्र नारायण हि. 1/8 राहीन एस.बी.बी.जे. शाखा चाकसू, रामधन परमानन्द पि. नारायण हि. 2/8 हि.ब. हरलाल पुत्र सूर्या हि.1/4
				345	निजी	नहरी 2	0.2000	
				346	निजी	नहरी 2	0.0100	
				353	निजी	नहरी 2	0.0500	
				372	निजी	नहरी 2	0.0600	लादू पुत्र मेरू जाति गूजर राहीन एस.बी.बी.जे. शाखा चाकसू मूर्तहीन
				373	निजी	नहरी 2	0.0200	
				374	निजी	नहरी 2	0.1700	
				435	निजी	नहरी 2	0.1600	
				436	निजी	नहरी 2	0.3500	शंकर पुत्र भीरिया जाति गूजर सा.देह राहीन एस.बी.बी.जे. शाखा चाकसू मूर्तहीन
				437	निजी	नहरी 2	0.2400	
				390	निजी	चाही 2	0.2300	
				388/816	निजी	गै.मु. नहर	0.0400	
				558	निजी	बारानी 3	0.4700	हरिनारायण पुत्र घासा गूजर सा.देह
				517	निजी	नहरी 2	0.1200	हरिनारायण पुत्र घासा जाति गूजर सा.देह
				518	निजी	नहरी 2	0.1200	
				570	निजी	नहरी 2	0.3000	
				573	निजी	नहरी 2	0.1400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				383	निजी	बाही 2	0.0100	हरिनारायण पुत्र भरु जाति गुजर सा देह
				384	निजी	बाही 2	0.1600	
				385	निजी	बाही 2	0.3000	
				649/1	निजी	बारानी 2	0.5100	हरलाल पुत्र सुब्बा कोम गुजर सा देह गैर खातेदार
				257	निजी	बजड 2	0.1200	लालाराम पुत्र अया कोम गुजर सा देह राहीन एस.बी.बी. जे. शाखा मूर्तहीन
				380	सरकारी	गै.मु. नहर	0.0100	सिंहासचक
		(19)जयसिंहपुरा लोधा		985	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0100	राजकीय सिंहासचक भूमियां
				990	सरकारी	नहरी	0.0100	
				1117	सरकारी	गै.मु. नली	0.0300	
				1214	सरकारी	गै.मु. नली	0.0200	
				1455	सरकारी	बारानी 3	0.0200	
				1461	सरकारी	गै.मु. नली	0.0200	
				1465	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0400	
				1466	सरकारी	बजड 1	0.0600	
				1471	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0300	
				1525	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0300	
				1520	सरकारी	गै.मु. नली	0.0300	
				1537	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.1000	
				1561	सरकारी	गै.मु. नली	0.0200	
				1209	निजी	नहरी	0.0300	अमरा पि.मु. गुंथा जाति लोधा सा देह
				1217	निजी	गै.मु. चाह	0.0300	कालू पूरण सुब्बालाल सन्तु पि. हुकमा व मु. गंगा बेवा हुक्मा 1/2 अमरा पि. मु. गुंथा कल्याण पि. टेका हि. 1/3 बहि. ब. हरलाल पुत्र रुग्गनाथ व गुलाब बेवा रुग्गनाथ जाति लोधा हि. 1/3 दर हि. 1/2 नामगा धिरजी रामजीलाल पि. गुंथा हि. 1/6 जगन्नाथ मधुश लाल हीरालाल हरिनारायण पि. भोरिया हरनाथ रुपा पि. शंकर रामगोपाल नैनू रखा पि. भीवा हि. 1/3 व हि. बराबर जाति लोधा सा देह
				1208	निजी	नहरी	0.0500	किसन सीताराम पि. कल्याण जाति लोधा सा देह
				1215	निजी	नहरी	0.0800	
				1216	निजी	नहरी	0.1300	
				1574	निजी	नहरी	0.0200	मंगलराम पुत्र कंवलिया जाति लोधा सा देह
				1467	निजी	नहरी	0.0600	कल्याण रामसिंह पि. शंकर हि. 2/3 बिलारहम नाथूलाल पुत्र शंकर हि. 1/3 राहीन भूमि विकास बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन
				1469	निजी	नहरी	0.2500	
				1470	निजी	नहरी	0.2200	
				1472	निजी	नहरी	0.1200	
				1524	निजी	नहरी	0.3600	
				1530	निजी	नहरी	0.4700	
				1532	निजी	नहरी	0.3300	
				1533	निजी	नहरी	0.0300	
				1535	निजी	नहरी	0.0200	
				1414	निजी	नहरी	0.0100	
				1415	निजी	नहरी	0.0100	ग्यारसा पुत्र छोटू जाति लोधा सा देह
				1540	निजी	नहरी	0.2900	
				1560	निजी	बारानी 2	0.0600	
				1562	निजी	बारानी 1	0.1100	
				1411	निजी	बारानी 1	0.0200	घोस्या पुत्र छोटू जाति लोधा सा देह
				1519	निजी	नहरी	0.0600	छोतर पुत्र हरनाथ लोधा सा देह
				1539	निजी	नहरी	0.0900	छोटी पत्नि छोटू सुल्तान राजपाल पि. छोटू जाति लोधा सा देह
				1407	निजी	बारानी 1	0.0700	जगदीश कामा रामनारायण मातो मूल्या पि. मना जाति लोधा सा देह
				1545	निजी	नहरी	0.1000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1534	निजी	गै.मु. चाह	0.0400	जगदीश काना रामनारायण मोती मूल्या पि. मन्ना हि. 1/4 ब.हि.बराबर शंकर पुत्र रामसुखा हि. 1/2 मूल्या राधाकिशन पि. पन्ना हि. 1/4 हि.बराबर जाति लोधा सा.देह
				1405	निजी	बारानी 1	0.1000	जगदीश काना रामनिवास.मोती मूल्या पि. मन्ना राहीन हुक्मा पुत्र मांगू जाति लोधा सा.देह
				1220	निजी	नहरी	0.0200	जगदीश बन्शी मदन पि. रूपा केसर स्त्री रूपा जाति लोधा सा.देह हि.बराबर
				1222	निजी	चाही 1	0.0300	
				1204	निजी	नहरी	0.0300	
				1205	निजी	नहरी	0.3000	सरोज देवी पत्नि बृजपाल लोधा हि.1/4 जुगलकिशोर, पांचूराम बृजपाल पि. कल्याण मु. कस्तूरी बेवा कल्याण हि. 1/2 समफूल पुत्र पन्नालाल हि. 1/4 जाति लोधा सा.देह
				1207	निजी	नहरी	0.0300	
				1218	निजी	नहरी	0.0800	
				1219	निजी	नहरी	0.0700	
				1123	निजी	चाही 1	0.0300	
				1124	निजी	चाही 1	0.1600	
				1125	निजी	चाही 1	0.1800	झूठा पुत्र नैनू पि.मु. रामगोपाल जाति लोधा सा.देह हि. 1/3 नैनू पुत्र भीवा हि. 1/3 भूरी बेवा रखा रामकरण गंगाराम पुत्र रखा हि. 1/3 जाति लोधा सा.देह
				1213	निजी	नहरी	0.0900	
				1456	निजी	नहरी	0.0100	
				1457	निजी	नहरी	0.1700	
				1458	निजी	नहरी	0.2400	
				993	निजी	नहरी	0.2800	झूठा पुत्र रामगोपाल हि.1/6 नन्दू पुत्र भीवा हि. 1/6 रामकरण पुत्र रामरख हि. 18/44 आनंदीदेवी पत्नि हरिनारायण लोधा हि. 26/44 दर हि.1/6 हीरालाल हरिनारायण पि. भौरीलाल हि. 1/2 जाति लोधा सा.देह
				994	निजी	नहरी	0.2100	
				1126	निजी	नहरी	0.0400	
				1127	निजी	नहरी	0.0600	
				995	निजी	नहरी	0.1100	प्रभू पुत्र गोकुल जाति लोधा सा.देह
				1393	निजी	बारानी 1	0.0100	भूराराम रामू नन्दकिशोर गणेश पि. माघो हि. ब. जाति लोधा सा.देह
				1404	निजी	बारानी 1	0.3700	
				986	निजी	नहरी	0.0200	मु.दाखा बेवा म्होरिया श्योजी छीतर छोदू पि. म्होरिया जाति लोधा हि. 1/2 राहीन ज.ना. ऑ. ग्रामीण बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन धन्ना पुत्र बिशना हि. 1/2 जाति लोधा सा.देह
				1403	निजी	नहरी	0.0500	
				1408	निजी	बारानी 1	0.2300	मोहना पुत्र श्योरामा जाति लोधा सा.देह
				1409	निजी	बारानी 1	0.1100	
				1410	निजी	बारानी 1	0.3000	
				1452	निजी	नहरी	0.1900	रामजीलाल पुत्र नारायण हि. 1/3 धर्मनंद दयाराम मुकेश पि. केसरा चिरोजी बेवा केसरा हि. 1/3 कजोड पुत्र कानाराम हि. 1/3 जाति लोधा सा.देह
				1459	निजी	नहरी	0.3200	
				1460	निजी	नहरी	0.1600	रामपाल पुत्र मोहना जाति लोधा सा.देह
				1203	निजी	नहरी	0.0100	रूपचन्द पुत्र हीरालाल जाति लोधा सा.देह
				1531	निजी	नहरी	0.0300	रूपा पुत्र हुक्मा जाति लोधा सा.देह
				989	निजी	नहरी	0.1800	लक्ष्मीनारायण प्रभू भोज्या पि. भौरया हि.3/4 हि.ब. सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हि.1/4 जाति लोधा सा.देह
				991	निजी	नहरी	0.0700	लाला पुत्र श्रीकिशन व चून्या देवी पत्नि नन्दराम हि. 1/2 रामकरण पुत्र सुखपाल हि.1/2 जाति लोधा सा.देह
				992	निजी	नहरी	0.0200	
				1541	निजी	नहरी	0.2300	श्रीमति पारादेवी पत्नि लाला राम चुनियादेवी पत्नि नन्दराम नैनीदेवी पत्नि मोहनलाल हि.ब.जाति लोधा सा.देह
				996	निजी	नहरी	0.2100	सुज्या पुत्र नारायण जाति लोधा सा.देह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				987	निजी	नहरी	0.0200	प्रहलाद सीताराम सत्यनारायण पि. सोन्या जाति लोधा सा. देह
				988	निजी	नहरी	0.1300	
			(20) रामपुरा बुजर्ग	486	निजी	बारानी 3	0.2100	सुरेन्द्र कौर पत्नि जगतार सिंह, 3/47 बेस्ट, पंजाबी बाग व श्रीमति सुशीला कृपलानी पत्नि एम. आर. कृपलानी, जाति खत्री, सा0 ए.एस. 99, शालीमार बाग, दिल्ली।
				551	निजी	बारानी 3	0.3300	
				503/966	निजी	बारानी 3	0.0400	
				547	निजी	गै.मु. चाह	0.0100	
				548	निजी	बारानी 3	0.1000	स्वर्णदीपसिंह पुत्र सुखदेव सिंह, जाति पंजाबी, निवासी प्लाट नं0 2597/4, विडमपुरा, करोल बाग, दिल्ली।
				549	निजी	गै. मु.	0.0100	
				550	निजी	बारानी 3	0.0700	
				486/964	सरकारी	बारानी 3	0.1200	सिवायचक
				582	निजी	बारानी 3	0.3200	
				583	निजी	बारानी 3	0.0200	
				584	निजी	गै. मु. चाह	0.0200	
				585	निजी	चाही 3	0.1400	सीताराम, रामदयाल, गोपाल पि0 लाला, जाति माली, सा0 देह
				586	निजी	चाही 3	0.1500	
				586/948	निजी	बारानी 3	0.0800	
				587	निजी	बारानी 3	0.0800	
				608	निजी	बारानी 3	0.0200	
				609	निजी	बारानी 3	0.0100	
				588	निजी	बारानी 3	0.2500	जगदीश, गोपाल, बंदी पि0 लाला हिस्सा 1/4, भूरा पुत्र भोमा हि. 1/2, किशनलाल पुत्र कालूराम हिस्सा 1/8, जाति मीणा सा0 देह, कमला देवी पत्नि मांगीलाल चौधरी हिस्सा 1/8
				589	निजी	बारानी 3	0.0100	
				645	निजी	बारानी 2	0.0500	गोपी, नारायण पि0 गंगाविशन, जाति माली, सा0 देह खातेदार
				646	निजी	चाही 2	0.0100	
				662	निजी	चाही 2	0.0900	
				663	निजी	चाही 2	0.0900	
				649	निजी	चाही 2	0.0700	नाथी पत्नि जयनारायण, छोटादेवी पत्नि जुगलकिशोर, छोटादेवी पत्नि प्रहलाद जाति माली सा0देह
				647	निजी	चाही 2	0.1600	गोपाल, जगदीश, बंदी पि0 लाला हि0 1/4, भूरा पुत्र भोमा हि0 1/2 किशनलाल पुत्र कालूराम, हि0 1/8, हेमलता पत्नि चिरंजीलाल हि0 1/8, ब्राह्मण निवासी-90 श्रीरामनगर, झोटवाड़ा।
				648	निजी	चाही 2	0.1600	
				660	निजी	चाही 2	0.0800	भगवान सहाय पुत्र विजयलाल व तीजा बेवा विजयलाल जाति माली, सा0 देह
				661	निजी	गै. मु. चाह	0.0200	लाला पुत्र श्यामनारायण, हि0 1/8 किशनलाल पुत्र रामकुमार हि0 1/16, रमेश, रामस्वरूप, कमल, रामरतन पि0 नानगा मु. नारायणी बेवा नानगा हि0 1/16, हिब भूरा पुत्र भीमा, हि0 1/4, श्रवण पुत्र रामचन्द्र हि0 1/64, रामकुमार पुत्र चतरु, हि0 1/64, हीरा पुत्र बाल्या हि0 1/64, लक्ष्मीनारायण पुत्र तेजा हि0 1/64, जयनारायण, जुगलकिशोर, प्रहलाद पुत्र जोधा हि0 1/48 हि0 श्यामसुन्दर, रामस्वरूप, बाबूलाल पि0 पांच्या, लक्ष्मीदेवी बेवा पांच्या हि0 1/48, भगवान पुत्र विजयलाल, तीजा बेवा विजयलाल हि0 1/48, गोपी, नारायण, गंगाविशन हि0 1/8, भूरा पुत्र नारायण हि0 1/4, जाति माली, सा0 देह।
				674/941	निजी	चाही 3	0.0900	
				731	निजी	बारानी 1	0.1900	काल्या पुत्र चमना हि0 1/2, महादेव पुत्र गणेश हि0 1/2 जाति माली, सा0 देह
				731/942	निजी	चाही 3	0.1100	
				673/943	निजी	चाही 3	0.0400	
				732	निजी	बारानी 1	0.1100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				664	निजी	बारानी 2	0.0200	हीरा पुत्र बालू हि० 1/4, श्रवण पि० रामचन्द्र हि० 1/4, नैनादेवी बेवा रामकुमार, सीताराम, हनुमान पि० रामकुमार हि० 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र तेजा हि० 1/4, जाति माली सा० देह
				673	निजी	बारानी 2	0.0800	हीरा पुत्र बालू हि० 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र तेजा हि० 1/8, श्रवण पि० रामचन्द्र हि० 1/4, नैनादेवी बेवा रामकुमार, सीताराम, हनुमान पि० रामकुमार हि० 1/4, जाति माली सा० देह, श्रीमति मनीषा पत्नि महेन्द्र व रमा पत्नि नरेन्द्र सनाढ्य, जाति ब्राह्मण निवासी-ई-52, चितरंजन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर हि० 1/8
				667	निजी	बारानी 2	0.1400	
				665	निजी	गै.मु. मकान	0.0200	हीरा पुत्र बालू, श्रवण नि० मु. रामचन्द्र मु. नैनादेवी बेवा रामकुमार, सीताराम, हनुमान पि० रामकुमार, लक्ष्मीनारायण पुत्र तेजा जाति माली सा० देह
				666	निजी	बारानी 2	0.0100	
				674	निजी	बारानी 2	0.1300	हीरा पुत्र बालू हि० 1/4, नैनादेवी बेवा रामकुमार सीताराम, हनुमान पि० रामकुमार हि० 1/4, श्रवण पि० रामचन्द्र हि० 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र तेजा हि० 1/4 जाति माली, सा० देह
				675	निजी	चाही 2	0.0300	रामकुमार पुत्र कालू हि० 1/2, राहिन कोटक महेन्द्रा बैंक मुर्तहीन छगना पुत्र कालू हि० 1/2 जाति माली सा० देह
				661/961	सरकारी	गै.मु. चाह	0.0100	सिवायचक
				743	निजी	चाही 3	0.0100	जगदीश, गोपाल, बंदी पि० लाला हि० 1/4, भूरा पुत्र भोमा हि० 1/2, किशनलाल पुत्र कालूराम हि० 1/8, जगन्नाथ गुप्ता मेमारियल एजुकेशन सोसायटी जरिये चैयरमैन मनीष पुत्र जगन्नाथ गुप्ता, राहणी, दिल्ली हि० 1/8
				736	निजी	चाही 2	0.1000	भगवान सहाय पुत्र विजयलाल तीजा बेवा विजयलाल जाति माली सा० देह
				738	निजी	चाही 2	0.1400	
				733	निजी	बारानी 1	0.0100	पूरण पुत्र धन्ना व मु. पारा बेवा धन्नाराम, रामचन्द्र पुत्र मोहरू हि० 1/2 व लक्ष्मीनारायण पुत्र भूय हि० 1/2 जाति माली सा. देह
				734	निजी	बारानी 1	0.1100	
				735	निजी	बारानी 1	0.1400	
				743/939	निजी	चाही 3	0.4300	जगदीश, गोपाल, बंदी पुत्र लाला हि० 1/4, भूरा पुत्र भोमा हि० 1/2, किशनलाल पुत्र कालूराम हि० 1/8, हेमलता पत्नि चिरंजीलाल हि० 1/8, प्लॉट नं० 90, श्रीराम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर।
				737	निजी	चाही 2	0.1100	जयनारायण, जुगलकिशोर, प्रहलाद पि० जोधाराम व रमा बेवा जोधाराम जाति माली सा० देह
				725	निजी	चाही 2	0.0500	
				739	निजी	चाही 2	0.1400	नाथी पत्नि जयनारायण, छोटा देवी पत्नि जुगल किशोर, छोटा देवी पत्नि प्रहलाद जाति माली सा० देह
				740	निजी	चाही 2	0.0500	हीरा पुत्र बालू हि० 1/4, श्रवण पुत्र रामचन्द्र हि० 1/4, नैनादेवी बेवा रामकुमार, सीताराम, हनुमान पि० रामकुमार हि० 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र तेजा हि० 1/4, जाति माली सा० देह
				741	निजी	चाही 2	0.1200	
				741/945	निजी	चाही 2	0.0900	धन्ना पुत्र घासी जाति माली सा० देह
				742	निजी	गै. मु. चाह	0.0400	जगदीश, गोपाल, बंदी पि० लाला हि० 1/4 भूरा पुत्र भोमा हि० 1/2 किशनलाल पुत्र कालूराम हि० 1/8 जगन्नाथ गुप्ता एजुकेशनल सोसायटी जरिये चैयरमैन मनीष गुप्ता पुत्र जगन्नाथ गुप्ता रोहिणी, दिल्ली हि० 1/8
				849	निजी	चाही 3	0.0800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				836/938	निजी	बारानी 2	0.0800	जगदीश गोपाल, बंदी पि० लाला हि० 1/4, भूरा पुत्र भोमा हि० 1/2, किशनलाल पुत्र कालूराम हि० 1/8 जाति माली, कमलादेवी पत्नि मागीलाल चौधरी हि० 1/8 जाति जाट सा० काशू
				824	निजी	बारानी 2	0.3200	पारा देवी पत्नि ग्यारसी लाल जोगी, सा० नृसिंहपुरा तहसील सामानेर हि० 126/182, रामकुमार पुत्र कालू हि० 28/182, छगना पुत्र कालू हि० 28/182, जाति माली सा० देह
				746	निजी	बारानी 2	0.3800	
				827	निजी	बारानी 2	0.0500	
				808	निजी	बारानी 2	0.0500	प्रवीण कुमार पुत्र बबूलाल, संजय कुमार पुत्र भागचन्द जैन, सा० बाकसू 119/125 डी.सी. पाटनी पु. आनन्दीलाल जयन्त पाटनी हि. 6/125 सा. कि. जयपुर।
				809	निजी	बारानी 2	0.4000	लोजा बेवा विजयलाल माली सा० देह हि० 1/2, उषा पत्नि अशोक जाति अग्रवाल हि० 1/2, सा० बाकसू।
				823	निजी	बारानी 2	0.1500	सुगलविशार, प्रहलाद पि० जोधाराम हि० 1/2, जाति लोधा सा० जयसिंहपुरा, हीरालाल पुत्र पोमराज जाति महाजन निहारी कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर हि० 1/2
				819	निजी	बारानी 2	0.3300	
				810	निजी	चाही 2	0.0800	शंकरलाल पुत्र हरिनारायण जाति माली, सा० देह प्रवीण
				811	निजी	चाही 2	0.0500	कुमार पुत्र बबूलाल, संजय कुमार पुत्र भागचन्द जैन, अवध
				812	निजी	बारानी 2	0.0400	बिहारी पुत्र रामजीलाल शर्मा हि० 214/224, निवासी
				813	निजी	बारानी 2	0.0800	बाकसू
				816	निजी	गै.मु. चाह	0.0400	ललिता देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार जैन हि० 10/224, निवासी
				817	निजी	चाही 2	0.1900	डी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।
				818	निजी	बारानी 2	0.0500	
				732/940	निजी	बारानी 1	0.0200	रामनारायण पि. रामपाल जाति माली सा. देह खातेदार
				503	सरकारी	बारानी 1	0.1600	सिवायचक
				481/1	सरकारी	चारागाह	0.1100	चारागाह
				482	सरकारी	गै.मु. चाह	0.0200	चारागाह
				480	सरकारी	गै.मु. नाला	0.0050	चारागाह
			(21) महाचन्दपुरा	817	सरकारी	चारागाह	0.2500	चारागाह
				849	निजी	बारानी 2	0.0600	श्रीमती सीता शर्मा पत्नि खेतेन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण नि
				848	निजी	बारानी 2	0.0300	जयपुर
				850	निजी	चाही 3	0.0700	रत्न देवी पत्नि श्यामलाल अग्रवाल जाति महाजन नि
				847	निजी	चाही 3	0.0400	जयपुर
				851	सरकारी	चारागाह	0.1000	चारागाह
				852	सरकारी	बारानी 2	0.0800	
				837	निजी	चारागाह	0.0300	रामसुख, रामजीलाल, देवकरण पि. लाल कौम बलाई, सा. देह खातेदार
				853	सरकारी	बारानी 2	0.0200	
				854	सरकारी	चारागाह	0.0700	
				857	सरकारी	चारागाह	0.0100	चारागाह
				856	सरकारी	चारागाह	0.0200	
				855	सरकारी	चारागाह	0.0100	
				875	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0100	सिवायचक
				877	निजी	बारानी 2	0.0700	
				878	निजी	गै.मु. सड़क	0.1000	
				879	निजी	गै.मु. सड़क	0.0600	हरिनारायण पुत्र शोभनारायण जाट सा. देह खातेदार
				880	निजी	बारानी 2	0.0500	
				881	निजी	बारानी 2	0.0800	शोबी पुत्र कल्याण बलाई हि. 101/203, भरत लाखीवाल पुत्र सुयालाल लाखीवाल जाति बलाई नि. जयपुर हि०
				883	निजी	बारानी 2	0.0100	102/203

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900	सरकारी	बारानी 2	0.0500	सिवायचक
				901	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.0500	
				902	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.0600	
				903	निजी	गै.मु. खदडा	0.1700	
								शान्ति देवी पत्नि गोपीनाथ जाति बैरवा
				907/919	निजी	बारानी 2	0.0300	रामू प्रताप, श्योजी पि. कल्याण हि. 3/4 कौम बलाई, मैना देवी पत्नि रमेश चन्द जाति बलाई हि. 1/4
				906	निजी	बारानी 2	0.0100	शान्ति देवी पत्नि गोपीनाथ जाति बैरवा
				904	निजी	आवासीय, औद्योगिक प्रयोजनार्थ	0.1300	
				798	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.1000	आबादी भूमि
				797	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0400	सिवायचक
				795	सरकारी	बारानी 2	0.0900	
				794	निजी	बारानी 2	0.0400	रामस्वरूप पुत्र किसना कौम जाट सा. देह खातेदार
				804	सरकारी	चारागाह	0.0500	चारागाह
				818	निजी	बारानी 2	0.0100	श्रीमती सीता शर्मा पत्नि खेतेंद्र शर्मा जाति ब्राह्मण नि. जयपुर
				841	निजी	चाही 3	0.0050	रतन देवी पत्नि श्यामलाल अग्रवाल जाति महाजन नि. जयपुर
			(22) कोथून	57	निजी	बारानी 3	0.1300	बजरंगा पुत्र श्री कृष्ण लाला हि0 1/8, लाला, लालू गोरू पुत्र दोला हि0 1/8, भूरा, जगदीश पि0 रामपाल, 1/36 रामनिवास पुत्र रामकुंवार 1/36 किशनलाल जगदीश 1/36 रामगोपाल जमनलाल पि. चन्दा घासी, लाला, पि. रामनारायण हि. 1/12 मांगीलाल रामलाल पि. कल्याण हि. 1/12 हरिनारायण, माधो हि. 1/24 रामपाल पु. रामनाथ हि. 1/24 रामरस पु. रामकल्याण हि. 1/24 भूरा पु. गोरू 1/24 हजन जरीना बानो पत्नि हाजीमोहम्मद हनीफ 42/168 रामधारी पत्नि गिराजपुसाद 44/168 रामकरण, रामकिशोर बजरंगलाल पि. राधाकिशन 29/807 कमलादेवी पत्नि मांगीलाल हि. 70/807 निर्मला पत्नि महेन्द्रकुमार ब्राह्मण 5/48
				58	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0050	सिवायचक, मार्ग एवं पगडि़यौ
				1598	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0600	
				2111	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0300	
				73	निजी	बारानी 2	0.0500	नरेन्द्र कुमार पुत्र भैवरलाल सनाढ्य हि0 73/78, श्रीमति निर्मला सनाढ्य, हि. 5/78 दर हि0 1/3, रामरख, रामकिशन पि. रामरतन 1/6 रामजीवन पु. रामरतन 1/6 हीरा, हरिनारायण जगदीश पि. ओंकार हि. 1/3
				74	निजी	बारानी 2	0.0050	रामकिशोर पि0 हजारी हि0 1/3, सुरेश पुत्र जगदीश, मु. रूकया बेवा जगदीश, जाति जाट हि0 1/3, रामेश्वर पुत्र हजारी हि0 1/3 रहिन जयपुर नागीर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कोथून
				75	निजी	बारानी 2	0.0100	अम्बालाल, रामस्वरूप पि0 बजरंगा, राजा बेवा बजरंगा जाति जाट
				76	निजी	बारानी 2	0.0050	रामदयाल, रामलाल पि0 कालू, धीसी बेवा कालूराम जाति जाट
				77	निजी	बारानी 2	0.0100	नरेन्द्र कुमार पुत्र भैवरलाल सनाढ्य हि0 73/78, श्रीमति निर्मला सनाढ्य, हि. 5/78 दर हि0 1/3, रामरख, रामकिशन पि. रामरतन 1/6, रामजीलाल पुत्र रामरतन हि0 1/6, हीरा हरिनारायण जगदीश पि. ओंकार हि. 1/3
				79	निजी	बारानी 2	0.0050	
				80	निजी	बारानी 2	0.0050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				82	निजी	बारानी 2	0.0100	बैंक कौथून मुर्तहीन
				83/1	निजी	बारानी 2	0.0200	नरेन्द्रमान पुत्र दयाकिशन मान जाति जाट
				83/3	निजी	बारानी 2	0.0050	श्रीमति कुमारी देवी पत्नि चेलाराम जाति सिन्धी नि० जयपुर
				178	निजी	चाही 3	0.0800	रामराय, रामकिशोर, गैन्दीलाल, हजारी पि० रामनिवास गोरया, गोपाल पि० रघुनाथ जाति जाट
				226	निजी	नहर	0.0400	गोरू पुत्र रुघनाथ जाति जाट
				227	निजी	नहर	0.0100	
				228	निजी	चाही 2	0.0900	मंगीलाल पि० कल्याण हि० 5/12, रहिन बैंक, ज्याना बेवा
				229	निजी	बारानी 1	0.0300	कल्याण जाट हि० 1/6 बिना रहन, रामलाल पुत्र कल्याण
				230	निजी	बारानी 1	0.1100	जाति जाट हि० 5/12 रहिन जयपुर नागौर आंचलिक बैंक
				231	निजी	बारानी 1	0.0400	शाखा कौथून
				245	निजी	चाही 1	0.0300	
				246	निजी	चाही 1	0.0300	ओंकार, रामगोपाल, रामलाल पि० बजरंगलाल झमरी बेवा
				1021/2578	निजी	गै०मु०सड़क	0.0900	बजरंगलाल हि० 1/2 जगदीश पि०मु० गंगाराम हि०1/2
				247	निजी	चाही 1	0.0200	जाति जाट सा०देह
				1368	निजी	चाही ए	0.1200	जगदीश पि० मु० गंगाराम हि० 26/29 नवलकिशोर पुत्र शिवप्रताप ब्राह्मण, हरिनारायण पुत्र श्रवणलाल योगी राजशानी पत्नि चन्द्रशेखर शर्मा हि० 3/29
				1369	निजी	चाही ए	0.1400	नवलकिशोर पुत्र शिवप्रताप हि० 1/3 हरियाणा ब्राह्मण, हरिनारायण पुत्र श्रवणलाल योगी नि० बीलवा हि० 1/3, राजशानी पत्नि चन्द्रशेखर शर्मा नि. जयपुर हि० 1/3
				251	निजी	चाही 1	0.0500	सावलिया पुत्र छीतर जाति बागरिया नि विमलपुरा तह० सांगानेर
				1360	निजी	चाही ए	0.3300	जगदीश, नारायण, लक्ष्मीनारायण पि०रामनिवास शर्मा जाति ब्राह्मण नि० दुर्गापुरा जयपुरा
				252	निजी	चाही 1	0.0300	गुलचन्द पुत्र गोरया रहिन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक 1/4, सीताराम, शंकर, सुरेश पि० महाराम दाखा
				253	निजी	चाही 1	0.0400	बेवा महाराम 1/4 लक्ष्मण पि. श्योनारायण 1/4 रामधारी बेवा किशना 1/4 जाति जाट
				256	निजी	चाही 1	0.0400	बद्रीनारायण पुत्र रामसुख जाति बागडा ब्राह्मण नि० रामपुरा तह० सांगानेर
				257	निजी	चाही ए	0.0200	रामकिशोर, रामकरण, बजरंगलाल पि० राधाकिशन जाति जाट
				260	निजी	चाही ए	0.0500	
				261	निजी	चाही ए	0.0700	माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणजी सा० देह
				267	निजी	चाही ए	0.0600	
				1374	निजी	चाही ए	0.2300	
				1373	निजी	चाही ए	0.0500	
				1580	निजी	बारानी ए	0.0400	मूलचन्द, लक्ष्मण, रामेश्वर पि० रामनिवास
				1579	निजी	बारानी ए	0.0600	
				2235	निजी	बारानी ए	0.0200	
				268	निजी	गै०मु० चाह	0.0100	मूलचन्द, लक्ष्मण, रामेश्वर पि० रामनिवास 1/2 देवीलाल
				269	निजी	बंजड	0.0300	पुत्र रामरख व रामसहाय पुत्र सोहन लाल 1/2 जाति जाट
				1355	निजी	चाही ए	0.1600	सत्यनारायण पु. पोरखर हि० 1/3, मदनलाल पि० श्रीया हि० 1/3, कमला बेवा रामकरण, गणेश दत्तक पुत्र रामकरण हि० 1/3 जाति जाट रहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
				1353	निजी	चाही ए	0.1200	शाखा कौथून
				1358	सरकारी	गै०मु०सड़क	0.2200	सिवायचक मार्ग एव पगडडियाँ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1352	निजी	चाही ए	0.0400	रामरख पि० रामजीवन 1/2 औरार रामलाल रामगोपाल, पि० बजरंग लाल झमरी बेवा बजरंगलाल 1/4 रहिन जयपुर नागीर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कौधून, जगदीश पुत्र गंगाराम 1/4 जाति जाट
				1361	निजी	चाही ए	0.2700	जगदीशनारायण, लक्ष्मीनारायण पि० रामनिवास शर्मा पि० दुर्गापुरा
				1505	निजी	चाही ए वाणिज्यक 0.4	0.0900	रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
				1510	निजी	चाही ए	0.0800	हरवारी बेवा कालू घासी रामेश्वर, रामधन, रामलाल पि० कालू कौम जाट
				2289	निजी	बारानी 1	0.1800	
				1518	निजी	चाही ए	0.0100	शिवजीराम दत्तक पुत्र कल्याण जाति जाट
				1520	निजी	चाही ए	0.0900	जगदीश, रामनिवास पि० भूरा हि० 1/2, रामकिशोर, बदीनारायण, रामेश्वर, रामप्रसाद, रामदयाल पि० गणेश जाति जाट हि० 1/2
				2419	निजी	बारानी 1	0.3200	
				1537	निजी	चाही ए	0.0900	श्रीनारायण पुत्र सुखदेव जाति जाट
				1544	निजी	चाही ए	0.0050	सीताराम पुत्र रामचन्द्र 1/2 रहिन जयपुर जिला भूमि विकास बैंक शाखा चाकसू, रामप्रसाद रामस्वरूप पि. लक्ष्मीनारायण 1/10 रामकरण रामवतार पि. लक्ष्मीनारायण 1/10 घीसी बेवा लक्ष्मीनारायण 1/20 जमनादेवी पत्नि जगदीशनारायण 1/6 रामप्रसाद रामस्वरूप रामकरण रामवतार पि. लक्ष्मीनारायण 1/12 जाति जाट
				1546	निजी	चाही ए	0.0500	रामकिशोर पुत्र माधो जाट
				1536	निजी	चाही ए	0.0200	शंकर लाल पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण हि० 17/18, कौशलया देवी पत्नि मूलचन्द रमेश, श्रीराम मीतू पि० मूलचन्द हि० 1/18 दर हि० 1/2 रामप्रसाद गोविन्दनारायण बदीनारायण पि. हरिनारायण मु. स्वरूपा बेवा हरिनारायण रामकिशोर पु. माधो जाति जाट हि० 1/2
				1589	निजी	गै०मु० चाह	0.0200	कैलाश, बजरंगलाल पि० लक्ष्मीनारायण, 1/24 हरिनारायण रामकिशोर मूलचन्द पि. माधो 7/36 धन्नीदेवी पत्नि रामकरण, हनुमान, गिराज पि० रामकरण, हि. 55/288 रामराय पुत्र रामनारायण हि. 41/288 बदी पु. रामनारायण हि. 7/144 रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र हि. 41/144 सुखदेव जगदीश रामसहाय पि. श्योनारायण हि. 7/72 जाति जाट
				1594/2601	निजी	चाही ए	0.0800	रामराय पुत्र रामनारायण हि० 1/3, रुकमणी देवी पत्नि राधेशरण हि० 1/3, गिराज, हनुमान पि० रामकरण जाति जाट धन्नी पत्नि रामकरण हि० 1/3 रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक
				1594	निजी	चाही ए	0.2000	
				1581	निजी	चाही ए	0.0700	कैलाश चन्द बजरंग लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट
				1582	निजी	गै० मु० चाह	0.0150	हरबाई बेवा कालू घासी रामेश्वर, रामधन, रामलाल पि० कालू हि० 1/4, रामपाल पि० घासी 1/4, कैलाश बजरंगलाल पि० लक्ष्मीनारायण जाट हि० 1/2
				1611	निजी	बारानी ए	0.2100	
				1610	निजी	बारानी ए	0.1600	
				1613	निजी	चाही 1	0.0600	
				1614	निजी	चाही 1	0.0500	
				1612	निजी	चाही 1	0.1000	गीतादेवी पत्नि रामस्वरूप, 1/2, रामदयाल पि० श्रीबक्स जाति जाट हि० 1/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2214	निजी	बारानी ए	0.1500	श्रीमति अयोध्या देवी पत्नि सुरेश चन्द हि. 29/310, माधो पुत्र डूंगा 263/310 सुभाष व डोलिया पुत्र रामकल्याण, हि. 6/125 गोपाल पुत्र रघुनाथ 2/155 सूरजमल पु. जयलाल हि. 1/155 जाति जाट
				2202	निजी	बारानी ए	0.0700	राधाकिशन, रामसहाय पि० गोरू जाति जाट
				2203	निजी	बारानी ए	0.0400	मूलचन्द पुत्र गोरथा 1/4 रहिन जयपुर जिला सहकारी बैंक शाखा धाकरू, सीताराम, शंकर, सुरेश पि० महाराम हि० 1/4 लक्ष्मण पि० श्यामनारायण हि० 1/4 रामप्यारी बेवा किशना हि० 1/4 जाति जाट
				2434	निजी	बारानी ए	0.0500	कौशल्या पत्नि मूलचन्द, रमेश श्रीराम मिटू पि० मूलचन्द, रामप्रसाद, गोविन्द, वद्रीनारायण पि० हरिनारायण स्वरूपा देवा हरिनारायण रामकिशोर पु. मोघो हि० 1872/1900, श्यामजीराम पु. रामेश्वर हि० 1/2, श्रीमति धापू देवी पत्नि रणलाल जाट हि० 1/2 दर हि० 28/1900
				2433	निजी	बाडा बारानी ए	0.0500	मधो पुत्र गंगाविशन हि० 1/7, जमनालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हि० 1/14, बदीनारायण, कैलाश पि० रामकल्याण हि० 1/7, गोपाल, कालू, बजरंगा पि० लाल जाति जाट हि० 3/7, गौरीलाल पु. लक्ष्मीनारायण हि० 3/14
				2436	निजी	बारानी 1	0.0200	लक्ष्मीनारायण पुत्र उदा, जाति जाट
				2418	निजी	बारानी 1	0.1400	रामधन पु. हरिनारायण धीसी पत्नि हरिनारायण रामरख पु. उदा, तुलसीराम ओंकार पु. रामकरण जाति जाट, लक्ष्मीनारायण पुत्र उदा जाति जाट
				2417	निजी	बारानी 1	0.0500	लक्ष्मीनारायण रामरख पि० उदा 1/2 रामधन पुत्र हरिनारायण धीसी पत्नि हरिनारायण 1/4 तुलसीराम मदन ओंकार पि. रामकरण हि. 1/4 जाति जाट
				762	निजी	बारानी 1	0.0600	रामरख पुत्र उदा जाति जाट
				760	निजी	बारानी 1	0.0100	तुलसीराम, मदन ओंकार पि० रामकरण जाति जाट
				758	निजी	बारानी 1	0.0050	लक्ष्मीनारायण पुत्र उदा जाति जाट
				755	निजी	बारानी 1	0.0200	रामधन पुत्र हरिनारायण धीसी पत्नि हरिनारायण जाट
				2309	निजी	बारानी 1	0.0900	तुलसीराम, मदन ओंकार पि० रामकरण, रामरख पुत्र उदा जाट, सजिदा बेगम पत्नी अ० हकिम जाति मुस्लिम
				2310	निजी	बारानी 1	0.0800	लक्ष्मीनारायण पुत्र उदा जाट
				1053	निजी	चाही 3	0.0050	लक्ष्मीनारायण पुत्र उदा जाट
				2307	निजी	बारानी 1	0.2100	तुलसीराम, मदन ओंकार पि० रामकरण, रूपा पत्नि जगदीश विश्व, पित्त बजरंगसिंह लोधा सा.फि. जीवनपुरा
				2266	निजी	बारानी 1	0.0500	नारायण, श्यामजीराम, रामप्रसाद, मदन पि० घासी जाट
				2263	निजी	बारानी 1	0.0200	नारायण, श्यामजीराम, रामप्रसाद, मदन पि० घासी जाट
				2271	निजी	बारानी 1	0.2200	अयोध्या देवी पत्नि रामकिशोर हि० 1/7, मोहनी देवी पत्नि रामदयाल हि० 1/7, मधुसू देवी पत्नि जगदीश नारायण हि० 1/7, प्रमदेवी पत्नि शंकरलाल सुमित्रा देवी पत्नि सुरेश कुमार जाति जाट हि० 1/7, चन्दकिरण पत्नि महेश कुमार हि० 1/7, गौरीदेवी पत्नि रामेश्वर जाति लखेरा हि० 1/7, लल्ली देवी पत्नि तुलसीराम जाति ब्राह्मण नारायण श्यामजीराम रामप्रसाद मदन पि. घासी जाट नीलम नागपाल पत्नि राकेश नागपाल हि. 1/3, बीना बालान पत्नी सतीश बालान हि० 1/3, स्वाती जेठ पत्नी राजेन्द्र सिंह जैन हि० 1/3 साफेन जयपुर
				2272	निजी	बारानी 1	0.0300	लल्ली देवी पत्नि तुलसीराम जाति ब्राह्मण नारायण श्यामजीराम रामप्रसाद मदन पि. घासी जाट नीलम नागपाल पत्नि राकेश नागपाल हि. 1/3, बीना बालान पत्नी सतीश बालान हि० 1/3, स्वाती जेठ पत्नी राजेन्द्र सिंह जैन हि० 1/3 साफेन जयपुर
				2260	निजी	गै0मु0बाडा	0.0100	बजरंगलाल, जगदीश, नारायण, लक्ष्मण पि० रामनिवास बजरंग पुत्र सोन्या जाट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2262	सरकारी	गै0मु0मैदान	0.0200	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कौथून
				2273	निजी	बारानी 1	0.0600	रतिराम, रामरख पि0 जगदीश नारायण जाट रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक
				2276	निजी	बारानी 1	0.0800	बद्रीनारायण पुत्र रामनिवास जाट
				2274	निजी	बारानी 1	0.0800	
				2275	निजी	बारानी 1	0.0900	रतिराम, रामरख पि0 जगदीश नारायण जाट रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक
				2280	सरकारी	बारानी 1	0.3200	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार हि0 48/233 राजाराम पुत्र श्रवण हि0 185/223
				2281	निजी	बारानी 1	0.0200	राजाराम पुत्र श्रवण लाल जाति जाट
				2282	निजी	बारानी 1	0.1800	अम्बालाल, रामलाल, रामपाल पुत्र हरिनारायण 3/8 रहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, रामप्यारी बेवा हरिनारायण 1/8 काना पु. जगन्नाथ जाट 1/2 साकिन देह रहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
				787/2	निजी	बारानी 1	0.0700	सीताराम रामरख पि0 भूरा, भूली बेवा भूरा जाति जाट
				787/1	निजी	गै0 मु0 पेटोलियम	0.0100	अनिल कुमार गुप्ता पुत्र हुकम चन्द गुप्ता
				2308	निजी	बारानी 3 (बाड़ी)	0.2100	रामेश्वर, रामकिशोर पि0 हजारी, सुरेश पुत्र जगदीश रुकमा बेवा जगदीश अम्बालाल, रामस्वरूप पि0 बजरंगा राजा बेवा बजरंगलाल कालू पु. श्री कृष्ण राधा किशन रामरस पि. रामनिवास हि 1/12 घासी पु. श्रीया बद्री पु. रामरख बद्री पु. मंगला हि. 1/72 गुलाब देवी धर्मपत्नी पांचू राम प्रहलाद पु. पांचू राम हि. 1/3 घासी पु. रोड हि. 1/72 केसरलाल पु. माधो गेदीलाल पु. सुखदेव हि. 1/3 लच्छा पु. बाल्या 1/36 बैजनाथ, रामफुल, काना हि0 1/36, जगदीश रामनिवास पु. भूरा हि0 3/64 रामकिशोर बद्रीनारायण रामेश्वर रामप्रसाद रामदयाल पि. गणेश हि. 1/16 दर हि. 1/8 तुलसीराम मदन ओंकार पि. रामकरण हि. 1/144 लक्ष्मीनारायण हरीनारायण रामरख पि. उदा 3/144 शिवजीराम पु. लक्ष्मीनारायण हि. 1/36 रामरख पु. गणेश हि. 5/16 लालचन्द्र पि. रामराय 333/9024 बजरंगा पु. श्योनारायण रामनिवास पु. रामनाथ 1/32 रामकरण पु. भूरा 1/32 बद्री पु. कल्याण गोविन्दनारायण गिरधारीलाल शिवराज पि. बिरधीचन्द हि. 1/8 जाति जाट
				1024	निजी	बारानी 3	0.1300	बजरंगा पुत्र श्री किशन 1/8 लाला, लादू, गोरू पुत्र डोला 1/8 भूरा, जगदीश पि. रामपाल, 1/36 रामनिवास पुत्र रामकुंवार 1/36 किशनलाल पु. जगन्नाथ 1/36 रामगोपाल जमनालाल पि. चन्दा घासीलाल पि. रामनारायण 1/12 मांगीलाल रंगलाल पि. कल्याण 1/12 हरिनारायण पु. माधो 1/24 रामपाल पु. रामनाथ 1/24 रामरस पु. रामकल्याण हि0 1/24 भूरा पु. गोरू 1/24 हसन जरीना बानो पत्नि हाजी मोहम्मद हनीफ हि0 42/168 रामप्यारी पत्नि गिराजप्रसाद हि0 44/168 रामकरण रामकिशोर बजरंगलाल पि. राधाकिशन हि0 1029/807, कमला देवी पत्नि मांगीलाल हि0 70/807 निर्मला पत्नि महेन्द्र कुमार सनाढ्य ब्राह्मण जयपुर।
				1037	निजी	बारानी 3	0.1300	
				1038	निजी	बारानी 3	0.1100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1039	निजी	बारानी 3	0.0200	बदी, लादू, रामेश्वर पुत्र कालू हि० 1/3, श्योजी पुत्र रामरख हि० 1/5, रामकरण, रामचन्द्र पुत्र रामरख हि० 2/15, पारा पत्नी प्रताप, किशनलाल पुत्र प्रताप हि० 1/9, सीता राम पुत्र रामचन्द्र हि० 1/18, गौरया पुत्र रघुनाथ हि० 1/54, गोपाल पुत्र रघुनाथ हि० 1/54, रामराय, रामकिशोर, गेंदीलाल, हजारी पुत्र रामनिवास हि० 1/54, श्रीनारायण पुत्र सुखदेव हि० 1/18, रामप्रसाद, रामस्वरूप, रामकरण, रामोतार पुत्र लक्ष्मीनारायण, घीसी पत्नी लक्ष्मीनारायण हि० 1/36, गलखू पत्नी बजरंगा, सीता, गीता, प्रियंका पुत्रीया बजरंगा हि० 2/3, रामप्रसाद, रामस्वरूप, रामकरण, रामोतार पुत्र लक्ष्मीनारायण हि० 1/3 दर हि० 1/36 जाति जाट सा० देह
				1052	निजी	बारानी 3	0.8500	बदी लादू, रामेश्वर पि. कालू 31/244 मुकेश विकास पि. रामवतार हि. 50/244 दर हि 1/3 श्योजी पुत्र रामरतन 4/15 रामकरण पु. रामरख 1/15 सीताराम पुत्र रामचन्द्र, 1/18 पारा पत्नि प्रताप किशनलाल पु. प्रताप 1/9 रामराय रामकिशोर गेंदीलाल हजारी पि. रामनिवास 1/54 गौरया पु. रघुनाथ 1/54 गोपाल पुत्र. रघुनाथ 1/54 श्रीनारायण पु. सुखदेव 1/18 रामप्रसाद, रामस्वरूप, रामरख रामवतार, पि. लक्ष्मीनारायण घीसी पत्नि लक्ष्मीनारायण 1/36 गलकू पत्नि बजरंगा, सीता, गीता, प्रियंका पुत्रीया बजरंगा हि. 2/3 रामप्रसाद रामस्वरूप रामकरण पि. लक्ष्मीनारायण 1/3 दर हि 1/36.
				1070	निजी	बारानी 3	0.1500	ग्यारसी बेवा रामपाल, कानाराम पुत्र रामपाल जाति जाट
				1071	निजी	बारानी 3	0.0900	
				1072	निजी	चाही 3	0.1500	
				1080	निजी	चाही 3	0.0600	रामप्रसाद पुत्र रामा हि० 1/4 रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कौथून, रामा पि. दौला हि० 1/4 रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक कौथून, रामनिवास प्रभू पि. दौला हि० 1/2 जाति जाट
				1081	निजी	चाही 3	0.1100	
				1082	निजी	बारानी 2	0.3000	रामप्रसाद पुत्र रामा हि० 1/4 रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कौथून, रामा पि. दौला हि० 1/4 रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक कौथून, रामनिवास प्रभू पि. दौला हि० 66/82 जाति जाट, रुकमणी देवी पत्नी राधेशरण जाति महाजन, गौरव पुत्र हरिश गुप्ता हि० 16/82 दर हि० 1/2
				1083	निजी	बारानी 2	0.0600	गौरव गुप्ता पुत्र हरीश गुप्ता, 1/2 रामप्रसाद पुत्र रामा 1/4 रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक कौथून, रामा पुत्र दौला 1/4 जाति जाट रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक कौथून
				1084	निजी	बारानी 2	0.1000	
				1085	निजी	बारानी 2	0.1000	
				1086	निजी	बारानी 2	0.1300	
				1119	सरकारी	गै.मु. नाली	0.2000	सिवायचक नदियों एवं नाले
				1357	सरकारी	बारानी 2	0.2000	बंजड़ सिवायचक
				1358	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.2300	मार्ग एवं पगडड़ियों
				1356	निजी	बारानी 2	0.0400	मदनलाल पि. क्षीया, 1/3 कमला बेवा रामकरण, गणेश दत्तक पुत्र रामकरण 1/3 रहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक कौथून सत्यनारायण पु. पोखर 1/3
				1355	निजी	चाही ए	0.1700	
				1372	निजी	चाही ए	0.0200	
						योग	159.7750	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2009

S.O. 2748(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1811 (E), dated the 23rd July, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four/six laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.12 on the stretch of land from Km.18/700 to Km.52/481 (Jaipur - Tonk - Deoli Section) in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Badhate Kadam" and "Khabron Ki Dunia", both on dated the 3rd September 2009; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.18/700 to Km.52/481 (Jaipur - Tonk - Deoli Section) of the National Highway No.12 in the State of Rajasthan.

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the village	Khasra number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner / Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jaipur	1. Sanganer	(1) Sukhdevpura alias Nataniwala	11	Private	Residential	0.0952	Ramsharan S/o Motilal 33/47. Ashwarya Kumar S/o Ramesh Chand, Meera Devi W/o Ramesh Chand Dhanuopiya 14/47 @ 25/53 east Chupa M/s Narayan Harasald B-14 Hira Nagar Shipra Path Corner Gopalpura Bye pass Jaipur Share 28/53
				11/87	Private	Irrigated 3	0.0300	M/s Narayan Harasald B-14 Hira Nagar Shipra Path Corner Gopalpura Bye pass Jaipur
				12	Private	Commercial	0.1100	M/s Narayan Harasald B-14 Hira Nagar Shipra Path Corner Gopalpura Bye pass Jaipur 8760/9200 Ashwarya S/o Ramshchand Cheepa Sanganer 87/9200 Darshansingh s/o Premsingh Cast Sikhh 174/9200 New Delhi
				19	Private	Unirrigated	0.0050	Munni Devi W/o Rajendra Kumar. Santosh Gupta W/o
				20	Private	Unirrigated	0.0300	Ramawtar Mamta W/o Ramawtar Mahajan Jaipur.
				24	Private	Factory	0.0160	Manak Chand Bohara S/o Daan Mal Bohara
				22	Private	Irrigated	0.0300	Manak Chand Bohara S/o Daan Mal Bohara HUF Oil & Animal Food Industries Share 18/125. Rajnish M Bohra S/o Manak Chand Bohra Rajnis Sales Station Road Jaipur Share 31/250. Purna Devi W/o Jawahar Lal Saxena Rajnis Sales Station Road Jaipur Share 29/50 Prem Devi W/o Chotelal Share 38/50 Residence Ashawala
			(2) Mishra ka baadh (Murlipura)	26	Private	Irrigated 2	0.0300	Keshar W/o Nathuram Jat 37/1100 Lalulal, Babulal, Syojilal S/o Pratap singh 3/40 Kamla Nathi, D/o Pratap east Brahman Share 1/20, Hariom s/o Nandlal east Meena 3.8 @ 1063/2200 Ramnath s/o Harbaksh Meena 252/2200 Hariom s/o Nandlal 552/2200 Smt Dhapa Devi W/o Saravan Nathulal S/o Sarvan Mamma Devi Vinita D/o Sarvan Cast Jangid Share 259/2200
				27	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				28	Private	Unirrigated 2	0.0100	Manak s/o Dalmal 118/32 Rajnees s/o Manakchand 31/250
				29	Private	Unirrigated 2	0.0100	Porna Devi w/o Shrilal 29/50 Premdevi w/o Chotelal 38/50
				30	Private	Irrigated 2	0.0420	Panchulal, Lalaram, Karlashchand s/o Moolchand Brahman.
				38	Private	Unirrigated	0.0100	
				39	Private	Irrigated 2	0.0400	
				40	Private		0.0800	
				41	Private	Tourist Business	0.0400	M/s K. B Riknish and Tourist Centre Pvt. Ltd. Registered office 3 V 42 Jawahar Nagar Jaipur.
				44	Private		0.0200	
				44/115	Private	Irrigated 2	0.0224	M/s ABC Fintrade Pvt. Ltd. Registered Office Hadiyon Ka Rasta Jaipur
				44/116	Private	Irrigated 2	0.0224	Gulla S/o Chotti Lal Meena Residence Badi Ka Bas Share 167/2300 Ghanshyam s/o Jagdish Meena 37/2300 Kanaram s/o Chogaram yadav 93/1150 Bhanwarlal s/o Shrinarayan 9/1150 Rampashad s/o Moruram yadav 37/2300 Kanhaiyalal s/o Badrinarayan 1548/2300 Banwarilal s/o Manoharlal meena 307/2300
				46/112	Private	Irrigated	0.0300	Laxmi Narayan, Badri Narayan S/o Jagannath Haryana Brahman
				45	Private	Unirrigated 2	0.0800	Radhasharan, Kanhiyalal S/o Badri Narayan Nangi widow Badrinarayan Brahman
				65	Private	Commercial	0.1120	Gulraj Vaswani S/o Mohanlal Vaswani Pramotar Resid Group Of Hotel Pvt. Ltd Jaipur 2 V 91, Jawahar Nagar Jaipur
				56	Private	Commercial	0.0672	
				55	Private	Irrigated 2	0.0200	Gopal S/o Laxmi Narayan, Sitaram, Phool, Hanuman S/o Prabhu Narayan, Nangi widow Prabhunarayan Brahman
				52	Government	Abadi	0.0312	Jaipur Development Authority, Jaipur
				51	Private	Unirrigated 2	0.0050	
				50	Private	Unirrigated 2	0.0100	Ramkaran S/o Parma Mali 1/3 Lalaram, Karlash s/o
				49	Private	Irrigated 1	0.0144	Mulchand 1/3 Panchulal s/o Moolchand 1/3 Brahman

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				47	Private	Unirrigated 2	0.0208	Radheysham S/o Laduram Mahajan
				47/106	Private	Unirrigated 2	0.0050	Chokelal S/o Rampratap by caste Brahman
			(3) Badi Ka Was	6	Private	Industrial	0.0500	RIICO Ltd., Jaipur, (Sitapura)
				72	Government	Road	0.0100	Public Works Department
				139	Government	Road	0.0200	
				7	Private	Irrigated 2	0.0050	Shankarlal S/o Panchulal, Chandi Widow of Panchulal 1/16 Lakshminarayan, Mangalram, Gyarsa 1/4 Chothi widow of Sundarlal, Rameshwar s/o Sundarlal 1/16 Ramjilal s/o Gopilal 1/20 nenu Chanda Birdha s/o narayan 1/5 Govinda s/o Bhagwan 1/8 Bhanwarlal, Jagdish, Gulla Bhagwansahay, Hanumansahay, Shivram Babu s/o Chotulal, Birji widow of Chotulal 1/8 Ganesh Birdha Kalu s/o Bhoma 164/1400 Netram, Banwarilal, Babulal s/o Manohar Meena 186/1400
				74	Private	Irrigated 3	0.0050	
				128	Private	Unirrigated 4	0.0190	Badrilal S/o Narayan 1/3 Shankar, Gopal, Jainarayan S/o Ramnath Bhuri widow of Ramnath 1/3 Prabhathi widow of Kishana, Birdhichand kaluram s/o Kishna 1/3 Meena
				213	Private	Irrigated 2	0.0700	
				223	Private	Road	0.0200	
				224	Private	Irrigated 2	0.0800	
				75	Private	Unirrigated 1	0.0100	Kanhiyalal, Babulal S/o Ganesh 1/12 Birdha, Kalu S/o Bhoma 1/6 Lakshminarayan, Mangal s/o Gyarsa 1/4 Chandi W/o Panchulal, Shankarlal s/o Panchulal 1/16 Choti W/o Sundarlal Rameshwar Lal S/o Sunderlal share 1/16 ramjilal S/o Gopilal Share 1/20 nathu birda S/o Narayan Share 1/10 Ramotar S/o Nahnu Para Devi W/o Nahnu Share 1/20 Prahlad S/o Chanda Lali W/o Chanda Share 1/30 Suman Manju Rinku D/o Sitaram Phuli W/o Sita ram Share 1/60 Ghasi Lal Phoolchand S/o Govinda Share 1/8 Bhoril Lal Jagdish Gulla Bhagwan Sahay Hanuman Sahay Shivram Rambabu S/o Chotulal Barji W/o Chotu Share 1/8 Cast Meena
				77	Private	Unirrigated 1	0.0100	
				78	Private	Unirrigated 1	0.0050	
				79	Private	Unirrigated 1	0.0050	
				80	Private	Unirrigated 1	0.0050	Shankar Ramdhan S/o Nangaram Moti W/o Nanga ram Share 1/12 Jyana Devi W/o Chandlal Share 1/12 Pura S/o Chotu Share 1/12, Jainarayan Arjun Lal S/o Vijay Lal Rakesh S/o Vijaylal Minor Mata Rupa Devi, Rupa Devi W/o Vijay Lal, lala, Kalyan, Bhagwan, Ramlal, Ramnarayan S/o Ramchandra 1/12 Panchu S/o Mangala 1/12 Prabhu, Ramphool s/o Bhorilal 1/12 Jagdish, Pratap, Hiratal, Ramnarayan, Ramprashad Jagannath 1/8 Ramphool s/o Bhoora 1/4 Ramsahay, Gopal, Babulal s/o Nanga Meena 1/12
				81	Private	Unirrigated 1	0.0050	
				82	Private	Unirrigated 1	0.0050	
				83	Private	Unirrigated 1	0.0050	
				138	Private	Unirrigated 2	0.0800	
				140	Private	Road	0.0100	
				142	Private	Abadi	0.0900	
				143	Private	Irrigated	0.0050	
				171	Private	Irrigated 3	0.0900	
				172	Private	Unirrigated 2	0.0300	Kanhiyalal, Babulal S/o Ganesh 1/12 Birdha, Kalu S/o Bhoma 1/6 Laxminarayan, Mangalaram S/o Gyarsa 1/4 Chandi widow of Panchulal 1/16 Chothi widow of Sundarlal, Rameshwar s/o Sundarlal 1/16 Ramjilal, Gopilal 1/20 Nathu Birdha s/o Narayan 7/10 Ramavtar s/o Nenu paradiwi widow of Nenu 1/20 Prahlad s/o Chanda, Lali widow of Chanda, Suman, Manju, Rinku D/o Sitaram Minor Samrakshak Phooli, Phooli widow Sitaram, Ghasilal Phoolchand s/o Govinda 1/8 Bhorilal Jagdish, Gulla, Bhagwansahay, Hanumansahay, Shivram, Rambabu s/o Chotu, Mishri widow of Chotu 1/8 Meena
				173	Private	Irrigated 3	0.0500	
				174	Private	Unirrigated 1	0.0200	
				175	Private	Unirrigated 1	0.1700	Shankar Ramdhan S/o Nangaram Moti W/o Nanga ram Share 1/12 Jyana Devi W/o Chandlal Share 1/12 Pura S/o Chotu Share 1/12, Jainarayan Arjun Lal S/o Vijay Lal Rakesh S/o Vijaylal Minor Mata Rupa Devi, Rupa Devi W/o Vijay Lal, lala, Kalyan, Bhagwan, Ramlal, Ramnarayan S/o Ramchandra 1/12 Panchu S/o Mangala 1/12 Prabhu, Ramphool s/o Bhorilal 1/12 Jagdish, Pratap, Hiratal, Ramnarayan, Ramprashad Jagannath 1/8 Ramphool s/o Bhoora 1/4 Ramsahay, Gopal, Babulal s/o Nanga Meena 1/12
				119	Private	Unirrigated 1	0.0050	
				122	Private	Unirrigated 1	0.0100	Shankar, Bhagwan, Kaluram, Choturam, Motilal, Gendilal, Mulchand S/o Mangala Meena
				125	Private	Unirrigated 1	0.0050	
				126	Private	Unirrigated 1	0.0050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				127	Private	Unirrigated 1	0.0100	Rukma Devi Widow of Gyarsilal Meena
				135	Private	Unirrigated 1	0.0500	Chothmal S/o Surajmal Meena, Chaksu
				257	Private	Irrigated 2	0.0800	
				257/495	Private	Irrigated 2	0.0800	Kanaram, Nenuram, Bardichand, Jagdish, Gopal,
				257/496	Private	Irrigated 2	0.0600	Ramkaran S/o Ramnarayan Meena
				120	Private	Unirrigated 1	0.0100	Syonarayan s/o Sunda cast Meena
				137	Private	Unirrigated 2	0.0400	Kanhiyalal, Babulal S/o Ganesh 1/12 Birdha, Kalu S/o Bhoma 1/6 Lakshminarayan, Mangalram s/o Gyarsa 1/4 Chandi widow of Panchulal 1/16 Chothi widow of Sundarlal, Rameshwar s/o Sundarlal 1/16 Ramjilal, Gopilal 1/20 Nathu Birdha s/o Narayan 7/10 Ramavtar s/o nenu Paradevi widow of Nenu 1/20 Prahlad s/o Chanda, Lali widow of Chanda, Suman, Manju, Rinku D/o Sitaram Minor Samrakshak Phooli, Phooli widow Sitaram, Ghasilal Phoolchand s/o Govinda 1/8 Bhorilal Jagdish, Galla, Bhagwansahay, Hanumansahay, Shivram, Rambabu s/o Chotu, Mishri widow of Chotu 1/8 Meena
				176	Private	Residential	0.0400	Kalicharan S/o Kalyan Sahai Saini, Sanganer
				227	Private	Irrigated 2	0.0300	
				228	Private	Irrigated 2	0.0200	Shankar, Bhagwan, Kaluram, Choturam, Motilal, Gendilal,
				226	Private	Irrigated 2	0.0300	Mulchand S/o Mangala Meena
				225	Private	Irrigated 2	0.0100	Shyonarayan S/o Sunda Meena
				177	Private	Residential	0.0600	Vimla Devi W/o Kalyan Sahai Saini, Mali, Sanganer
				210	Private	Unirrigated	0.0100	Bheru S/o Nathya Chamar
				212	Private	Unirrigated 1	0.0700	Badrilal S/o Narayan 1/18 Shankar, Gopal, Jainarayan S/o Ramnath 1/18 Prabhati widow of Krishna Birdhichand Kaluram s/o Krishna, Syonarayan, Sundar, Gyarsa s/o Raghunath Manglya s/o Rampratap 1/2 Meena
				209	Private	Residential	0.0400	Shyonarayan S/o Sunda Meena
				255	Private	Unirrigated 1	0.1000	Jagdish S/o Birdhichand Meena
		(4) Beelwa Bujarg	1128	Private	Unirrigated 3	0.2200		Harinarayan S/o Kalyan Meena C-65, Saket Colony, Jaipur
			1127	Private	Unirrigated 3	0.1200		Purangiri Property Pvt. Ltd. C-66 Saket Colony, Adarsh
			1130	Private	Unirrigated 3	0.2800		Nagar Jaipur Director Rajesh Kumar S/o Nathulal Vijay Mahajan
			969	Private	Road	0.0300		Shrinath Nursari, Bilawa Partner Rakesh Kumar, Vijay S/o Nathulal Vijay Mahajan House No. C-66, Saket Colony, Adarsh Nagar, Jaipur.
			924	Private	Road	0.0200		
			925	Private	Irrigated 2	0.0900		Munni Devi W/o Rakesh Kumar Mahajan, R/o C-66
			968	Private	Irrigated 2	0.2400		Adarsh Nagar Jaipur
			923	Private	Unirrigated 2	0.3400		Comfort Firms Pvt. Ltd. Director Rakesh Kumar, Vijay S/o Nathulal Vijay C-66, Saket Colony, Adarsh Nagar Jaipur.
			908	Private	Unirrigated 2	0.0200		Giriraj Prasad, Manihar S/o Gop: Chand Manihar Maheshwari etc. Gangori Bazar, Jaipur
			909	Private	Irrigated A	0.0700		
			910	Private	Irrigated A	0.0500		Rameshwar, Ramratan S/o Bhorilal 1/2 Kanhiyalal S/o
			915	Private	Irrigated A	0.1400		Gyarasa 1/2 etc. Brahmin
			916	Private	Irrigated A	0.0700		
			907	Private	Unirrigated 2	0.1100		M/s Silver Lank Resorts Pvt. Ltd. Director B.P.G. Pannikar S/o Late K.P. Pannikar R/o 5 Mitra Nagar, Ramnagar, Sodala, Jaipur
			905	Private	Unirrigated 2	0.0600		
			906	Private	Unirrigated 2	0.0500		Harinarayan, Kanhiyalal S/o Kalyan 2/3 etc. Kumhar
			904	Government	Road	0.0300		Jaipur Development Authority, Jaipur
			829	Government	Unirrigated 2	0.0600		Government
			529	Private	Petrol Pump	0.0400		Petrol Pump
			823	Private	Unirrigated 1	0.0300		Prabhati Widow of Pratap, Jagdish, Radheyshyam, Madanlal S/o Pratap 1/8 etc. Brahmin
			612	Private	Irrigated 1	0.0400		
			618	Private	Irrigated 1	0.0400		Suwa S/o Balu 1/2 Gekha Widow of Kana 1/2 Bagda
			620	Private	Irrigated 1	0.0100		Brahmin
			621	Private	Banjar 1	0.0400		
			601	Private	Irrigated 1	0.0700		Puroshottamdas S/o Bhagirath, Radheyshyam S/o Puroshottam Mahajan, Jaipur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				609	Private	Irrigated 1	0.0100	Puroshottamdas S/o Bhagirath, Radheyshyam S/o Puroshottam Mahajan, Jaipur
				610	Private	Irrigated 1	0.0300	
				611	Private	Irrigated 1	0.0100	
				599	Private	Unirrigated 1	0.0100	Mangilal S/o Gulla 1/2 Jeevano Widow of Gulla 1/2 Bagda Brahmin
				600	Private	Unirrigated 1	0.0900	
				597/2239	Private	Irrigated 2	0.0100	
				378	Private	Unirrigated 1	0.0100	
				376/2053	Private	Unirrigated 1	0.0500	Roopnarayan, Hanuman S/o Harinarayan, Brahmin
				377	Private	Unirrigated 1	0.0300	
				384	Private	Irrigated 3	0.0300	
				598	Private	Unirrigated 1	0.0500	Bhimsen S/o Shivdayal by caste Khatri Sanganer
				533	Private	Khatili 1	0.0200	Mangilal S/o Gulla 3/4 Jeevano Widow of Gulla 1/4 Bagda Brahmin
				532	Government	Road	0.0100	Jaipur Development Authority, Jaipur
				527	Private	Unirrigated 1	0.0500	Pradeep Kumar S/o Shivcharan Mathur Kayastha, A-87, Shyamnagar Jaipur
				530	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				493	Private	Irrigated	0.0200	Mahakama Engineering Nahar
				487	Private	Irrigated 3	0.0400	
				489	Private	Irrigated 3	0.0600	G.S. Singhvi, Hindu Undivided Family S/o Madan Singh
				490	Private	Irrigated 3	0.0500	Singhvi New Rajendra Nagar Plot 489, New Delhi
				491	Private	Irrigated 3	0.0300	
				385	Private	Unirrigated 2	0.0700	Roopnarayan, Hanuman S/o Harinarayan 17/30, Sarju W/o Gopinath S/o Gopi Share 1/60 Ramashay Badri Birdi Chand S/o Kalyan Share 1/20 Bhorilal Prabhu S/o Bodu Lala S/o Gopal Share 8/30 Hanuman Sahay S/o Harinarayan Share 3/30 Cast Bhramin
				395	Private	Unirrigated 2	0.0600	Mrs. Rameshwari Bai W/o Mangilal, Pushpa Devi W/o Giriraj Prasad, Vijay Laxmi W/o Dwarkadas Sodhani Mahajan
				387	Private	Unirrigated 2	0.0300	Ramjeevan S/o Bhagala by caste Chamar
				393	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				394	Private	Unirrigated 2	0.0200	Nathulal S/o Gyarasilal, Rampratap S/o Shyola etc. Bairwa
				395/2040	Private	Unirrigated 2	0.0700	Govind Narayan, Narayan Lal S/o Rughnath Bairwa
				10	Government	Unirrigated	0.0400	Jaipur Development Authority, Jaipur
				13	Government	Unirrigated	0.0800	
				11	Private, Government	Unirrigated 2	0.0700	Above 1/2 Laxminarayan S/o Shri Ganesh, 1/4 Gangadevi W/o Ramchandra 1/4 Meena
				12	Private, Government	Unirrigated 2	0.0800	
				374	Private	Unirrigated 2	0.1700	Ramjeevan S/o Bhagala by caste Chamar
				373	Private	Khatili 1	0.0600	M/s Ajmera & Sons (H.U.F.) Jamanadas Ajmera S/o Ganeshnarayan Ajmera Share 1/3 Aarto W/o Vinod Vijayvargiya Share 2/3
				339	Private	Khatili 1	0.0600	
				336	Private	Khatili 1	0.0200	Vinod Kumar S/o Madanlal Vijayvargiya Mahajan
				337	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				333	Private	Khatili 1	0.0300	Bhanwari Devi W/o Madanlal Vijayvargiya, Janta Colony, Jaipur
				334	Private	Khatili 1	0.0200	
				312	Government	Canal	0.0200	Mahakama Engineering Nahar
				1132	Private	Irrigated 2	0.1200	
				1136	Private	Irrigated 2	0.0300	Jagdish S/o Bhorilal by caste Hari Brahmin
				1137	Private	Irrigated 2	0.0300	
				1176	Private	Irrigated 2	0.0700	
				1177	Private	Irrigated 2	0.0200	Jagdish, Harinarayan, Chothmal, Shankarlal, Hanuman S/o Bhorilal, Brahmin
				1182	Private	Road	0.0100	Puroshottamdas S/o Bhagirath, Radheyshyam S/o Puroshottam Mahajan, Jaipur
				1183	Private	Irrigated 1	0.0700	
				1184	Private	Irrigated 1	0.0700	
				1185	Government	Abadi	0.0500	Government
				1210	Government	Abadi	0.1300	
				1214	Private	Unirrigated 1	0.0700	Omprakash, Chotelal, Trilokchand, Shankarlal S/o Shravan,
				1215	Private	Unirrigated 1	0.0300	1/2 Sita ram S/o Hanuman 1/8 Birdi chand S/o Jagannath
				1216	Private	Unirrigated 2	0.1000	Share 1/8 Govind S/o Shyonarayan Share 1/4 Cast Meena

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1217/2044	Private	Unirrigated 2	0.1100	Rameshwar, Ramratan S/o Bhorilal 1/2 Kanhiyalal S/o Gyarasi 1/12 Brahmin Gopi S/o Ghisa Share 1/12 Choturam 1/36 Sita Ram 1/36 S/o Birdha Sarvan Rakesh Ramothar Rajulal Kanaram S/o Ramkishore Sarswati W/o Ramkishore 1/36 Jagdish S/o Bodu 1/36 Badrinarayan Ramchandra S/o Bodu 1/3 Cast Bhramin
				1217	Government	Irrigated 2	0.0600	Jaipur Development Authority, Jaipur
				1211	Private	Unirrigated 1	0.0590	Omrakash, Chotelal, Trilokchand, Shankarlal S/o Shruvan Meena Sitaram S/o Hanuman 1/8 Birdi Chand S/o Jannath 1/8 Govinda S/o Shyonarayan 1/4
				1212	Private	Unirrigated 1	0.0100	
				1222	Private	Unirrigated 2	0.1100	
				1223	Private	Unirrigated 2	0.1000	
				1217/2051	Private	Unirrigated 2	0.0300	Mrs. Suman Goyal W/o Tarachand Goyal Agrawal Mahajan Residence Jaipur
				1217/2052	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				1372	Private	Unirrigated 3	0.0500	Kalyan S/o Bhagirath Meena 5/288, Mrs. Gyarasi W/o Shri Hanuman Meena 139/288 Chandrakanta W/o Trilokchand Agarwal 1/4 Bhuri Devi W/o Sukhdev 1/4 Cast Meena
				1374	Private	Irrigated 1	0.1700	
				1375	Private	Irrigated 3	0.0600	Laxminarayan S/o Shyonarayan 1/7 Babulal, Harinarayan, Laxminarayan S/o Rampratap Meena 3/7 Heera Lal S/o Madhoprasad 1/7 Ramnarayan S/o GangaBaks 1/7 Nanga S/o Kana Ram 1/7 Cast Meena
				1377	Private	Irrigated 3	0.1000	Laxminarayan, Babulal S/o Rampratap 2/7, Laxminarayan S/o Ganesh Narayan 1/7 Meena heera Lal S/o Madho Prasad 1/7 harinarayan S/o rampartap 1/7 nangaram S/o kanaram 1/7 Ramnarayan S/o GangaBaks 1/7 Cast Meena
				970	Private	Irrigated 3	0.5300	Sri Nath Narsim, Bilwa, Tehsil Sanganer
				335	Private	Khatili 1	0.0200	Vinod Kumar S/o Madanlal Vijayvargiya Mahajan
				922	Private	Irrigated 2	0.0400	Vijay S/o Nathulal Vijay, C-66, Saket Colony, Adarsh Nagar, Jaipur
				623	Government	Road	0.0200	Jaipur Development Authority, Jaipur
		(5) Manpura alias Nagaliya		175	Government	Unirrigated	0.4000	Jaipur Development Authority, Jaipur
				208	Private	Unirrigated 1	0.0400	Rampal S/o Narayan, Shantidevi D/o Bhura, Ramprasad S/o Bhura, Hemraj S/o Bhura 2/7 Ramprasad s/o Bhura 1/7 Hemraj s/o Bhura 1/7 Mamta, Lakshmi, Pooja, Nabalig D/o Bhura Sanrakshak Shanti 1/8 Paradevi Gopallal 23/88 Kani Devi w/o Chothmal Meena
				209	Private	Irrigated 2	0.0800	
				210	Private	Irrigated 2	0.0400	Birdhichand, Arjun S/o Moti, Jamna Widow of Moti 1/12 Rampal, Bhura 1/7 Hemraj Nabalig s/o Bhura 1/7 Mamta, Lakshmi, Pooja Nabalig D/o Bhura Sanrakshak Mother Shanti 1/8 Paradevi Gopallal 23/88 Kani Devi w/o Chothmal Meena
				211	Private	Banjar 1	0.0500	
				213/633	Private	Irrigated 2	0.0300	
				213	Private	Irrigated 2	0.0600	Kalidevi Widow of Bhorilal, Lalaram, Shankarlal S/o Bhorilal Meena
				216	Private	Irrigated	0.0100	Babulal, Giritaj S/o Prabhu, Birdhichand, Arjun S/o Moti Meena
				217	Private	Unirrigated 1	0.0300	
				220	Government	Unirrigated 1	0.0500	Ministry of Surface Transport
				169	Government	Road	0.0100	Jaipur Development Authority, Jaipur
				221	Private	Unirrigated 1	0.0600	Madholal, Sitaram S/o Shankarlal 1/2 Rameshwar s/o Badrinarayan 1/2 Brahmin
				222/1	Government	Residential	0.0800	Government
				222/2	Private	Irrigated 3		Bhagwansahai S/o Bishandas Patwari by caste Mahajan
				223	Private	Irrigated	0.0400	Rakesh Kumar, Vijay S/o Nathulal Vijay Mahajan
				228/1	Government	Residential	0.2000	Government
				228/2	Private	Irrigated 3		Rakesh Kumar S/o Nathulal Vijay, Mahajan
				229	Private	Unirrigated 1	0.0500	Sarladevi W/o Omprakash Gupta, Mahajan
				230	Private	Unirrigated 1	0.0700	Mrs. Asha Devi W/o Krishan Kumar, Rajnish Gupta S/o Omprakash Mahajan
				231	Private	Unirrigated 1	0.0900	
				136	Private	Irrigated 1	0.0800	
				137	Private	Irrigated 1	0.0300	Radhaswami, Sant Sang Vyas Derababa, Jaimal Singh Village Vyas District Amritsar
				140	Private	Religious Place	0.1200	
				141	Private	Irrigated 2	0.0700	Nanakram S/o Kanaram, Laxminarayan S/o Ganesh Narayan by caste Meena

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				142	Private	Irrigated 2	0.0300	Dakhadevi W/o Shankarlal, Kalyan sahay Kaluram s/o Manglya by cast Meena
				143	Private	Irrigated 2	0.0200	Bhuri Widow of Shankar, Madholal, Sitaram S/o Shankar by caste Bagda Brahmin
				144	Private	Unirrigated 1	0.0700	Kalidevi Widow of Bhorilal, Lalaram, Shankarlal S/o Bhorilal, 1/4 Ramsahai S/o Ramnarayan 1/4 Jyana w/o Moti 1/4 Kaluram s/o Manglya 1/4 kajod, Kalyansahay, Budhiprakash, Kailash s/o Chotu 1/4 Meena
				145	Private	Irrigated 2	0.1400	Babulal, Giriraj S/o Prabhu, Birdhichand, Arjun S/o Moti, Jayana W/o Moti Share 1/4 Shantidevi W/o Bhura Share 1/7, Ramprasad S/o Bhura Share 1/7 Rampal, Narayan, Hemraj s/o Bhura Share 1/7, Mamta, Lakshami, Pooja D/o Bhura Share 3/7 @ 1/4 Rampal S/o Narayan Share 1/4 Cast Meena
				172	Private	Irrigated 2	0.0800	Kalidevi Widow Bhorilal, Lalaram, Shankarlal S/o Bhorilal 1/4 Ramsahai S/o Ramnarayan 1/4 Kalyan sahay Kalu ram S/o Manglya 1/4 kajod, Budhiprakash, Kailash s/o Chotu 1/4 Meena
				170	Private	Irrigated 2	0.1400	Jaipur Development Authority, Jaipur
				171	Private	Irrigated 2	0.0800	Shobhadevi W/o Mohanlal, Manju W/o Lalchand Mahajan
				169	Government	Road	0.0200	Madholal, Sitaram S/o Shankarlal, 1/2 Rameshwar S/o Badrinarayan 1/2 by caste Bagda Brahmin
				254	Private	Unirrigated A	0.0600	Niwas And Bastiya
				253	Private	Unirrigated A	0.0800	Tarawati W/o Chand Bihari, Sabu by caste Maheshwari
				252	Private	Unirrigated A	0.0800	Phool Chand S/o Sohan Lal Saravagi
				250	Private	Unirrigated A	0.0100	Smt Taramati W/o Chand Bihari Sabu Cast Maheshwari Janta Colony Jaipur
				251	Private	Unirrigated A	0.0500	Smt. Suman Sabu W/o Shri Sarendra Sabu, 1/2 Smt. Sarla Sabu W/o Rajendra Sabu 1/2 Maheshwari
				249	Government	School	0.0300	Jaipur Development Authority, Jaipur
				248	Private	Unirrigated A	0.1300	Hari Narayan Gopal Lal, Prabhu Dayal S/o Baluram Brahman
				243	Private	Unirrigated A	0.0300	Bhuralal, Lalchand, Motilal, s/o Chunnilal, 1/2, Shrangari widow of Chunnilal 1/2 Dhapu Widow of Dhalu, Shankar S/o Dula, Laxmi Widow of Dula 1/2 by caste Bagra
				244	Private	Unirrigated A	0.0500	Amol Properties Private Ltd. Registered Office B-6/7, Saroj Apartment, Mahakali Main Road, Andheri East, Mumbai
				245	Private	Unirrigated A	0.0100	M.D. Sandeep Sapra S/o J.P. Sapra
				233	Private	Unirrigated A	0.0700	Hari Narayan, Gopal Lal, Prabhu Dayal S/o Baluram Brahman
				234	Private	Unirrigated A	0.0700	Jaipur Development Authority, Jaipur
			(6) Rajpura alias Mathurawala	366	Government	Banjar 1	0.0200	Rajneesh S/o Omprakash, Omprakash S/o Kundan Lal Gupta Mahajan, R/o Plot No. 1, Rajapark, Jaipur
				367	Government	Banjar 1	0.0100	Devdutt Gogia S/o Shivdayal Gogia Punjabi House No. 520 Gali No.6 Rajapark, Jaipur
				370/1	Private	Irrigated	0.0400	Jaipur Development Authority, Jaipur
				370/2	Private	Irrigated 3	0.0700	Farm Land Enterprises by Alok Khandelwal R/o Sokhiya Bhawan, Chaura Rasta, Jaipur
				371/2	Private	Irrigated	0.0200	Prabhat S/o Gyarasilal Meena, Murlipura, Jaipur
				361	Private	Unirrigated 1	0.1100	
				362/2	Private	Unirrigated-1	0.1400	
				363	Private	Unirrigated 1	0.2000	
				364	Government	Unirrigated	0.3600	
				358	Private	Irrigated 3	0.0500	
			(7) Ajayrajpura	307	Private	Commercial	0.1600	
				313	Government	Unirrigated	0.0800	
				314/384	Government	Unirrigated	0.0800	
				357	Government	Unirrigated	0.1000	
				255/382	Government	Unirrigated	0.0500	
				304/375	Government	Unirrigated	0.0200	
				322	Private	Unirrigated 3	0.1000	
				323	Private	Unirrigated 3	0.1300	
				324/2	Private	Unirrigated 3	0.0600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				324/1	Private	Unirrigated 3	0.0500	Manglya, Fulya, Ramu S/o Jagannath Meena
				325	Private	Unirrigated 3	0.0800	
				326	Private	Unirrigated 3	0.0300	Manglya, Fulya, Ramu S/o Jagannath 1/2 Sitaram,
				327	Private	Unirrigated 3	0.1500	Ramdhani S/o Jagannath 1/6 Sugna w/o Rampal 1/12
				328	Private	Unirrigated 3	0.0300	Koshalya w/o Karlash 1/4 Meena sh Shivdaspora
				332/2	Private	Unirrigated 3	0.0100	
				360	Private	Unirrigated 2	0.5500	Lachma Widow of Chaju Bagda Brahmin
				300	Private	Irrigated 3	0.0200	Narayan S/o Bhoriya 1/2 Baluram, Babulal, Hamanda S/o
				305	Government	Unirrigated	0.0500	Kana 1/2 Meena
				252	Government	Unirrigated	0.0600	Jaipur Development Authority, Jaipur
				253	Government	Unirrigated	0.0400	
				254	Government	Unirrigated	0.1300	
				363	Government	Unirrigated 2	0.3400	
				367	Private	Unirrigated 2	0.6600	Jaipur Development Authority, Jaipur 4/9 Hanuman
				359	Government	Unirrigated	0.0500	Ramkaran Chougan Nancha S/o Roopnarayan 1/3 Bagda
				361	Private	Unirrigated 2	0.0800	Jaipur Development Authority, Jaipur
			(8) Prahaldipura	476	Private	Irrigated 3	0.0300	Suji Lal Gopal Damodar Motilal S/o Choga Bagda Brahmin
				476/923	Private	Irrigated 3	0.0100	Farmland Enterprises by Alok Khandelwal S/o Ramdas
			(9) Nanakpura alias Hema ki Nagat	63	Government	Unirrigated	0.0500	Sokhiya, Jaipur
				66	Government	Unirrigated	0.0700	Jaipur Development Authority, Jaipur
				67	Government	Unirrigated	0.4000	
				68	Government	Unirrigated	0.2100	
				69	Government	Unirrigated	0.0500	
				65	Government	Unirrigated	0.0200	
				72	Government	Unirrigated	0.2200	
				87/298	Government	Unirrigated	0.1100	
				87/298/32	Government	Unirrigated	0.0300	
				90	Government	Unirrigated	0.1100	
				92	Government	Unirrigated	0.3100	
				86	Government	Unirrigated	0.2100	Ramkaran S/o Nanga by caste Brahmin
				70	Private	Irrigated 2	0.0600	
				71/2	Private	Irrigated 2	0.0200	Nathu S/o Govinda Bagda Brahmin
				71/1	Private	Irrigated 2	0.0200	Jaipur Development Authority, Jaipur
				78	Private	Unirrigated	0.0200	Jaipur Development Authority, Jaipur
				77	Private	Unirrigated	0.0100	Sitaram Mohan S/o Ramsahai Bagda Brahmin, Krishna
				73	Private	Irrigated 2	0.1900	W/o Devki Nandan Gupta
				74/296	Government	Road	0.0500	Jaipur Development Authority, Jaipur
				86/297	Government	Unirrigated 2	0.2400	Jaipur Development Authority, Jaipur 13/51 Kistur Devi
				135	Government	Unirrigated	0.1900	W/o Sitaram Rukmani Devi W/o Mohanlal 38/51 Bagda
				91	Private	Unirrigated 2	0.2100	Brahmin
				134	Government	Road	0.0400	Jaipur Development Authority, Jaipur
				130	Government	Road	0.0900	Jaipur Development Authority, Jaipur
				131	Private	Irrigated 2	0.1200	Ramprasad Kanhiyalal Babulal S/o Shanker Munni Widow
				133	Private	Unirrigated 2	0.1100	Shanker 1/4 Smt. Renu Agrawal W/o Ashok Agrawal
				132	Private	Irrigated 2	0.0400	Mahajan R/o 25, Dayal Nagar, Gopalpura 1/2 Fitpack
				129	Private	Unirrigated 2	0.0100	Properties & Resorts Pvt. Ltd., Jaipur by Director
				233	Private	Unirrigated 1	0.0300	Surendra Kumar S/o Ramprasad Mahajan R/o Jaipur 1/4
				234	Government	Unirrigated	0.1700	M/s. Fitpack Properties & Restors Pvt. Ltd., Jaipur by
								Registered Office 1 Cha 8, Jawahar Nagar by Director
								Surendra Kumar Gupta
								Jaipur Development Authority, Jaipur
								M/s Fitpack Properties and Restors Pvt. Ltd. Jaipur
								Registered office 1 Ch 8 Jawaharnagar Jaipur Director
								Surendra kumar Gupta
								Jaipur Development Authority, Jaipur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				126	Government	Talai	0.1200	Jaipur Development Authority, Jaipur
				235	Private	Irrigated 2	0.1200	Jaipur Development Authority, Jaipur
				236	Private	Irrigated 2	0.1600	Dr. G.K. Agrawal S/o N.N. Bajaj Mahajan R/o SP 3, Malviya Nagar, Jaipur
				237	Private	Irrigated 2	0.2000	Pappu Sayogi Shambhu S/o Harinarayan 1/4 Jagdish Gopal Ramswroop S/o Laccha Bagda Brahmin 3/4 Khatedar
				238	Private	Irrigated	0.0600	Prahlad S/o Rodu 1/32 Pappu Syogi Shambhu S/o Harinarayan 1/32 Jagdish Gopal Ramswroop S/o Laccha 3/32 Jagdish Narayan Suraj Narayan Shankerlal S/o Goga Bagda Brahmin 1/2 Jaipur Development Authority 11/32
				239	Private	Irrigated 2	0.0200	Sangari Widow Prabhu Ramnarayan Rajulal S/o Prabhu Bagda Brahmin
				240	Private	Irrigated 2	0.0050	
						Total	20.0036	
		2. Chaksu	(1) Shivdaspura	604	Private	Unirrigated 3	0.2700	Goga S/o Heera 1/9 by caste Brahmin R/o Nanagpur Dr. G.K. Agarwal S/o S.N. Bajaj, Dr. Mrs. Manju Agarwal W/o G.K. Agarwal, Neeraj Agarwal S/o Dr. G.K. Agarwal, Vishal Agarwal S/o G.K. Agarwal by caste Mahajan R/o S.P. 3 Industrial Area Malviya Nagar Jaipur 1/9 Manju Devi W/o Lalchand Agarwal by caste Mahajan R/o 243 Purohit ji ka Katla Johari Bazar Jaipur 1/9 Mrs. Pushpa Kanwar W/o Bhanwar Singh Khangarot by caste Rajput R/o Village Kila Tehsil Dudu District Jaipur 1/9 Mrs. Pushpa Kanwar W/o Dheer Singh by caste Shekhawat R/o Plot no. 337 Shantinagar Gopalpura Mood Jaipur 1/3 Mrs. Pushpa Kanwar W/o Bhanwar Singh by caste Rajput R/o 104 B Himmatnagar Gopalpura Mod Jaipur 1/9 Jaipur Development Authority Jaipur 1/9 Khatedar
				605	Private	Unirrigated 3	0.2300	
				606	Private	Unirrigated 3	0.1100	
				607	Private	Unirrigated 3	0.1600	
				594	Government	Railway	0.1100	
				595	Government	Railway Line	0.0400	Railway Department
				596	Government	Railway	0.1400	
				603	Private	Unirrigated 3	0.0100	Roduram S/o Mohan 1/6 Badri S/o Balu 1/6 Hari, Jagdish, Gopal, Ramswaroop S/o Lachha 1/6 Sitaram, Shruvan, Mohan, Ramkaran, Nathu, Rampal, Pappu, Raju 1/6 Bhanwara, Prabhu S/o Gopi 1/6 Gopal S/o Heera 1/6 by caste Bairagi Nanagpura
				1106	Private	Irrigated 3	0.0200	
				1111	Private	Unirrigated 3	0.0100	
				1112	Private	Unirrigated 3	0.0900	
				1113	Private	Unirrigated 3	0.1900	
				1114	Private	Unirrigated 3	0.0100	Dhanrainl, Manphool S/o Bhoirya, Shruvani Widow of Bhoirya by caste Meena Khatedar
				1117/2193	Private	Road	0.0200	
				1118	Private	Unirrigated 1	0.2600	
				1119	Private	Unirrigated 1	0.1200	
				1111/2194	Private	Unirrigated 2	0.0200	Bhorilal, Kalyan, Ramnath, Ramu S/o Ladu 1/3 Jagdish, Nehnu S/o Nanga 2/3 by caste Meena
				258	Private	Unirrigated	0.7900	Jaipur Development Authority Jaipur 412/1542 Rajasthan State Industrial Development & Investment Corp. Ltd (RICO) Jaipur 991/1542 M/s. Meenakshi Chemicals Pvt. Ltd. 139/1542 (Lease 99 years) Allotment Date 10.10.85
		(2) Kilkipura		272	Private	Unirrigated A	0.2100	Satyanarayan Rao S/o Mangilal Rao by caste Rajput R/o J 16 A Deepak Marg Moti Dungari Road Jaipur
				252	Private	Unirrigated A	0.0900	
				263	Private	Unirrigated 1	0.0600	
				264	Private	Unirrigated 1	0.0400	
				423	Private	Unirrigated A	0.0400	Ladu S/o Jhota by caste Bagda Brahmin
				424	Private	Irrigated 3	0.0100	
				425	Private	Irrigated 3	0.1800	
				426	Private	Irrigated 3	0.1200	
				270	Private	Unirrigated A	0.2000	Omprakash S/o Kundanlal Johari and Mrs. Sarla Gupta W/o Omprakash Gupta 20 Bardiya Colony Musium Road Jaipur
				250	Private	Unirrigated 3	0.0900	
				285	Government	Road	0.0700	Jaipur Development Authority, Jaipur
				248	Government	Pal	0.0600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				343	Private	Irrigated 3	0.2000	Gopi Widow of Ghasiram, Bhoir Widow of Ganpatlal and Moti Widow of Radheyshyam 1/2 Shanti Devi Widow of Anandilal, Shankarlal, Satyanarayan S/o Ganpatlal 1/2 by caste Bagda Brahmin
				348	Private	Irrigated 3	0.0100	
				173	Private	Unirrigated 1	0.0600	
				188	Private	Abadi	0.0200	
				249	Private	Unirrigated 3	0.0500	
				344	Private	Unirrigated 3	0.1700	Gopi Widow of Gheesya 1/2 Shanti Devi Widow of Anandilal, Shankarlal, Satyanarayan S/o Ganpat 1/2 by caste Bagda Brahmin
				345	Private	Unirrigated A	0.0500	
				346	Private	Temple	0.0100	
				140	Private	Irrigated 2	0.1000	
				141	Private	Irrigated 2	0.0100	
				347	Private	Irrigated 3	0.0200	
				365	Private	Unirrigated 1	0.7800	Gopi Widow of Gheesya 1/2 Shanti Devi Widow of Anandilal, Shankarlal, Satyanarayan S/o Ganpat 1/2 Rate 22775 / 24800 by caste Bagda Brahmin R/o Jaipur Development Authority, Jaipur 2025 / 24800
				345/442	Private	Irrigated	0.0300	Gopi Widow of Gheesya 2/10 Shanti Devi Widow of Anandilal, Shankarlal, Satyanarayan S/o Ganpat 1/2 and Gopi Widow of Gheesya, Bhoir Widow of Ganpatlal and Mota Widow of Radheyshyam 3/10 by caste Bagda Brahmin
				363	Government	Road	0.0400	Public Works Department, Govt. of Rajasthan
				364	Government	Unirrigated	0.0800	
				422	Private	Unirrigated A	0.1900	Bhoir Widow of Chittar and Chandlal, Prabhatilal S/o Chittar by caste Meena R/o Shivdaspura
				435	Private	Unirrigated 1	0.1300	Kamla Widow of Shyaji, Jagdish, Narayan, Ganeshnarayan S/o Shyaji and Madan S/o Manphool by caste Gurjar R/o Shivdaspura
				437	Private	Unirrigated 1	0.0500	
				427	Private	Irrigated 3	0.1000	Ramdhan, Ramkishore, Babulal S/o Mulya 1/2 Gopal S/o Birdha 1/2 by caste Meena Shivdaspura Mortgage Govt. of Rajasthan
				429	Private	Irrigated 3	0.1800	
				430	Private	Irrigated 3	0.1400	
				431	Private	Irrigated 3	0.1000	
				432	Private	Irrigated	0.0400	
				428	Private	Irrigated	0.0400	Bhoir Widow of Chandlal, Prabhatilal S/o Chittar 1/4 Mulya Gopal S/o Birdha 1/2 by caste Meena Jeevan S/o Bheru 1/8 by caste Gurjar R/o Shivdaspura, Ladu S/o Jhutha 1/8 Bagda Brahmin
				126	Private	Unirrigated 1	0.0100	Chaju, Badri S/o Gyarasa 1/3 Ramu, Bhura, Chanda S/o Uda 1/3 Jamarayan S/o Kalyan, Gopal Widow of Nathu, Chittar S/o Kishna 5/18 Lalidevi W/o Late Chotilal, Suresh, Ratan S/o Chotilal Minor Guardian Mother Lalidevi W/o Late Chotilal 1/18
				127	Private	Unirrigated 1	0.0200	
				190	Government	Unirrigated 2	0.1600	Gram Panchayat Shivdaspura
				251	Private	Irrigated	0.0100	Bhoir S/o Chittar by caste Gurjar 1/12 Radheyshyam S/o Jhutha, Nanagram, Omprakash S/o Gyarasa, Rampyari W/o Late Chothu, Jagdish, Narayan, Kailashchand, Ghasilal, Shambhudayal S/o Chothu and Kishoridevi D/o Kalyan 1/12 Ramnath, Nathu S/o Madho 1/12 Brijmohan, Ramkishore S/o Madan and Brijmohan, Ashok S/o Madan, Ramniwas, Jaiaram S/o Chanda 1/12 Malwa, Chotu, Gyarasa S/o Ramnath 1/6 Kana S/o Jagannath 1/6 Gopi Widow of Ghasiram, Bhoir Widow of Ganpatlal and Mota Widow of Radheyshyam, Shanti Widow of Anandilal, Shankarlal, Satyanarayan S/o Ganpat 1/6 Ladu S/o Jhutha 1/6 by caste Brahmin
				417	Private	Irrigated 3	0.0300	Kamla Widow of Shyaji, Jagdish, Narayan, Ganeshnarayan S/o Shyaji and Madan S/o Manphool by caste Gurjar R/o Shivdaspura
				247	Government	Talai	0.0200	Jaipur Development Authority, Jaipur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(3) Chandlai	2387	Private	Unirrigated 3	1.1500		Nandram S/o Shyonarayan 1/24 Mortgage UCO Bank Chandlai, Kanhiyalal, Chandlal S/o Sonya 2/24 Mangilal S/o Govinda 1/8 Without Mortgage Chothmal S/o Surajmal 1/8 Mortgage Jaipur Thar Rural Bank Branch Shivdaspora, Sitaram, Ramprasad Age 15 years S/o Chothmal Minor Guardian Chothmal S/o Surajmal 1/8 Kanidevi W/o Chothmal Meena R/o Shivdaspora 1/12 Savitridevi W/o M.L.Meena R/o Jaipur 1/24 Bhuli W/o Govindram 1/8 Kanhiyalal, Chandlal S/o Shyonarayan and Balli W/o Nandaram 1/8 Meena R/o Shivdaspora
			2386	Private	Irrigated 3	0.2500		
			2371	Private	Irrigated 3	0.1500		Nandram S/o Shyonarayan 1/12 Mortgage UCO Bank Chandlai, Kanhiyalal, Chandlal S/o Sonya 2/12 Laduram, Prahalad, Panchuram S/o Chotu Soni W/o Late Chotu 1/4 Chothu S/o Sujya 1/4 Mangilal S/o Govinda by caste Meena Shivdaspora 1/4 Khatedar
			2372	Private	Irrigated 3	0.2300		
			2384	Private	Irrigated 3	0.4000		Nandram S/o Shyonarayan 1/12 Mortgage UCO Bank Chandlai, Chothmal S/o Sujya 1/4 by caste Meena Shivdaspora Mortgage Jaipur Thar Rural Bank Branch Shivdaspora Kanhiyalal, Chandlal S/o Sonya 2/12 Laduram, Prahalad, Panchuram S/o Chotu Soni W/o Late Chotu 1/4 Mangilal S/o Govinda Meena
			2385	Private	Irrigated 3	0.0200		
			2376	Private	Road	0.0600		
			2373	Private	Irrigated 3	0.0300		
			2382	Private	Unirrigated 3	0.1700		
			2379	Private	Unirrigated 3	0.1500		
			2383/6660	Private	Road	0.1600		
			2381	Private	Unirrigated 3	0.1100		Omprakash S/o Nandlal Bajaj by caste Punjabi Arora R/o 6 A Acharya Kripalani Marg Adarsh Nagar Jaipur
			2378	Private	Unirrigated 3	0.1700		
			2380	Private	Unirrigated 3	0.2100		
			2198	Private	Unirrigated 3	0.3800		
			2199	Private	Unirrigated 3	0.2500		
			2192	Private	Unirrigated 3	0.1400		
			2182/6655	Private	Road	0.0100		
			2163	Private	Unirrigated 2	0.0200		
			2182/6652	Private	Road	0.0400		
			2189	Private	Unirrigated 3	0.6400		Gopal S/o Juwara by caste Meena R/o Shivdaspora
			2190	Private	Unirrigated 2	0.0300		
			2188/2	Private	Unirrigated 3	0.0200		
			2200	Private	Unirrigated 2	0.0700		
			2197	Private	Unirrigated 2	0.0600		
			2196	Private	Unirrigated 3	0.0600		
			2195	Private	Unirrigated 3	0.0100		
			2194	Private	Unirrigated 3	0.2000		
			1854	Government	Unirrigated 3	0.1000		
			1855	Government	Unirrigated 3	0.0300		
			1837	Government	Unirrigated 3	0.1000		
			1838	Government	Unirrigated 3	0.0100		
			1840	Government	Unirrigated 3	0.0900		
			1841	Government	Unirrigated 3	0.1500		
			1821	Government	Unirrigated 3	0.1200		
			1825	Government	Unirrigated 3	0.0900		
			1845	Government	Unirrigated 3	0.1600		Jaipur Development Authority, Jaipur
			1824	Government	Unirrigated 3	0.1500		
			1823	Government	Unirrigated 3	0.0500		
			1843	Government	Unirrigated 2	0.0200		
			1844	Government	Unirrigated 2	0.0800		
			1744/6699	Government	Unirrigated 3	0.0100		
			1853	Government	Unirrigated 3	0.0700		
			1822	Government	Unirrigated 3	0.1300		
			1842	Government	Unirrigated 3	0.1400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1857	Private	Unirrigated 3	0.0300	Sayar Kanwar W/o Ramsingh Rajawat 1/3 Ramswaroop S/o Narayan Lal by caste Khat 2/3
				1858	Private	Unirrigated 3	0.1000	
				1859	Private	Unirrigated 3	0.3200	
				1744/6700 /1	Private	Road	0.1000	Bhori Lal Puranmal, Gyarsi Lal Bhagwan S/o Sundra B/c Meena Share 1/3 Saru widow Prabhulal, Radhya Shyam, Nandlal Narendra S/o Prabhu Dayal Nangi widow Ramswroop, Chandraprakash, Rakesh S/o Ramswroop Guargain Mother Nangi widow Ramswroop, Kahniya Lal S/o Shriya and Kalyani widow Sukhdev, Babulal Minor Vali Mother Kalyani widow Sukhdev self Rahin Jaipur Nagaur Anchlik Grahmin Bank, Shivdaspura, Share 1/3 Prahlad, Gyarsi Lal S/o Chhitar share 1/3 Berwa
				1598	Private	Unirrigated 1	0.1500	
				1589	Private	Unirrigated 1	0.0100	
				1599	Private	Unirrigated 1	0.2700	
				1600	Private	Banjar 1	0.1100	
				1599/6620	Private	Unirrigated 1	0.1300	
				1601	Private	Unirrigated 1	0.0300	
				1602	Private	Irrigated	0.0100	
				1603	Private	Unirrigated 3	0.1700	
				1604	Private	Unirrigated 3	0.0500	
				1629	Private	Unirrigated	0.0100	
				1606	Private	Unirrigated 1	0.0900	Bhorilal, Puranmal, Gyarsilal, Bhagwan S/o Sundara by caste Meena R/o Shivdaspura
				1605/6313	Private	Unirrigated 1	0.0100	
				1607	Private	Unirrigated 1	0.0100	Bhorilal, Puranmal, Gyarsilal, Bhagwan S/o Sundara by caste Meena 1/3 Saru Widow of Prabhudayal, Radheyshyam, Nandlal, Narendra S/o Prabhudayal Nangi Widow of Ramswaroop, Chandraprakash, Rakesh Minor S/o Ramswaroop Guardian Mother Nangi Widow of Ramswaroop, Kanhiyalal S/o Shriya and Kalyani Widow of Sukhdev, Babulal Minor Vali Mother Kalyani Widow of Sukhdev Self Mortgage Jaipur Nagore Anchalik Rural Bank Shivdaspura 1/3 Prahalad S/o Chhitar 1/6 by caste Bairwa Gulabdevi W/o Ramkishan by caste Regar R/o Shivdaspura 1/6
				1627	Private	Unirrigated 1	0.2700	
				1628	Private	Unirrigated 1	0.1800	
				1626	Private	Irrigated 3	0.1800	Chotu S/o Ganesh by caste Meena R/o Shivdaspura
				1625	Private	Irrigated 3	0.0300	
				1655	Private	Abadi	0.0300	Sharvan Lal S/o Ramchandra Share 1/6 R/o O.B.C. Branch Badapadampura Ram Narayan S/o Ramchandra share 1/6 Govind Narayan S/o Bhoiryan share 1/3 Laxmi Narayan, Hajari Lal S/o Mulya share 1/3 B/c Meena, Shivdaspura
				1641	Private	Unirrigated 3	0.0200	
				1643	Private	Unirrigated 3	0.0200	
				1642	Private	Irrigated 3	0.2400	
				1654	Private	Irrigated 3	0.1000	
				1656	Private	Irrigated 3	0.1200	
				1658	Private	Unirrigated 3	0.0900	
				1660	Private	Unirrigated 3	0.0100	
				1661	Private	Unirrigated 3	0.4000	
				1708	Private	Unirrigated 3	0.5000	
				1662	Private	Irrigated 3	0.0200	
				1699/6625	Private	Road	0.0200	
				1709	Private	Unirrigated 3	0.4200	
				1710	Private	Unirrigated 1	0.0200	
				1712	Private	Unirrigated 1	0.2800	
				1713	Private	Unirrigated 3	0.2700	
				1657	Private	Irrigated 3	0.0600	Jaipur Development Authority, Jaipur
				2348	Government	Nahri 1	0.0100	
				2349	Government	Nahri 1	0.0100	
				2356	Government	Nahri 1	0.0100	
				2357	Government	Nahri 1	0.0100	
				2358	Government	Nahri 1	0.0300	
				2362	Government	Nahri 1	0.1300	
				2363	Government	Nahri 1	0.1600	Jagdish Narayan S/o Kishna ram Share 1/8, Kalu Ram S/o Kishana Ram Share 3/8 Tarachand, Sharvan Lal, Ramesh Chand, Chanda Lal S/o Govinda Share 1/2 B/c Meena
				1664	Private	Irrigated 3	0.0300	
				1863	Government	Unirrigated 3	0.3800	Government Khadi Sangh Chomu, Chandlee
				1960	Government	Unirrigated 3	0.0400	
				1959	Government	Unirrigated 3	1.1800	
				1957	Government	Unirrigated 3	0.3700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2222	Private	Banjar 1	0.1500	Rangopal, Harinarayan, Radhya Shyam S/o Kalyan Share 1/4, Laxminarayan S/o Kalyan Share 1/12 Mortgage Uko Bank Chandlai Share 1/3, Ramal Ramjiven S/o Chothu Share 2/3 Caste Mali Res. Shivdaspura
				2182/6656	Private	Road	0.0800	
				2228	Private	Unirrigated 3	0.0500	
				2229	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				2243	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				2265	Private	Unirrigated 3	0.0100	
				2367	Private	Nahri 1	0.1800	
				2368	Private	Nahri 1	0.2000	JDA By 90 B
				2370	Private	Nahri 1	0.1300	
				2182/6653	Private	Road	0.1500	Jeevan, Rampal S/o Chotu share 2/3, Harinarayan, Radhya Shyam S/o Kalyan Sahay share 1/6 Share Equal, Laxmi Narayan S/o Kalyan Sahay Share 1/12, Mortgage UCO Bank Chandlai Murthin, Gopal S/o Kalyan share 1/12 @ 1/3 Caste Mali R/o Shivdaspura, Khetadar
				2164	Private	Banjar 2	0.1500	
				2179	Private	Irrigated 3	0.0600	
				2180	Private	Irrigated	0.0600	
				2181	Private	Unirrigated-A	0.0100	
				2172	Private	Irrigated 3	0.2300	
				2171	Private	Irrigated 3	0.1000	
				2165	Private	Unirrigated 1	0.0700	
				2173	Private	Irrigated	0.0200	
				2245	Private	Irrigated 3	0.1000	Rangopal, Harinarayan, Radhya Shyam S/o Kalyan share 1/4, Laxmi Narayan S/o Kalyan Share 1/12, Mortgage UCO Bank Chandlai Share 1/3, Rampal Rajeevan S/o Chotu share 2/3 Caste Mali Residence Shivdaspura
				2244/6657	Private	Road	0.0800	Vipin Kumar Khinduka S/o Gyanichand, Khinduka Jain share 1/2 R/o 1136, Mahavir Park, Maniyaro Ka Rasta, Jaipur, Vivek Kala S/o Vidhya Vindod Kala B/c Jain R/o 52 B, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur
				2253	Private	Irrigated 3	0.0700	
				2254	Private	Irrigated 3	0.1000	
				2257	Private	Irrigated 3	0.1200	
				2259	Private	Irrigated 3	0.1300	
				2261	Private	Banjar 1	0.2300	
				2262/6658	Private	Road	0.2000	Ajay kumar Jain Sanjay Kumar Jain s/o Premchand Jain cast Mahajan R/o 116A Vasundhra Colony, Tonk Road Jaipur
			(4) Sadashivpura alias Yarlipura	728	Private	Pond	0.0500	
				107	Private	Unirrigated 2	0.0200	Kanchan Bai W/o Hazari Lal Meena Residence Sikarai Dist Dosh
				108	Private	Unirrigated 2	0.0600	Ashok Kumar Agarwal S/o Suraj Mal Agarwal
				106	Government	Banjar 2	0.1000	
				109	Government	Unirrigated 2	0.1200	Jaipur Development Authority, Jaipur
				109/1250	Government	Irrigated	0.0100	
				111	Government	Banjar 1	0.3100	
				883	Government	Irrigated 3	0.0200	
				884/1	Government	Irrigated 3	0.0100	
				1181	Government	Road	0.0100	Ram Sahay S/o Chhajya bycaste Gurjar Khatedar
				120	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				121	Private	Unirrigated 2	0.0600	Mohan Lal S/o Chhajya bycaste Gurjar Khatedar
				122	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				123	Private	Unirrigated 2	0.0900	Ram Nath S/o Ramchandra bycaste Gurjar, Khatedar
				124	Private	Banjar 2	0.0200	
				171	Private	Unirrigated 2	0.1000	Ram Narayan S/o Ramchandra bycaste Gurjar, Khatedar
				172	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				173	Private	Unirrigated 1	0.0300	Harlal Krishan Laxman S/o Ramkaran, Mangi widow Ramkaran bycaste Gurjar Mortgage UCO Bank, Branch Chandali
				174	Private	Unirrigated 1	0.0300	
				175	Private	Unirrigated 1	0.0400	Sri Ram S/o Ramchandra bycaste Gurjar, Khatedar
				176	Private	Unirrigated 1	0.0400	
				723	Private	Banjar 1	0.0700	Laxminarayan, Moolchand, Chothmal S/o Durdia 1/4, Mulya S/o Nanga 1/4 bycaste Kumhar, Gopa S/o Narayan Suja Devi W/o Late Narayan 1/4, Sri Bab Bhanwan, President Smt. Sushila Devi W/o Kapoor Chandra Jain, Jaipur 1/8 Ramchandra s/o Gopaldas Mahajan 5/48 jagdi narayan s/o Chhitarnal Brahman 1/48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				704	Private	Unirrigated 2	0.0700	Jaipur Development Authority, Jaipur
				719	Private	Banjar 1	0.0200	1/6 Renu Agarwal W/o Ashok Agarwal R/o 25, Dayal Nagar, Gopalpura Bypass, Jaipur 1/6, Pioneer Colonizers Developers Pvt. Ltd. Shanti Nagar, Jaipur through Rajeev Mathur 7/216, Kapoori D/o Narayan, Jagdish S/o Narayan bycaste Meena, 1/216
				1173	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				705	Private	Unirrigated 2	0.0600	Ramgilasi W/o Laxminarayan bycaste Meena, R/o 6, Kalyan Nagar-Ist, Tonk Phatak Road, Opp. Ram Mandir, Jaipur 8/9, Bhorilal S/o Kalu Ram bycaste Meena, R/o Surajpura Ghati, Sanagner, 13/138, Gopal, Sualal S/o Shrawan bycaste Meena 23/138, Khatedar
				707	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				700	Government	Banjar 2	0.0400	Gram Panchayat Committee Yarlipura
				701	Government	Banjar 2	0.1800	
				702	Government	Go mu kuva	0.0100	
				703	Government	Banjar 2	0.0500	
				693	Private	Banjar 1	0.1800	Bhorilal S/o Kalu Ram bycaste Meena, R/o Surajpura Ghati, Sanagner
				688	Private	Unirrigated 2	0.0900	Jagdish Sitaram Shankar S/o Narayan 1/2, Kalu S/o Bhoma 1/3, Hanuman S/o Prahlad 1/3, Jagdish Sitaram Shankar S/o Narayan, Santi Kapoori D/o Narayan 1/3, Dar 1/2 bycaste Meena, Khatedar
				675	Private	Unirrigated 2	0.0700	M/s Bhutodia Oil Industries Pvt Ltd, 56 NS Road, Calcutta
				687	Private	Banjar 1	0.2000	
				676	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				677	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				1172	Private	Banjar 1	0.2600	Ghanshyam S/o Jagdish Prasad Sharma bycaste Brahman, House No. 701-H, Wing Ashok Nagar, LT Road, Boriwally, Mumbai-400092, West
				1179	Private	Unirrigated 2	0.0200	Prabhu Dayal S/o Hardev Lal Meena, R/o Heerapura, Post Luniawas, Tehsil Sanganer
				1165	Private	Unirrigated 2	0.0600	Mradula Agarwal W/o Sunil Kumar bycaste Mahajan, R/o Plot No. 3, Sethani Ka Bagh, Moti Doongri Road, Jaipur
				1166	Private	Irrigated 3	0.0700	
				1170	Private	Irrigated 3	0.2100	
				1161	Private	Unirrigated 2	0.0400	Gopi Lal Ram Lal Babu Lal S/o Ram Nath 1/3 bycaste Meena, Rahin J. NA, Aanchilik Grahmin Bank, Branch ShivdasPura, Chotu, Sonya S/o Chhajya 2/3, bycaste Meena, Khatedar
				725	Private	Banjar 2	0.0300	Kalu S/o Bhoma 1/3, Hanuman S/o Prahlad 1/3, Jagdish Sitaram Shankar S/o Narayan, Shanti Kapoori D/o Narayan, Jyana W/o Late Narayan 1/3, Dar 1/24, Hanuman S/o Prahlad 1/24, Kalu S/o Bhoma 1/24, Jagdish Sitaram Shankar S/o Narayan 1/24, Govindi widow Hukma and Kahna Ram S/o Hukma, Omprakash, Mukesh Kumar Shrawan Kumar S/o Devi Ram 1/4, Sheonarayan Ram Sahay Mahadev S/o Bhoori Lal, Mangla S/o Birdha and Laxmi Narayan Jai Narayan, Bhagwan Sahai S/o Nathu, Para widow Nathu 1/4 equal Gopichand, Ramlal Babulal S/o Ramnath 1/18, Chotu Sonya S/o Chhajya 1/9 equal Gopal Sualal Chotu S/o Shrawan Jagga S/o Nenu Ramu Hanuman Raju S/o Krishna Guardian Bhoori widow Krishna 1/6 equal bycaste Meena, Khatedar
				907	Private	Banjar 1	0.0200	
				906	Private	Unirrigated 2	0.1800	Sheonarayan Ram Sahay Mahadev S/o Bhoori Lal 1/2 equal Laxminarayan Jainarayan Bhagwan Sahai S/o Nathu, Para widow Nathu 1/2 bycaste Meena, Khatedar
				892	Private	Unirrigated 2	0.1200	Sheonarayan Mahadev S/o Bhorilal 1/3 equal Chandi Devi W/o Bhorilal R/o Sri Ram Ki Nangal, Tehsil Sanganer 25/177, Ram Sahay S/o Bhoori Lal 9/354, Laxmi Narayan, Jai Narayan Bhagwan Sahai S/o Nathu, Para widow Nathu 1/2 bycaste Meena, Khatedar
				893	Private	Unirrigated 2	0.2500	
				884/2	Private	Irrigated 3	0.0100	Manju Devi W/o Lalchand Agarwal bycaste Mahajan R/o Jaipur Khatedar
				891	Private	Irrigated 3	0.0100	
				880	Private	Irrigated 3	0.0100	Smt. Mamta Devi W/o Manoj Tak and Manoj Tak S/o Balkrishan Tak, R/o A-51, Man Nagar, Queence Road, Jaipur
				877	Private	Irrigated 2	0.0900	Santosh Devi alias Shanti Devi W/o Mangilal Bycaste Meena R/o ShivdasPura Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				825	Private	Unirrigated 2	0.0400	Daya Ram S/o Ram Sahay 1/60 Mohan Lal S/o Chhajya
				826	Private	Irrigated 3	0.0100	2/60 bycaste Gurjar Dr. Rakesh S/o Rameshwar Kedawat
				827	Private	Banjar 2	0.0100	bycaste Mahajan R/o Durgapura 57/60
				828	Private	Irrigated 2	0.0200	
				729	Private	Unirrigated 2	0.0200	Shimla Jain W/o Nemichand Jain bycaste Mahajan R/o House No. 1160, Saroj Sadan, Kharbuja Mandi, Moti Doongri Road, Jaipur, Khatedar
				817/2	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				818	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				819	Private	Unirrigated 2	0.0300	Sriram Ramlal Ramnarayan, Ramnath S/o Ramchandra 4/5, Mangi W/o Ramkaran Harlal Krishna Laxman S/o Ramkaran 1/5 bycaste Gurjar, Khatedar
				820	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				804/2	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				821/1284	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				803	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				802	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				800/1	Private	Unirrigated 2	0.0200	Reliance Industries Ltd., Mekar Chamber 4, Third Floor, 222, Nariman Point Mumbai 400021 through Rakesh Bhandari 331-332, Ganpati Plaza, M.I. Road, Jaipur
				799/1	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				798	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				733	Private	Pal	0.0100	Harlal Krishan Laxman S/o Ramkaran, Mangi widow Ramkaran 1/10, Ram Sahay Shrawan Lal Mohanlal S/o Chhajya 1/2 equal, Ramnath Sriram Ramlal Ramnarayan S/o Ramchand 2/5 bycaste Gurjar Khatedar
				730	Private	Unirrigated 2	0.0800	
				731	Private	Unirrigated 2	0.0300	Saraswati Devi W/o Aatmaram Nekewala bycaste Mahajan Agarwal R/o House No. 4363, Kundighar Bharun Ji Ka Rasta, Johri Bazar, Jaipur
				732	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				1182/1	Private	Population	0.0100	Shashi Jhalani W/o Roopkumar Jhalani bycaste Mahajan R/o B-4, Kanti Chandra Road, Jaipur and Pawan Jain S/o Nami Chand Jain, R/o 169, Malviya Nagar, Jaipur
				1182/2	Private	Population	0.0300	Dhannaj Buildcon Pvt. Ltd. A-1, Lyons Colony, Near Anokhi Restaurent, Tonk Road, Sanagner Director Kailash Chand Sharma S/o Dhanna Lal bycaste Brahmin, R/o Jaipur Lalita Sharma W/o Kailash Chand Sharma bycaste Brahmin, R/o A-1, Lyons Colony, Near Anokhi Restaurent, Tonk Road, Sanagner
			(5) Berkheda	1854	Private	Unirrigated 3	0.0300	Urmila Mahareswari W/o Shankar Lal Mahareswari 1/16 R/o Village Bilwa Tehsil Sanganer Distt. Jaipur, Seema Gupta W/o Mahesh Gupta 1/6 R/o 129, Govind Nagar East, Ajmer Road, Jaipur, Mohini Devi W/o Damodar Ghiya 1/6, Kumari Sonal D/o Ashok Khandelwal 1/6, Sharda Khandelwal 1/6, Usha Khandelwal W/o Satish Khandelwal 1/6 bycaste Mahajan R/o B-146, Janta Colony, Jaipur Khatedar
				1837/1	Private	Unirrigated 3	0.3200	
				1842	Private	Irrigated 4	0.0500	Smt. Manjula Agarwal W/o Chandra Mohan Agarwal bycaste Mahajan R/o 3, Sethani Ka Bagh, Moti Doongri Road, Jaipur
				1843	Private	Irrigated 4	0.2700	
				1862	Private	Unirrigated 3	0.0100	Alka Agarwal W/o Ram Prakash Agarwal bycaste Mahajan R/o 3, Sethani Ka Bagh, Moti Doongri Road, Jaipur
				1863	Private	Unirrigated 3	0.1700	
				1864	Private	Irrigated 4	1.6000	Smt. Manjula Agarwal W/o Chandra Mohan Agarwal bycaste Mahajan R/o 3, Sethani Ka Bagh, Moti Doongri Road, Jaipur
				1880	Private	Unirrigated 3	0.3400	
				1881	Private	Unirrigated 3	0.0800	Alka Agarwal W/o Ram Prakash Agarwal bycaste Mahajan R/o 3, Sethani Ka Bagh, Moti Doongri Road, Jaipur
				1877	Private	Unirrigated 3	0.0600	
				1878	Private	Unirrigated 3	0.3400	Dudya S/o Jagganath 1/8, Rahin Oriental Bank of Commers Branch Badapadampura, Badri S/o Jagganath 1/8, Narayan Chhaju S/o Nanga 1/4, Ram Sahay S/o Gopal 1/4, Narayani widow Bhoma Bhoir Lal And Ramphool S/o Bhoma 1/4 bycaste Meena Sandhya
				1879	Private	Unirrigated 3	0.0200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1877/2000	Private	Unirrigated 3	0.1300	Badri Narayan Berwa Representative Gaurav Private Limited, Krishnapuri Grah Nirman Sahkari Samiti Limited, Jaipur
				1885	Private	Unirrigated 3	0.1200	
				1894	Private	Unirrigated 3	0.0700	
				1895	Private	Unirrigated 3	0.2800	
				1896	Private	Unirrigated 3	0.3100	
				1932	Private	Unirrigated 3	0.4500	
				1933	Private	Unirrigated 3	0.3500	
				1934	Private	Unirrigated 3	0.2500	
				1935	Private	Unirrigated 3	0.0300	
				1941	Private	Unirrigated 3	0.4500	
				869	Private	Unirrigated 3	1.9000	Chhitar, Badri, Sukhdev Meena Sandhya
				880	Private	Irrigated 3	0.2300	Lallu S/o Panna, Foolya, Kahniya, Ram Kishan, Kalu, Alkhiya Chotu, Gopal S/o Kalyan, Gulab w/o Ramkishan, Bhorilal s/o Ramkishan, Rajudevi D/o Ramkishan, Guddi w/o Sitaram, Suresh, Omrakash s/o Sitaram, Asha Lalita D/o Sitaram Meena
				879	Private	Irrigated 3	0.2000	
				878	Private	Irrigated 3	0.2300	
				877	Private	Irrigated 3	0.0600	
				872	Private	Unirrigated 2	0.4100	
				873	Private	Unirrigated 2	0.3000	
				874	Private	Irrigated 3	0.1300	
				870	Private	Unirrigated 3	0.2000	
				902	Private	Banjar 2	0.4000	Doondya S/o Jagannath Share 1/8 Mortgage OBC Bada padampura Murthin, Badri S/o Jagannath share 1/8, Narayan Chhaju S/o Nanga 1/4 Ramsahay s/o Gopal 1/4 Narayani widow of Bhoma, Bhorilal Ramphool s/o Bhoma 1/4 Meena
				903	Private	Banjar 2	0.0400	
				913	Private	Unirrigated 2	0.1700	
				904	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				912	Private	Unirrigated 2	0.1800	
				910	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				911	Private	Irrigated	0.0100	
				921	Private	Unirrigated 2	0.1200	
				922	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				920	Private	Unirrigated 2	0.2100	
				914	Private	Unirrigated 2	0.2100	Gyana S/o Gyarsa Meena Residence Barkheda
				915	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				917	Private	Unirrigated 2	0.1000	
				918	Private	Unirrigated 2	0.1300	Pratap Singh S/o Harichand 1/2 R/o Hatoz Distt. Jaipur Bhim Singh S/o Shobha Ram Singh 1/2 Village Kabai Tehsil Nadbai Distt. Bharatpur bycaste Jat
		(6) Gopirampura		497	Private	Unirrigated 3	0.6400	
				498	Private	Unirrigated 3	0.1400	
				503	Private	Unirrigated 3	0.0400	
				505	Private	Unirrigated 3	0.0700	
				506	Private	Unirrigated 3	0.0300	Sho Narayan Ram Sahay Mahadev S/o Bhorilal 287/960 and Laxmi Narayan, Jai Narayan Bhagwan Sahay S/o Nathu Ram 287/960 bycaste Meena Village Yarlipurav Tofan Kilan S/o Mahadev 287/960 and Phoolchand Babulal Mangilal Chotu S/o Jaggu 99/960 equal bycaste Meena R/o Nagliya Bharji Tehsil Sanganer Khatedar
				496	Private	Unirrigated 3	0.5100	
				499	Private	Unirrigated 3	0.2800	
				502	Private	Unirrigated 3	0.3200	Jaipur Development Authority, Jaipur
				490	Government	Unirrigated	0.3000	
				504	Private	Unirrigated 3	0.2100	Pratap Singh S/o Harichand 1/2 R/o Hatoz Distt. Jaipur Bhim Singh S/o Shobha Ram Singh 1/2 Village Kabai Tehsil Nadbai Distt. Bharatpur bycaste Jat
		(7) Dadanpura		286	Private	Banjar 2	0.4000	Kalyan S/o Ram Nath bycaste Gurjar
				140	Private	Unirrigated 2	0.4000	Chotu Ram Sukh Ram Ganga Ram S/o Laxmi Narayan Gopal S/o Ganesh 1/4, Jagdish S/o Gopi 1/4 Moharpal S/o Govinda 1/4, Jagdish Narayan, Nand Lal Hari Narayan S/o Gopi Ram 1/4 bycaste Gurjar
				141	Private	Unirrigated 2	0.2600	
				142	Private	Banjar 2	0.0500	
				157	Private	Unirrigated 2	0.3200	
				160	Private	Irrigated 4	0.4400	
				161	Private	Irrigated 4	0.3000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				83	Private	Unirrigated 2	0.2000	Pushpa Khandelwal W/o Rajendra Kumar Khandelwal 1/6 bycaste Mahajan R/o Surajpole Jaipur, Harpal Pokhriya, Jagdish Prasad S/o Kishna 1/2, Heera Lal S/o Baksa Guardian mother Panchi widow Baksa 1/6, Radha widow Chhitar 1/6 bycaste Gurjar Khatedar
				87	Private	Irrigated 3	0.2000	
				88	Private	Unirrigated 2	0.1600	
				288	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				79	Private	Population	0.2200	Pushpa Khandelwal W/o Rajendra Kumar Khandelwal bycaste Mahajan R/o Radhakrishan Nikunj Gandhi Circle, Heeda Ki Moori, Surajpole, Jaipur
				80	Private	Population Unirrigated 2	0.1400	
				290	Private	Unirrigated 1	0.0600	Gopi S/o Radhu Devhans S/o Ramphool 1/3 bycaste Gurjar, Gyatri Devi W/o Ramavatar bycaste Brahmin 1/3, Deva Ram Hari Narayan Morpai Ram Kishan S/o Juwara Anokhi D/o Juwara 1/15, Lala S/o Pratap 1/15, Jagdish Rewar S/o Kahnu 1/15, Ladu Bhagwan S/o Ram Nath 1/15, Birdha Karna Moti Babu Laxman S/o Kalyan 1/15, bycaste Gurjar,
				131	Private	Unirrigated 3	0.0500	Bhori Lal Modu Ram Ganga Ram S/o Kalu Ram 1/4 bycaste Gurjar, Devhans s/o Ramphool, Ram Sahay S/o Gopi 1/4 bycaste Gurjar Hari Narayan S/o Jawahara Jagdish S/o Kahna Bhagwan S/o Ram Nath Kishna S/o Lala Ram, Moti Lal S/o Kalyan bycaste Gurjar R/o Dadanpura 1/4, Smt. Narayani Devi W/o Lala Ram, Smt. Narmada Devi W/o Rawar Ram, Smt. Jhuthi Devi W/o Kalyan, Smt. Shanti Devi W/o Moharpal, Smt. Devli Devi W/o Bhagwan Sahay 1/4 bycaste Gurjar,
				132	Private	Unirrigated 3	0.0600	
				133	Private	Unirrigated 3	0.0600	
				134	Private	Unirrigated 3	0.0400	
				135	Private	Unirrigated 3	0.1000	
				287	Private	Unirrigated 2	0.0200	Bhori Lal Modu Ram S/o Kalu Ram 2/3, Hans Raj, Man Singh S/o Ganga Ram, Gora Devi widow Ganga Ram 1/3 bycaste Gurjar
				289	Private	Unirrigated 2	0.0600	
				127	Private	Unirrigated 3	0.0500	Vinita Gupta W/o Suresh Agarwal bycaste Mahajan R/o Rajhans Colony, Jaipur 130/1280, Bhagwan S/o Rough Nath and Jagdish S/o Gopi bycaste Gurjar 225/1280, Bhagwatram Ramraj S/o Gopi 160/1280, Gopi Ram Sukh Moharpal S/o Govind 270/1280 bycaste Gurjar, Jagdish Narayan Harlal S/o Gopi bycaste Gurjar 131/1280, Bhagwan Sahai Badri Narayan Ramprasad Chotu Lal S/o Rough Nath 131/1280 bycaste Gurjar, Gopi Ram S/o Ghansi Ram bycaste Meena 233/1280 Khokawas Tehsil Sanganeer
				128	Private	Unirrigated 3	0.0400	
				143	Private	Banjar 1	0.0600	
				144	Private	Unirrigated 3	0.1600	
				146	Private	Unirrigated 2	0.3500	
				147	Private	Unirrigated 1	0.0400	
				149	Private	Unirrigated 2	0.4000	
				150	Private	Unirrigated 2	0.1400	
				151	Private	Unirrigated 2	0.1100	
				136	Private	Unirrigated 3	0.0600	
				137	Private	Unirrigated 3	0.0300	
				138	Private	Unirrigated 3	0.0700	
				139	Private	Unirrigated 3	0.0100	
				296	Government	Unirrigated	0.0400	Jaipur Development Authority, Jaipur
				82	Government	Drain	0.1100	
				162	Private	Unirrigated 2	0.4700	Chotu Ram Sukh Ram Ganga Ram S/o Laxmi Narayan Gopal S/o Ganesh 1/4, Jagdish S/o Gopi 1/4 Moharpal S/o Govinda 1/4, Jagdish Narayan, Nand Lal Hari Narayan S/o Gopi Ram 1/4 bycaste Gurjar
		(8) Salagrampura		959	Private	Unirrigated 3	0.0500	Jagdish Chotu Chandlal Motilal Jansi Kajor S/o Lalaram bycaste Gurjar R/o Lakhvare Khatedar
				960	Private	Unirrigated 3	0.2800	
				961	Private	Unirrigated 3	0.2700	
				962	Private	Unirrigated 3	0.1900	
				967	Private	Unirrigated 3	0.2300	
				968	Private	Unirrigated 3	0.0600	
				984	Private	Unirrigated 3	0.0400	
				976	Private	Population 0.58 Unirrigated 3 0.24	0.1300	Pushpa Khandelwal W/o Rajendra Kumar Khandelwal bycaste Mahajan 2/3, Anita Khandelwal W/o Rakesh Kumar Khandelwal bycaste Mahajan 1/3 R/o Radhakrishan Nikunj, Gandhi Circle, Hida Ki Mori, Surajpole, Jaipur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				937	Private	Irrigated 4	0.0100	Rajendra Khandelwal S/o Rameshwar Prasad Khandelwal bycaste Mahajan R/o Radhakrishan Nikunj, Gandhi Circle, Surajpole, Jaipur
				938	Private	Irrigated 4	0.0100	
				969	Private	Unirrigated 3	0.1900	
				970	Private	Unirrigated 3	0.0700	
				971	Private	Unirrigated 3	0.3000	
				972	Private	Unirrigated 3	0.1400	
				973	Private	Unirrigated 3	0.2000	
				974	Private	Irrigated 4	0.1700	
				975	Private	Irrigated 4	0.3600	
				832	Private	Irrigated 3	0.2400	Satyanarayan Jagdish S/o Jai Narayan bycaste Brahman, R/o Deh
		(9) Mahasinghpura alias Lakhawas		1	Government	Road	0.0300	Government Land
				44	Government	Road	0.0100	
				3	Private	Unirrigated 2	0.1700	
				5	Private	Unirrigated 2	0.0800	Hari Singh Jain S/o Rough Nath Singh Jain R/o 203, Tilak Nagar, Indore, M.P.
				6	Private	Unirrigated 2	0.0800	
				12	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				51	Private	Unirrigated 2	0.0050	
				4	Private	Unirrigated 2	0.4500	
				86	Private	Unirrigated 2	0.0300	Gopi S/o Sheonarayan bycaste Gurjar
				53	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				53/594	Private	Unirrigated 2	0.0100	Ramroop S/o Kalyan Prasad Mishra bycaste Brahman, Dausa
				55	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				56	Private	Unirrigated 2	0.0100	Ghisya S/o Mohana bycaste Gurjar
				57	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				85	Private	Unirrigated 2	0.0100	Jhutha. Nathu Gopi, Ramkaran, Ramsahay S/o Sonya Nehana Widow of Sonya bycaste Gurjar
				87	Private	Unirrigated 2	0.0600	
				88	Private	Unirrigated 2	0.0700	Chhaju Lal, Shankar Lal S/o Ram Kunwar Guardian Mother, Bachhi Devi Widow Ram Kunwar, 1/2, Ram Prasad Deva S/o Kalyan 1/2 bycaste Gurjar
				142	Private	Gomu Rasta	0.0400	
				145	Private	Unirrigated 2	0.0900	Kamla Devi W/o Late Kesra, Babulal, Munna Lal S/o Kesra, 1/6, Mahadev, Ramsahay S/o Birdha 1/3, Chothmal, Sitaram, Radhey Shyam, Lailu Lal, Kailash S/o Shankar Lal, 1/2 bycaste Khumar R/o Roop Niwas Alias Thuni
				146	Private	Unirrigated 2	0.1500	
				148	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				50	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				49	Private	Unirrigated 2	0.0200	Ankit S/o Bhagwati shay Agrawal
				43	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				45	Private	Unirrigated 2	0.0200	Lalya, Kalya S/o Nanga bycaste Gurjar
				2	Private	Unirrigated 2	0.5700	Sri Narayan S/o Ganesh bycaste Gurjar
		(10) Roopniwas alias Thooni		250	Private	Unirrigated 1	0.1800	Kalyan S/o Chhitarmal 1/3, Jagdish Narayan S/o Chhitarmal 2/3 bycaste Meena R/o Hukan
				153	Private	Unirrigated 2	0.3100	
				154	Private	Unirrigated 2	0.1800	
				156	Private	Unirrigated 2	0.0100	Kalyan S/o Chhitarmal 1/6, Jagdish Narayan S/o Chhitarmal 1/3, Prahlad S/o Ghansi 1/2 bycaste Meena Hukan
				163	Private	Road	0.0400	
				164	Private	Unirrigated 2	0.0800	
				165	Private	Unirrigated 2	0.3000	
				249	Private	Unirrigated 1	0.1800	Jagganath S/o Ghansi, Roopnarayan S/o Gulab bycaste Meena
				316	Private	Unirrigated	0.2300	Narayan Bhagirath S/o Chothmal 1/2, bycaste Meena R/o Hukan, Moolchand S/o Jagdish 1/2 bycaste Meena

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				172	Private	Unirrigated 2	0.2000	Feli Ram S/o Kalla 23/331, Ramkaran, Arjun S/o Kalya 32/331, Gopi S/o Kalla 25/331, Jagganath S/o Ghansi, Roopnarayan S/o Gulab, Bali Devi D/o Gulab 13/331, Kalu S/o Chhitar bycaste Meena R/o Hukan 24/331, Birdhi Devi widow Kalyan D/o Srila 14/331, Chhitar S/o Bhoriyan 24/331, Narayan Bhagirath S/o Chothmal 11/331
				173	Private	Unirrigated 2	0.3900	Mookchand S/o Jagdish 11/331 Manbhar widow Gopal, Nathu Lal, Kalu Ram S/o Gopal, Dharamraj, Bholu Ram Choti Koshalya, Santara S/o Gopal Gurdian Mother Manbhar widow Gopal 33/331, Ramsukha S/o Roopa 48/331, Damodar, Meetha Lal, Lalchand, Suresh Chand S/o Prahlad Ganga widow Prahlad 23/662, Laxman Bhagwans, Ramrai, Babulal, Ranjeeta S/o Sawanta 23/662 Ram Sahay S/o Jagganath 25/331 bycaste Meena
				174	Private	Banjar 1	0.4100	Manbhar widow Gopal, Nathulal, Kalu Ram S/o Gopal, Dharamraj, Bholu Ram, Choti Koshalya, Santara S/o Gopal Guardian Mother Manbhar widow Gopal bycaste Meena
				245	Private	Unirrigated 1	0.4000	Manbhar widow Gopal, Nathulal, Kalu Ram S/o Gopal, Dharamraj, Bholu Ram, Choti Koshalya, Santara S/o Gopal Guardian Mother Manbhar widow Gopal bycaste Meena
				307	Private	Unirrigated 1	0.3000	Ramkaran, Arjun S/o Kalya bycaste Meena
				308	Private	Unirrigated 1	0.1700	Ram Sahay S/o Jagganath bycaste Meena
				246	Private	Unirrigated 1	0.2400	
				247	Private	Unirrigated 1	0.0200	Ramsukh S/o Roopa bycaste Meena
				309	Private	Unirrigated 1	0.1700	
				151	Private	Unirrigated 2	0.2000	Laxmi Narayan S/o Ram Sahay bycaste Meena
				152	Private	Unirrigated 2	0.2000	
		(11) Hulaspora alias Hookan		965	Government	Drain	0.0700	Government Land
				923	Private	Unirrigated 2	0.0400	Kana Ram, Ganesh, Kishan, Laxmi Narayan, Hanuman, Bhagwan, Motilal S/o Parsya, Gyarsi widow Parsya bycaste Meena
				921/1258	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				805	Private	Unirrigated 2	0.0800	Kana Ram, Ganesh, Kishan, Laxmi Narayan, Hanuman, Bhagwan, Motilal S/o Parsya, Gyarsi widow Parsya 1/3, Without Mortgage Kalya S/o Mangya 1/3, R/o J. J Sahakari Bhumi Vikas Bank Branch Chaksu, Madho, Bhagirath S/o Balu 1/3 bycaste Meena
				806	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				938	Private	Unirrigated 2	0.0300	Kesra S/o Ganglya 1/3, Jai Narayan S/o Roopa 1/3, Prahlad, Kishna S/o Ghansi 1/6, Chanda Lal S/o Uda 1/6, bycaste Meena
				939	Private	Unirrigated 2	0.1500	
				940	Private	Unirrigated 2	0.1000	
				730	Private	Irrigated	0.0600	Godu S/o Gyarsa 1/2, Mangli widow Bhoriya 1/16, Gopal S/o Lala 1/16, Kalu Ram, Ram Sahay S/o Jagdish, Bhanwari Devi widow Jagdish 1/8, Ramphool S/o Bijya 1/4 bycaste Meena
				756	Private	Banjar 1	0.0900	Chanda S/o Uda, Kalyan S/o Chhitar, Jagdish Narayan S/o Chhitar Share Equal, Ramphool S/o Bijya, Kaluram, Ramsahay S/o Jagdish, Bhanwari Devi widow Jagdish, Ram Sahai S/o Bhoria, Bihari Lal S/o Bhura, Ramsukh S/o Chuna, Kesra S/o Gangla, Jai Narayan S/o Roopa, Fali Ram, Shankar Lal S/o Nanag Ram, Mohri widow Nanagram Share Equal Adopt Son Narayan, Kalyan, Hajari S/o Indraj Share Equal Panchi widow Jagganath Nenu S/o Jagganath, Godya S/o Gyarsa Moti widow Ramchandra, Ram Narayan, Laxmi Narayan, Badri Narayan S/o Ramchandra, Kana Ram, Ganesh, Kishan, Laxmi Narayan, Hanuman, Bhagwan, Motilal S/o Parsa Gyarsi widow parsa and Kalya S/o Mangya 2/3, Madho, Bhagirath S/o Balu 1/3 @ 1/15 bycaste Meena
				757	Private	Irrigated 2	0.0300	
				934	Private	Unirrigated 2	0.3400	
				935	Private	Unirrigated 2	0.2900	
				731	Private	Irrigated	0.0500	Chanda S/o Uda 1/4, Prahlad, Kishna S/o Ghansi 1/4, Kalyan S/o Chhitar 1/12, Jagdish Narayan S/o Chhitar, 1/6, Narayan, Bhagirath S/o Chothya 1/4 bycaste Meena

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				732	Private	Irrigated	0.0700	Jai Narayan S/o Roopa 1/16, Ladu Mahadev, Ratanlal S/o Lala 1/16, Choti Devi widow Balu Ram, Har Sahay, Ganga Sahay, Rang Lal, Bharat Lal alis Ramkishor S/o Balu Ram 1/8, Kesra S/o Ganglya 1/8, Rampal, Bhura Ram, Ramlal S/o Pancha 3/32, Mangi Devi widow Sanwat Ram, Babu Lal, Ram Bhajan, Gyarsi Lal S/o Sanwat Ram, Puni Devi, Dhanni Devi, Vimla Devi D/o Sawanta 1/32, Mangli widow Bhoriya 1/16, Gopal S/o Lala 1/16, Kalu Ram, Ramsahay S/o Jagdish Bhori widow Jagdish 1/8, Ramphool S/o Bijya 1/4 bycaste Meena
				733	Private	Unirrigated 1	0.0300	Jai Narayan S/o Roopa 1/3, Ladu Mahadev, Ratanlal S/o Lala 1/3, Choti Devi widow Balu Ram, Har Sahay, Ganga Sahay, Rang Lal, Bharat Lal alis Ramkishor S/o Balu Ram 1/3 bycaste Meena
				734	Private	Irrigated 2	0.0200	
				735	Private	Irrigated 2	0.0200	
				736	Private	Irrigated 2	0.0500	
				737	Private	Irrigated 2	0.0600	
				755	Private	Unirrigated 1	0.1400	
				758	Private	Irrigated 2	0.0400	
				761	Private	Irrigated 2	0.0500	
				842	Private	Irrigated 2	0.1900	Narayan, Bhagirath S/o Chothya 1/2, Kalyan S/o Chhitar 1/6, Jagdish Narayan S/o Chhitar 1/3 bycaste Meena
				848	Private	Irrigated 2	0.0900	
				849	Private	Irrigated 2	0.0300	
				931	Private	Unirrigated 2	0.3800	
				810	Private	Unirrigated 1	0.0600	
				811	Private	Unirrigated 1	0.0500	
				812	Private	Unirrigated 1	0.0900	
				814	Private	Unirrigated 1	0.0300	
				817	Private	Unirrigated 1	0.0600	Panchi widow Jagganath & Nenu S/o Jagganath bycaste Meena Khatedar
				818	Private	Unirrigated 1	0.0100	
				819	Private	Unirrigated 1	0.0500	
				820	Private	Unirrigated 1	0.0900	
				802	Private	Unirrigated 1	0.0500	
				803	Private	Unirrigated 1	0.0200	
				804	Private	Unirrigated 1	0.0600	
				852	Private	Irrigated 2	0.2100	
				809	Private	Unirrigated 1	0.0300	Ram Sahay S/o Bhoriya bycaste Meena, Khatedar
				813	Private	Unirrigated 1	0.0300	
				762	Private	Irrigated 2	0.0800	
				763	Private	Irrigated 2	0.1200	
				815	Private	Unirrigated 1	0.0300	
				816	Private	Unirrigated 1	0.0500	
				754	Private	Unirrigated 1	0.0900	
				764	Private	Unirrigated 1	0.1000	
				765	Private	Unirrigated 1	0.0100	Feli Ram, Shankar Lal S/o Nanag Ram & Mohri widow Nanag Ram bycaste Meena, Khatedar
				766	Private	Unirrigated 1	0.0100	
				767	Private	Unirrigated 1	0.0700	
				768	Private	Unirrigated 1	0.0900	
				769	Private	Unirrigated 1	0.0600	
				770	Private	Unirrigated 1	0.0500	
				771	Private	Unirrigated 1	0.0500	
				772	Private	Unirrigated 1	0.0500	
				843	Private	Irrigated 2	0.1300	Ram Sukha S/o Chunya bycaste Meena, Khatedar
				850	Private	Irrigated 2	0.1700	
				851	Private	Irrigated 2	0.0100	
				853	Private	Unirrigated 2	0.1100	Ram Sahay S/o Bhoriya bycaste Meena, Khatedar
				847	Private	Irrigated 2	0.2500	Ramphool S/o Bijya bycaste Meena, Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				859	Government	Unirrigated	0.0900	Government Land
				860	Government	Unirrigated	0.0500	
				861	Government	Unirrigated	0.0900	
				862	Government	Unirrigated	0.1100	
				863	Government	Unirrigated	0.0600	
				864	Government	Unirrigated	0.0600	
				503	Government	Unirrigated	0.3400	
				921	Government	Unirrigated	1.9100	
				923/1259	Government	Unirrigated	0.1400	
				932	Government	Unirrigated	0.1200	
				957	Government	Unirrigated	0.6500	
				502/1274	Private	Unirrigated 2	0.7500	Ladu Mahadev, Ratan Lal S/o Lala caste Meena, Khatedar
				921/1285	Private	Unirrigated 2	0.2500	Bhanwar Lal S/o Hari Narayan, bycaste Dholi, Khatedar
				920/1301	Private	Unirrigated 2	0.0700	
			(12) Sahabrampura alias Sirunjiya	232/477	Government	Population	0.3700	Government Land
				343	Government	Population	0.0500	
				247	Government	Banjar 1	0.0600	
				248	Government	Irrigated 2	0.0300	
				222	Private	Unirrigated 2	0.1300	Rampyari W/o Jagdish bycaste Gurjar Aakodia
				223/481	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				243	Private	Irrigated 2	0.0200	Ibrahim Kha, Fakir Kha S/o Bhure Kha 1/3, Subrathi Kha, Mohd. Kha S/o Hussan Kha 1/2 Shadin W/o Ibrahim Kha Share 1/6 bycaste Musalman Residence Kho Nagorian
				244	Private	Banjar 1	0.0100	
				245	Private	Irrigated 2	0.0500	
				246	Private	Irrigated 2	0.0800	
				249	Private	Irrigated 2	0.0600	
				303	Private	Irrigated 2	0.2000	
				304	Private	Irrigated 2	0.0700	
				339	Private	Irrigated 2	0.0200	
				340	Private	Irrigated 2	0.0900	
				341	Private	Irrigated 2	0.0200	
				342	Private	Irrigated 2	0.0100	Ibrahim Kha, Fakir Kha S/o Bhure Kha 1/3, Subrathi Kha, Mohd. Kha S/o Hussan Kha 1/2 Ramju Kha S/o Bhure Kha Share 1/6 bycaste Musalman Residence Kho Nagorian
				339/474	Private	Irrigated	0.0200	
				223	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				215	Private	Unirrigated 2	0.0600	
				236	Private	Unirrigated 2	0.1200	Kalu Kha, Ganni Kha S/o Allahdin Kha bycaste Musalman R/o Khon Nagoriyan, Tehsil Sanganeer, Jaipur
				216	Private	Unirrigated 2	0.0100	Subrathi Kha S/o Jamal Kha, bycaste Musalman R/o Khon Nagoriyan, Tehsil Sanganeer, Jaipur
				233	Private	Unirrigated 2	0.2300	Nasir Kha S/o Umar Kha 1/2 R/o J.J. Sahkari Bhumi Vikas Bank Branch Chaksu Jummibanu W/o Nasir Kha, Jatun W/o Subrathi Kha 1/2 bycaste Musalman
				234	Private	Unirrigated 2	0.0600	
				235	Private	Unirrigated 2	0.1600	
				219	Private	Unirrigated 2	0.1700	Subrathi Kha S/o Bhure Kha 3/4, Raisa widow Kalu Kha, Shabana, Anisa, Sahina D/o Kalu Kha Guardian Raisa widow Wideo of Kalu Kha, 1/4 bycaste Musalman
				232	Government	Banjar 1	0.9300	Government Land
				238	Government	Banjar 2	0.0200	
			(13) Shrilaxmanpura	10	Government	Population	0.0400	Government Land
				16	Government	Population	0.0300	
				45	Government	Population	0.0300	
				42	Private	Irrigated 2	0.2900	
				43	Private	Irrigated 2	0.0400	Kalya S/o Mulya bycaste Meena R/o Mortgage The Jaipur Central Co-operative Bank Ltd. Brancha Chaksu
				66	Private	Irrigated 2	0.4300	
				67	Private	Unirrigated 1	0.0100	
				100	Private	Talabi	0.1100	
				101	Private	Irrigated 2	0.3300	
				102	Private	Road	0.0900	
				103	Private	Irrigated 2	0.2200	
				195	Private	Unirrigated 2	0.4500	
				196	Private	Unirrigated 2	0.0600	
								Parayan Nanda S/o Bhura bycaste Jat R/o Nimodia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4	Private	Irrigated 2	0.0600	Mahadev, Gopal, Ram Narayan S/o Bhoma bycaste Meena
				5	Private	Irrigated 2	0.0600	
				6	Private	Irrigated 2	0.0800	
				11	Private	Unirrigated 1	0.0500	
				46	Private	Irrigated 2	0.0400	
				47	Private	Irrigated 2	0.0200	
				48	Private	Irrigated 2	0.0100	
				57	Private	Irrigated 2	0.0700	
				58	Private	Irrigated 2	0.0100	Ganga widow Ram Sahay, Hanuman Sahay Adopted Son Ram Sahay 1/5, Felya Tarachand, Gopal, Shyaji S/o Bhoriya bycaste Meena 4/5
				128	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				126	Private	Talabi	0.0100	
				127	Private	Talabi	0.1300	
				132	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				138	Private	Unirrigated 2	0.0800	
				139	Private	Unirrigated 2	0.1300	
				140	Private	Unirrigated 2	0.1500	
				141	Private	Unirrigated 2	0.0400	Ram Kunwar Sh. Nathu 1/2 Mortgage SBBJ Branch Chaksu, Badri Narayan S/o Nathu 1/2 Mortgage J. J. Sahkari Bhumi Vikas Bank, Branch Chaksu
				145	Private	Talabi	0.0500	
				1	Private	Unirrigated 2	0.0600	
				7	Private	Irrigated 2	0.1500	
				8	Private	Irrigated 2	0.1000	
				12	Private	Unirrigated 1	0.0300	
				44	Private	Irrigated 2	0.0600	
				52	Private	Irrigated 2	0.0300	
				56	Private	Irrigated 2	0.0100	Ram Karan S/o Kana 1/4, Kalyan, Shyaji, Ghasi S/o Kana 3/4 bycaste Meena
				130	Private	Unirrigated 2	0.1500	
				9	Private	Irrigated 2	0.1600	
				49	Private	Irrigated 2	0.2800	Revad S/o Ganesh bycaste Meena
				50/203	Private	Irrigated 2	0.0400	
				50	Private	Irrigated 2	0.0200	Ramchandra, Ramtal S/o Goru 1/2, Pokharmal, Sheonarayan, Badri Narayan, Bagrang Lal, Gopal S/o Ram Sahay 1/2 bycaste Jat R/o Nimodia
				137	Private	Unirrigated 2	0.6400	
				99	Private	Irrigated 4	0.4200	Sukha Devi widow Phoolchand 1/5 Gulla Ram, Babulal, Ramkaran, Kailash Chand S/o Phoolchand 4/5 bycaste Meena, Mortgage UCO Bank Branch Chaksu
				98/201	Private	Irrigated 4	0.0500	
				131	Private	Unirrigated 2	0.4500	Government Land
			(14) Dayapura	80/317	Government	Road	0.0100	
				81/318	Government	Road	0.0100	
				212	Government	Road	0.0600	
				219	Private	Unirrigated 2	0.0100	Kalyan S/o Chhitarmal 1/3 Jagdish Narayan S/o Chhitarmal 2/3 bycaste Meena R/o Hukan
				220	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				251	Private	Unirrigated 2	0.2500	
				252/303	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				280	Private	Unirrigated 2	0.0700	Temple awarded to Sh. Ram Kunwar Ji Note:-High Court Stay 550/99
				249	Private	Unirrigated 2	0.6200	Paras Ram S/o Kalyan B/c Brahman R/o The Jaipur Central Co-Operative Bank Limited, Branch Chaksu
				84/331	Private	Unirrigated 2	0.1300	Ramesh Chandra S/o Kahna B/c Brahman
				83	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				84	Private	Unirrigated 2	0.7000	Manbhar W/o Ramsahay and Geeta Devi W/o Lalchand B/c Bagda Brahman R/o Rampura alias Karwarpura Tehsil Sanganer share 118/134, Ramesh Chand S/o Kahna B/c Brahman share 16/134
				70	Private	Unirrigated 2	0.5400	Manju W/o Radhakrishna share 1/2 Ramjilal S/o Jagdish Narayan share 1/2 B/c Brahman
				80/316	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				259	Private	Unirrigated 2	1.0500	Ram Sahay S/o Kalyan B/c Jat R/o Nimodia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				66	Private	Unirrigated 2	0.0200	Rameshwar Jai Narayan S/o Laxmi Narayan share 1/2 Bilaraman Badri Narayan, Jagdish Madan S/o Kears share 1/2 B/c Jat R/o Nimodia J.J. Sahkari Bhumi Vikas Bank Branch Chaksu
				265	Private	Unirrigated 2	0.2600	Shivprasad Satyanarayan Hanuman prasad Kahniyalal S/o Mangilal B/c Brahman R/o Nimodia share 1/6 Shankar Singh, Hanuman Singh, Raghuveer Singh S/o Bhanwar Singh share 1/6 Hemraj Singh S/o Chhitar Singh B/c Rajpoot R/o Nimodia Gurjain Chhitar Singh S/o Rewta Singh share 2/3 Khatedar
				266	Private	Unirrigated 2	0.2300	
				267	Private	Unirrigated 2	0.1700	
				268	Private	Unirrigated 2	0.2600	
				270	Private	Unirrigated 2	0.4300	
				252	Private	Unirrigated 2	0.6600	Hanuman Prasad S/o Ram Prasad B/c Jat Gurgain Ramprasad S/o Khud R/o Nimodia share 1/3 Ritu Gupta W/o Alok Kumar Gupta B/c Mahajan R/o Ram Nagariyan Tehsil Sanganer, Rama Goyal W/o Ramdayal Goyal B/c Mahajan R/o Jaipur, Anju Dangayach W/o Alok Dangayach B/c Mahajan R/o Sethi Colony, Jaipur share 2/3 Khatedar
				85/321	Private	Unirrigated 2	0.0100	Gopal S/o Chothmal share 1/2 Ramchandra S/o Chothmal share 1/2 B/c Brahman, Sa Deh R/o SBBJ Branch Chaksu
				76	Private	Irrigated 3	0.0800	
				70/314	Private	Unirrigated 2	0.0100	Sita Ram Babulal S/o Kalyan B/c Brahman
				66/313	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				71	Private	Unirrigated 2	0.4400	Rameshwar S/o Moolchand share 1/2 B/c Brahman, Abdul Masjid Khan S/o Hazi Ismile Khan share 1/2 B/c Musalman R/o Kho Nagoriyan Tehsil Sanganer, Jaipur
				72	Private	Unirrigated 2	0.3200	
				74	Private	Irrigated 3	0.1000	
				270/338	Government	Road	0.0200	Public Works Department
				81	Government	Unirrigated	0.0900	
				82	Government	Unirrigated 2	0.0900	Government Land
		(15) Chaksu		4023	Private	Unirrigated 2	0.7600	Roopnarayan, Jagdish Ghasi S/o Bhorilal, Nangi Widow of Bhorilal 1/4 Bhagwansahai, Ramavatar, Chotu, Badri S/o Kana, Rampyari Widow of Kanaram 1/4 by caste Bairwa Nathuram, Goduram, Gangaram, Prabhudayal, Jagdish S/o Panchuram 1/4 Khema S/o Ramnath 1/4 by caste Chamar Khatedar
				4032	Private	Irrigated 4	0.2400	
				4033	Private	Unirrigated 2	0.3100	
				4034	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				4037	Private	Irrigated 4	0.1700	
				4042	Private	Irrigated 4	0.0800	
				4038	Private	Irrigated	0.0200	
				4043	Private	Unirrigated 2	0.2200	
				4058/1189 6	Private	Unirrigated 2	0.1800	Rupa S/o Bhoirya by caste Bairwa 1/2 Rampyari W/o Mahendra and Santosh W/o Mukesh Kumar 3/4 Bhagwan Sahai S/o Kanaram 1/4 dar hi. 1/2 Bairwa
				4036	Private	Unirrigated 2	0.1500	
				4049	Private	Naher	0.0800	Rupa S/o Bhoirya by caste Bairwa 1/2 Ramyanki W/o Kanaram, Bhagwansahai, Chotu, Badri S/o Kanaram by caste Bairwa 1/2
				4058	Private	Unirrigated 2	0.3000	Gulli Widow of Mothu, Prahalad S/o Mothu 1/4 Daulatram S/o Pachuram 1/4 Gulla, Godu S/o Nonda 1/2 by caste Bairwa
				4081	Private	Unirrigated 2	0.2700	Gulli Widow of Mothu, Prahalad S/o Mothu 1/4 Gulla, Godu S/o Nonda 1/2 by caste Bairwa Narayan Lal S/o Chittarmal 1/4 by caste Khateek
				4080	Private	Unirrigated 2	0.3000	Babulal S/o Bhoma, Pappulal S/o Ramchandra, Moharpal S/o Mulya, Jhuthi Widow of Bhoirya, Ramlal S/o Bhoirya 3/4 by caste Bairwa Mrs. Gulab Devi W/o Phool Chand Rajoria by caste Khateek 1/4
				4087	Private	Unirrigated 2	0.1300	
				4088	Private	Unirrigated 2	0.0050	
				4091	Private	Irrigated 4	0.2400	
				4092	Private	Irrigated 4	0.1700	
				4093	Private	Unirrigated 2	0.1500	
				4096	Private	Irrigated 4	0.0050	
				4097	Private	Irrigated 4	0.0400	
				4089	Private	Unirrigated 2	0.1800	Lalita Devi W/o Shankarlal 2/5 by caste Bairwa Hanuman S/o Kishanlal by caste Khateek 1/5 Chandalai Mrs. Kushalidevi W/o Shravan Kumar 2/5 by caste Raigar R/o Ramchandrapura Tehsil Sanganer
				4090	Private	Irrigated	0.0200	Gangadhar S/o Bhorilal share 2/5, Surajmal S/o Kajor Mal share 2/5 B/c Berwa, Hanuman S/o Kishanlal B/c Khatik share 1/5 R/o Chandlai
				4098	Private	Irrigated 4	0.0600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4099	Private	Unirrigated 2	0.2100	Banwarilal Meharada S/o Mahadev Prasad Meharada by caste Balai R/o 4 K-24 Jawahar Nagar Jaipur 4/5 Hanuman S/o Kishanlal by caste Khateek 1/5 Chandalai
				4702/1195 9	Government	Road	0.2000	Public Works Department
				11135	Private	Unirrigated 2	0.6000	Bhorilal S/o Madho, Gopal, Ramsahai, Jagdish S/o Ratana, Ramphool, Raghudayal, Kanhiyalal, Sitaram, Chuttan S/o Govindram by caste Gurjar Chandel
						Irrigated 4	0.5000	
				11138	Private	Unirrigated 2	0.5000	Chittarnal S/o Ghasiram by caste Baragaon Brahmin R/o Sitarampura
				11142	Private	Drain	0.0100	
				11140	Private	Unirrigated 2	0.0800	
				11141	Private	Unirrigated 2	0.1600	Mrs. Vinodrani Meharada W/o B.L. Meharada R/o 4 K-24 Jawahar Nagar Jaipur
				11144	Private	Unirrigated 2	0.9500	
				11145	Private	Unirrigated 2	0.0800	
				11146	Private	Unirrigated 2	0.0050	
				11189	Private	Unirrigated 2	0.1100	Mrs. Premdevi W/o Bhomaram 201 / 870 Chiranjilal S/o Panchu 402/5220 Kanhiyalal S/o Dhanna 402/5220 Gheesi Devi W/o Kanhiyalal 67/870 Mulchand S/o Ghasi 134/870 Jankidevi Widow of Pema, Ramlal S/o Pema 174/870 Jainarayan, Harinarayan, Anandilal, Sitaram S/o Rampal 160/870 by caste Bairwa Khatedar
				11190	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				11191	Private	Unirrigated 2	0.3500	
				11737	Private	Irrigated 4	0.1700	Narayan S/o Ramnath 1/2 Mortgage J.N.A. Rural Bank Branch Chaksu Murtheen Kailash chand, Mukesh s/o Jagdish 4/10 Galli devi w/o Jagdish 1/10 cast Jat Mortgage UCO Bank Branch Chaksu Murtheen
				11738	Private	Irrigated 4	0.3800	
				11741	Private	Irrigated 4	0.1500	
				11742	Private	Irrigated 4	0.1600	
				11747	Private	Irrigated 4	0.0400	
				11748	Private	Irrigated	0.0400	
				11749	Private	Irrigated 4	0.1100	
				11750	Private	Irrigated 4	0.1500	
				11759	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				11760	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				11758	Private	Unirrigated 2	0.2300	
				11757	Private	Unirrigated 2	0.1200	
				11756	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				11755	Private	Unirrigated 2	0.2500	
				11761	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				11808	Private	Banjar 1	0.0400	Ramphool, Jagdish S/o Ramchandra 2/3 Ramkaran S/o Ramchandra S/o Kana 1/3 by caste Jat
				11850	Private	Talabi	0.0100	
				11851	Private	Talabi	0.0300	
				11852	Private	Talabi	0.0500	
				11853	Private	Talabi	0.0500	
				11854	Private	Talabi	0.0500	
				11855	Private	Talabi	0.0700	
				11856	Private	Talabi	0.0700	
				11857	Private	Talabi	0.1400	
				11858	Private	Talabi	0.1200	
				11860	Private	Talabi	0.1300	Government
				11863	Government	Talabi	0.0500	
				11864	Government	Unirrigated	0.0300	
				11865	Government	Unirrigated	0.0400	
				11866	Government	Unirrigated	0.0600	
				11867	Government	Unirrigated	0.0400	
				11868	Government	Unirrigated	0.8500	
				11871	Government	Unirrigated	1.7500	
				11861	Government	Talabi	0.0400	
				11211	Government	Unirrigated	0.0700	
				11212	Government	Unirrigated	1.4600	Irrigation Department
				11226	Government	Unirrigated	0.0500	
				11762	Government	Canal	0.0500	
				11763	Private	Unirrigated 2	0.2800	Ramphool S/o Ramchandra, Gopi S/o Ramnath by caste Jat Khatedar
				11764	Private	Unirrigated 2	0.5600	
				11765	Private	Banjar 1	0.3600	
				11766	Private	Road	0.1400	
				11774	Private	Irrigated 4	0.0100	
				11775	Private	Irrigated 4	0.0100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11208	Private	Unirrigated 2	0.4300	Mrs. Premdevi W/o Bhomaram 201 / 870 Chiranjilal S/o Panchu 402/5220 Kanhiyalal S/o Dharma 402/5220 Gheesi Devi W/o Kanhiyalal 67/870 Mulchand S/o Ghasi 134/870 Jankidevi Widow of Pema, Ramlal S/o Pema 174/870
				11209	Private	Road	0.0100	Jainarayan, Harinarayan, Anandilal, Sitaram S/o Rampal
				11210	Private	Unirrigated 2	0.2000	160/870 by caste Bairwa Khatedar
				11130	Private	Unirrigated 2	0.6100	Chunnilal S/o Gyarasa 1/8 Gyanchand S/o Gyarasa 1/8 Prabhudayal, Gokul S/o Mahadev 1/8 Shankar S/o Ananda 1/48 Babulal S/o Ananda 1/16 Dakha devi w/o Kaluram 117/310 cast Regar, Geeta devi w/o Shankar lal 1/24 cast Khatik Laxmi Devi w/o Chunnilal 38/310 by caste Bairwa
				11132	Private	Unirrigated 2	0.0100	Chunnilal S/o Gyarasa 1/8 Gyanchand S/o Gyarasa 1/8 Prabhudayal, Gokul S/o Mahadev 1/8 Babulal s/o Ananda
				11133	Private	Unirrigated 2	0.4600	1/16 Munshi s/o Mohanlal Khatik 1/16 Dakha devi w/o
				11134	Private	Unirrigated 2	0.0700	Kaluram 1/2 cast regar residence Sanganer
				11809	Government	Banjar 1	0.0600	Government Land
				11192	Private	Unirrigated 2	0.0100	Smt. Prem Devi W/o Bhoma Ram B/c Berwa
		(16) Shri Bhagwanpura	354/833	Government	Drain	0.0100		
			374	Government	Unirrigated 2	0.0900		Government Land
			519	Government	Banjar 1	0.0800		
			622/868	Government	Unirrigated 2	0.1900		
			25	Private	Unirrigated 2	0.0400		Indrapal Singh S/o Durga Singh by caste Jat 2/5 C-25
			26	Private	Unirrigated 2	0.0900		Devanagar Jaipur Bejnath, Ramrakh S/o Shrinarayan 2/5
			27	Private	Unirrigated 2	0.3900		Mrs. Raji Devi W/o Ramphool 1/5 by caste Jat Dar 1/2
			28	Private	Unirrigated 2	0.1300		Jagdish S/o Ramjeevan 1/4 Ramchandra S/o Moharu and
			29	Private	Unirrigated 2	0.0500		Ramkaran S/o Rughnath 1/4 by caste Bairwa Khatedar
			774	Private	Unirrigated 2	0.0700		Smt. Rasmi devi W/o Ganga ram Meena R/o Jhanpda
			775	Private	Unirrigated 2	0.0600		
			343	Private	Irrigated	0.3500		
			344	Private	Banjar 1	0.0500		Ummaid Singh S/o Arjun Singh and Mohani Devi W/o
			345	Private	Irrigated 2	0.1900		Ummaid Singh 514/607 Equal Ashok Kumar S/o Kaluram
			346	Private	Banjar 1	0.0100		by caste Bairwa 93/607
			376	Private	Banjar 1	0.1300		
			377	Private	Banjar 1	0.0800		
			510	Private	Unirrigated 2	0.1700		
			511	Private	Unirrigated 2	0.3800		
			512	Private	Banjar 1	0.0100		
			9	Private	Unirrigated 2	0.0400		
			13	Private	Unirrigated 2	0.1700		Gyarasa, Kalya, Ramchandra Ghasi S/o Duga by caste
			14	Private	Unirrigated 2	0.5500		Chamar Nimodia Khatedar
			15	Private	Unirrigated 2	0.1400		
			18	Private	Unirrigated 2	0.0400		
			10	Private	Unirrigated 2	0.1000		Gyarasa, Kalya, Ramchandra Ghasi S/o Jhotha by caste
			12	Private	Unirrigated 2	0.0900		Bairwa Nimodia Khatedar
			16	Private	Unirrigated 2	0.0100		
			73	Private	Irrigated 3	0.0400		
			75	Private	Irrigated 3	0.0600		
			76	Private	Unirrigated 2	0.0400		
			77/850	Private	Unirrigated 2	0.0400		Lodachya S/o Tejaram by caste Meena R/o Bhidakyawas
			79/851	Private	Unirrigated 2	0.0400		Tehsil Chaksu
			80	Private	Unirrigated 2	0.0600		
			81	Private	Unirrigated 2	0.0100		
			85	Private	Irrigated 2	0.0200		
			370	Government	Unirrigated	0.0200		
			77	Government	Unirrigated	0.1200		
			78	Government	Unirrigated	0.1000		Government Land
			79	Government	Unirrigated	0.0600		
			372	Government	Pal	0.0200		
			1/874	Government	Road	0.1400		
			7/878	Government	Road	0.0100		Public Works Department
			11/875	Government	Road	0.0500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				82	Private	Unirrigated 2	0.0200	Ganga Devi W/o Bhoir Lal Caste Balai Share 1/6, Ward 17, Chaksu, Laxma Widow of Ghasi, Ramswaroop S/o Ghasi, Ramkaran S/o Rughnath Share 1/3 Ramjeevan, Ramchandra S/o Moharu 1/2 by caste Bairwa Nimodia Rahan Ramkaran S/o Rughnath 1/6 Jaipur Nagore Anchalik Rural Bank Branch Chaksu
				83	Private	Unirrigated 2	0.0600	
				84	Private	Unirrigated 2	0.2300	
				88	Private	Unirrigated 2	0.1700	
				90	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				91	Private	Unirrigated 2	0.1400	
				92	Private	Unirrigated 2	0.1400	
				93	Private	Unirrigated 2	0.1600	
				94	Private	Unirrigated 2	0.2100	
				95	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				96	Private	Unirrigated 2	0.0600	Kaniyalal S/o Nanagram 5/6 Kailash S/o Prabhat 1/6 by caste Bairwa Chaksu
				100	Private	Unirrigated 2	0.1500	
				101	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				385	Private	Unirrigated 2	0.0900	
				386	Private	Unirrigated 2	0.1800	
				387	Private	Unirrigated 2	0.2300	Gokul S/o Shriya 37/167 by caste Bairwa Tejadevi W/o Kajodmal, Kamla Devi W/o Rewadram, Bhagot W/o Prahalad, Meera W/o Parasram 130/167
				388	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				102	Private	Unirrigated 2	0.0600	Moti S/o Dhanna, Mangi Widow of Dhanna 1/3 Goruram, Mahadev, Ramjilal, Tejam S/o Chotu 1/3 by caste Chamar Khatedar Rahan Manna Devi Widow of Sohan, Shraavan, Choturam S/o Sohan 1/18 Kana, Gyarasa, Panchu S/o Chanda, Janki Widow of Chanda 4/18 Badri, Prabhu, Arjun, Bhagwanya, Mohan, Pappu S/o Nathu Laxmi Widow of Nathu 1/18 Jaipur Nagore Anchalik Rural Bank Branch Chaksu
				755	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				756	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				758	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				759	Private	Unirrigated 2	0.1100	
				760	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				762	Private	Banjar 1	0.1900	
				763	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				764	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				765	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				766	Private	Unirrigated 2	0.0300	Bhorilal, Jagdish, Kalu, Mangala S/o Jagannath by caste Bairwa Beed Peenarpura
				767	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				768	Private	Unirrigated 2	0.1500	
				769	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				499	Private	Irrigated 3	0.1100	
				500	Private	Irrigated 3	0.1800	Ramdev S/o Barda by caste Bairwa Beed Peenarpura
				501	Private	Irrigated 3	0.0600	
				505	Private	Irrigated 3	0.1800	
				506	Private	Irrigated 3	0.1500	
				507	Private	Irrigated 3	0.0100	
				508	Private	Irrigated 3	0.1200	Bal, Ramnarayan S/o Kalyan 1/4 Shyopal, Manna, Gopal S/o Ganesh 3/16 Mulidevi Widow of Kana, Jagdish, Pappu S/o Kana 1/16 Mangilal, Devnarayan S/o Gopi 1/4 Rughnath S/o Sunda 1/4 by caste Meena Beed Peenarpura Mortgage Jaipur Nagore Anchalik Rural Bank Branch Chaksu Mangilal, Devnarayan S/o Gopi 1/4
				509	Private	Banjar 1	0.0500	
				485	Private	Unirrigated 2	0.4700	
				502	Private	Irrigated 3	0.0300	
				611	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				612	Private	Unirrigated 2	0.4400	Mrs. Shanvar Kanwar D/o Laxman Singh Chauhan W/o Kalyan Singh Rathore by caste Rajput R/o Drainwas (Tapriya) Tehsil Lalsot (Stay Reference Abdulrahman)
				613	Private	Unirrigated 2	0.1600	
				616	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				617	Private	Unirrigated 2	0.2800	
				485/861	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				622	Private	Unirrigated 2	0.0500	Asha Devi w/o Gori Shankar Ghiya Jaipur
				618	Private	Unirrigated 2	0.1700	
				619	Private	Unirrigated 2	0.1800	
				620	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				117	Private	Unirrigated 2	0.0200	Dhapu Devi W/o Ramrakha, Madan Lal, Kailash Chand, Gopal Lal, Kahniya Lal S/o Ramrakha 1/4 Girraj, Hari Narayan, Rajendra, Babulal S/o Kesharlal 1/4 cast Mali Residence Nimoriya, Gora devi widow Shrija, Gokul Rewar, Prahlad, Premaram s/o Shrija 5/6 Teeja devi widow of Kajod, Mukesh s/o Kajod 1/6 @ 1/2 Hari Narayan S/o Keshar Lal Share 1/16 Mortgage Bhumi Vikas Bank Chaksu
				379	Private	Banjar 1	0.0800	Kahniya Lal S/o Nanag Ram 5/6 Cast Berwa, Kailash S/o Prabhat cast Berwa Minor Bali Prabhat, Gopi Berwa Share 1/6 Khetadar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				493	Private	Banjar 1	0.0050	Bhori Lal, Jagdish, Kalu, Mangla S/o Jagannath B/c Berwa
				504	Private	Irrigated 3	0.0050	R/o Beed Panarpura
				610	Private	Unirrigated 2	0.0100	Balu, Ramnarayan S/o Kalyan 1/4 Kahna, Shopal Manna, Gopal S/o Ganesh, Bhooli devi w/o Kana Jagdish, Pappu s/o Kana 1/4 Mangi Lal, Dev Narayan S/o Gopi, 1/4 Roughnath S/o Sunda 1/4 B/c Meena R/o Beedpanarpura
			(17) Biharilalpura alias Beed Panarpura	695	Private	Unirrigated 2	0.0300	Kalyan Chotu Laxman Pancha Gega S/o Kana 1/2 Manglaram Badri Narayan S/o Gangalya Bodilal s/o Badrinarayan sa- ki Govindpura 1/2 Meena Khatedar
				696	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				697	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				768	Private	Unirrigated 2	0.2500	
				769	Private	Unirrigated 2	0.1500	
				770	Private	Unirrigated 2	0.1200	
				767	Private	Unirrigated 2	0.1600	
				766	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				776	Private	Irrigated 3	0.3200	
				771	Private	Unirrigated 2	0.0800	
				773	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				775	Private	Unirrigated 2	0.5500	
				777	Private	Unirrigated 2	0.1400	
				778	Private	Unirrigated 2	0.0700	
				779	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				780	Private	Unirrigated 1	0.2000	Sheoram Rampal Babulal S/o Purya 3/4, Nangi widow Ramkishan 1/4 Dar 1/2 Mortgage Jaipur Jila Sahakari Bhumi Vikas Bank Branch Ltd. Chaksu Devkaran S/o Purnya 1/2 bycaste Bairwa, Khatedar
				782	Private	Unirrigated 1	0.0100	
				794	Private	Unirrigated 1	0.3400	
				793	Private	Irrigated 3	0.3100	
				792	Private	Irrigated 3	0.0300	
				791	Private	Irrigated 3	0.1100	Jagganath Harnath Nenuram Sitaram Mohanlal S/o Mahadev 5/32, Prahlad Choturam S/o Ram kunwar Lalli W/o Ram kunwar Lali D/o Ram Kunwar Major Kesar D/o Ram Kunwar Minor Guardian Mother Lalli 1/32 Rajkamal S/o Sharvan Lal Lachhi W/o Sharvan Lal Kajori D/o Sharvan Lal Minor Gurgain mother Lachhi 1/32, Paradevi W/o Bridhi chand 1/32, Govinda Pancha S/o Chhaju 1/2, Mangi Devi widow Narayan Srilal Gerdhan S/o Narayan 1/4 bycaste Meena, Khatedar
				784	Private	Irrigated	0.0400	
				785	Private	Irrigated 3	0.0900	
				786	Private	Irrigated 3	0.0700	
				807/1187	Private	Canal	0.0900	
				816	Private	Irrigated 3	0.0500	
				817	Private	Irrigated 3	0.0300	
				815	Private	Irrigated 3	0.1200	
				813	Private	Irrigated 3	0.2000	
				814	Private	Irrigated 3	0.0800	
				810	Private	Irrigated 3	0.0200	Ramlal Prabhu Bhagwan Sahai Ganga Ram, Gopal Chanda Lal S/o Bhonri Lal 1/2 Arjun S/o Moolchand 1/2 bycaste Bairwa
				811	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				812	Private	Unirrigated 2	0.0900	
				829	Government	Unirrigated	2.3000	
				828	Government	Well	0.0300	
				807	Government	Canal	0.0800	Government
				584	Government	Road	0.0200	Irrigation Department
			(18) Tigriya	649/2	Private	Unirrigated 2	0.2400	Government Land
				585	Private	Canal 2	0.0400	Ananda S/o Gopi bycaste Gurjar Mortgage SBBJ Branch Chaksu
				586	Private	Canal 2	0.3200	
				587	Private	Canal 2	0.4800	
				640	Private	Canal 2	0.1200	Kalu S/o Jivan bycaste Gurjar
				453	Private	Unirrigated 2	0.9400	
				650	Private	Unirrigated 2	0.1000	Gulab Devi W/o Late Govinda 1/2 SBBJ Branch Chaksu Harlal S/o Suiya bycaste Gurjar 1/2
				340	Private	Unirrigated 2	0.1000	
				347	Private	Canal 2	0.3700	Rukmadevi w/o Premraj cast Gurjar
				348	Private	Irrigated 4	0.0900	Rukmadevi w/o Premraj cast Gurjar Share 9/39, Sushila Devi W/o Kasi Narayan Share 30/39
				349	Private	Irrigated 4	0.2700	Bimla devi w/o Chiranjilal Brahman Jaipur
				350	Private	Irrigated 4	0.1800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				351	Private	Irrigated	0.0100	Sushila devi W/o Kasi Narayan Caste Bhramin
				352	Private	Irrigated 4	0.2800	
				645	Private	Canal 2	0.0800	Gulab Devi W/o Late Govinda bycaste Gurjar Rahin SBBJ Branch, Chaksu
				646	Private	Unirrigated 2	0.0800	
				643	Private	Canal 1	0.1200	Rajesh Bhagwan Hemraj S/o Girraj, Rouckma Devi widow Girraj 1/2, Mangi Lal S/o Dula 1/2, bycaste Gurjar Mortgage SBBJ, Branch Chaksu
				563	Private	Unirrigated 3	0.1800	Badri S/o Kishna 1/8 Ramlal S/o Gopi 1/24 Mortgage Jaipur Nagor Anchlik Gramin Bank Chaksu, Ganga Ram, Sukhdev S/o Gopi Share 1/12 Mohan S/o Kahniya Fulla widow Kahniya Neni Shanti Devi D/o Kahniya 1/4 Share Equal, Harinarayan S/o Ghasi 1/4 Ramswroop S/o Narayan 1/8 Narayani widow Narayan Ramdhan Ramkishor S/o Narayan 1/8 bycaste Gurjar
				569	Private	Unirrigated 3	0.9800	
				564	Private	Unirrigated 3	0.1900	
				507	Private	Irrigated 4	0.0900	
				508	Private	Irrigated 4	0.1700	
				509	Private	Irrigated 4	0.1800	
				510	Private	Irrigated 4	0.1400	
				511	Private	Irrigated	0.0200	
				512	Private	Irrigated 4	0.0500	
				513	Private	Irrigated 4	0.0100	
				515	Private	Canal 2	0.0100	
				516	Private	Canal 2	0.1200	
				574	Private	Canal 2	0.1700	
				354	Private	Canal 2	0.0100	Nathu S/o Ramkunwar bycaste Gurjar
				386	Private	Irrigated 2	0.2500	
				387	Private	Irrigated 2	0.1200	
				393	Private	Irrigated 2	0.0100	Bhorilal Ramraj Babulal Sriram Harjiram S/o Manfula bycaste Gurjar
				454	Private	Canal 1	0.0200	
				588	Private	Unirrigated 3	0.3500	Mangilal S/o Lalaram bycaste Khateek R/o Chaksu Ward No. 12
				583	Private	Unirrigated 3	0.5500	Mohan S/o Kahniya Fulla widow Kahniya Neni Shanti D/o Kahniya bycaste Gurjar
				389	Private	Irrigated	0.1500	Bhorilal Ramraj Babulal Sriram Harjiram S/o Manful 5/8, Shankar S/o Bhoriya 3/8 bycaste Gurjar
				639	Private	Unirrigated 2	0.2700	
				642/828	Private	Unirrigated 2	0.1000	
				649/830	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				644	Private	Unirrigated 2	0.7600	Ramprasad Radhakrishan Lalaram Madanlal S/o Laduram bycaste Gurjar Rahin SBBJ Branch Chaksu
				647	Private	Unirrigated 2	0.0300	
				641	Private	Unirrigated 3	0.2100	Ramprasad Lalaram Radhakrishan Madanlal S/o Laduram 180/200 Mortgage SBBJ Branch Chaksu and Devalal Nandram S/o Nathulal 20/200 equal bycaste Gurjar
				642	Private	Unirrigated 3	0.1000	
				589	Private	Road	0.0400	
				590/1	Private	Unirrigated 3	0.0600	Ramlal Gangaram Sukhdev S/o Gopi bycaste Gurjar
				341	Private	Canal 2	0.5500	
				342	Private	Canal 2	0.4000	
				345	Private	Canal 2	0.2000	
				346	Private	Canal 2	0.0100	
				353	Private	Canal 2	0.0500	
				372	Private	Canal 2	0.0600	
				373	Private	Canal 2	0.0200	
				374	Private	Canal 2	0.1700	
				435	Private	Canal 2	0.1600	
				436	Private	Canal 2	0.3500	
				437	Private	Canal 2	0.2400	
				390	Private	Irrigated 2	0.2300	
				388/816	Private	Canal	0.0400	Shankar S/o Bhuriya bycaste Gurjar Mortgage SBBJ Branch Chaksu
				558	Private	Unirrigated 3	0.4700	
				517	Private	Canal 2	0.1200	
				518	Private	Canal 2	0.1200	
				570	Private	Canal 2	0.3000	
				573	Private	Canal 2	0.1400	
				383	Private	Irrigated 2	0.0100	
				384	Private	Irrigated 2	0.1600	
				385	Private	Irrigated 2	0.3000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				649/1	Private	Unirrigated 2	0.5100	Harial S/o Sujya bycaste Gurjar Khatedar
				257	Private	Banjar 2	0.1200	Lalaram S/o Roopa bycaste Gurjar, Mortgage SBBJ Branch Chaksu
				380	Government	Canal	0.0100	Government
			(19) Jaisinghpura Lodha	985	Government	Road	0.0100	Government Land
				990	Government	Canal	0.0100	
				1117	Government	Nali	0.0300	
				1214	Government	Nali	0.0200	
				1455	Government	Unirrigated 3	0.0200	
				1461	Government	Nali	0.0200	
				1465	Government	Road	0.0400	
				1466	Government	Banjar 1	0.0600	
				1471	Government	Road	0.0300	
				1525	Government	Road	0.0300	
				1520	Government	Nali	0.0300	
				1537	Government	Road	0.1000	
				1561	Government	Nali	0.0200	Amra S/o Chunya bycaste Lodha
				1209	Private	Canal	0.0300	
				1217	Private	Irrigated	0.0300	Kalu Puran Sukhlal Sannu S/o Hukma and Ganga widow Hukma 1/2 Amra S/o Chunya Kalyan S/o Teka 1/3, Harial S/o Rough Nath and Gulab widow Rough Nath bycaste Lodha 1/3 Dar 1/2 Nanga Chiranji Ramjilal S/o Chunya 1/6 Jagganath Mathura Lal Heeralal Hari Narayan S/o Bhooriya Harnath Roopa S/o Shankar, Ramgopal Nenu Rekha S/o Bhiwa 1/3 and equal bycaste Lodha
				1208	Private	Canal	0.0500	Kishan Sitaram S/o Kalyan bycaste Lodha
				1215	Private	Canal	0.0800	
				1216	Private	Canal	0.1300	
				1574	Private	Canal	0.0200	Mangalram S/o Kevliya bycaste Lodha
				1467	Private	Canal	0.0600	Kalyan Ram Singh S/o Shankar 2/3 Without mortgage Nathu Lal S/o Shankar 1/3 mortgage Bhumi Vikas Bank Branch Chaksu
				1469	Private	Canal	0.2500	
				1470	Private	Canal	0.2200	
				1472	Private	Canal	0.1200	
				1524	Private	Canal	0.3600	
				1530	Private	Canal	0.4700	
				1532	Private	Canal	0.3300	
				1533	Private	Canal	0.0300	
				1535	Private	Canal	0.0200	Gyarsa S/o Chotu bycaste Lodha
				1414	Private	Canal	0.0100	
				1415	Private	Canal	0.0100	
				1540	Private	Canal	0.2900	
				1560	Private	Unirrigated 2	0.0600	Ghisya S/o Chhaju bycaste Lodha
				1562	Private	Unirrigated 1	0.1100	
				1411	Private	Unirrigated 1	0.0200	Chhitra S/o Har Nath Lodha
				1519	Private	Canal	0.0600	Choti W/o Chotu Sultan Rajpal S/o Chotu bycaste Lodha
				1539	Private	Canal	0.0900	Jagdish Kana Ramnarayan Moti Mulya S/o Manna bycaste Lodha
				1407	Private	Unirrigated 1	0.0700	Jagdish Kana Ramnarayan Moti Mulya S/o Manna 1/4 equal Shankar S/o Ram Sukha 1/2 Mulya Radhakrishna S/o Panna 1/4 equal bycaste Lodha
				1545	Private	Canal	0.1000	Jagdish Kana Ramniwas Moti Mulya S/o Manna mortgage Hukma S/o Mangu bycaste Lodha
				1534	Private	Irrigated	0.0400	Jagdish Bansi Madan S/o Roopa Kesar W/o Roopa bycaste Lodha equal
				1405	Private	Unirrigated 1	0.1000	Saroj Devi W/o Brijpal Lodha 1/4 Jugal Kishore Panchuram Brijpal S/o Kalyan, Kasturi widow Kalyan 1/2 Ramphool S/o Panna Lal 1/4 bycaste Lodha
				1220	Private	Canal	0.0200	
				1222	Private	Irrigated 1	0.0300	
				1204	Private	Canal	0.0300	
				1205	Private	Canal	0.3000	
				1207	Private	Canal	0.0300	
				1218	Private	Canal	0.0800	
				1219	Private	Canal	0.0700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1123	Private	Irrigated 1	0.0300	Jhuntha S/o Nenu S/o Ram Gopal bycaste Lodha 1/3 Nenu S/o Bhiwa 1/3 Bhuri widow Rekha Ramkaran, Gangaram S/o Rakha 1/3 bycaste Lodha
				1124	Private	Irrigated 1	0.1600	
				1125	Private	Irrigated 1	0.1800	
				1213	Private	Canal	0.0900	
				1456	Private	Canal	0.0100	
				1457	Private	Canal	0.1700	
				1458	Private	Canal	0.2400	Jhuntha S/o Ram Gopal 1/6 Nandu S/o Bhiwa 1/6 Ramkaran S/o Ramrakh 18/44, Anandi Devi W/o Harinarayan Lodha 26/44, Dar 1/6, Heera Lal, Hari Narayan S/o Bhoji Lal 1/2 bycaste Lodha
				993	Private	Canal	0.2800	
				994	Private	Canal	0.2100	
				1126	Private	Canal	0.0400	
				1127	Private	Canal	0.0600	
				995	Private	Canal	0.1100	
				1393	Private	Unirrigated 1	0.0100	Bhuraram Ramu Nandkishore Ganesh S/o Madho bycaste Lodha
				1404	Private	Unirrigated 1	0.3700	
				986	Private	Canal	0.0200	Dakha widow Mahoriya Shyaji Chhitar Chotu S/o Mahoriya bycaste Lodha 1/2 mortgage J.N.A. Grahmin. Bank, Branch Chaksu, Dhanna S/o Bishna 1/2 bycaste Lodha
				1403	Private	Canal	0.0500	Mohna S/o Shyorama bycaste Lodha
				1408	Private	Unirrigated 1	0.2300	
				1409	Private	Unirrigated 1	0.1100	
				1410	Private	Unirrigated 1	0.3000	
				1452	Private	Canal	0.1900	Ramjilal S/o Narayan 1/3, Dharmendra Mukesh Dyaram S/o Kesra S/o Kesra Chiroji widow Kesra 1/3, Kajor S/o Kahna Ram 1/3 bycaste Lodha
				1459	Private	Canal	0.3200	
				1460	Private	Canal	0.1600	Rampal S/o Mohna bycaste Lodha
				1203	Private	Canal	0.0100	Roop Chand S/o Heera Lal bycaste Lodha
				1531	Private	Canal	0.0300	Roopa S/o Hukma bycaste Lodha
				989	Private	Canal	0.1800	Laxmi Narayan Prabhu Bhojiya S/o Bhorya 3/4, Sitaram S/o Laxmi Narayan 1/4 bycaste Lodha
				991	Private	Canal	0.0700	Lala S/o SriKishan and Chunya Devi W/o Nandram 1/2, Ramkaran S/o Sukhpal 1/2 bycaste Lodha
				992	Private	Canal	0.0200	
				1541	Private	Canal	0.2300	Smt Para Devi W/o Lala Ram, Chuniya Devi W/o Nand Ram, Neni Devi W/o Mohan Lal bycaste Lodha
				996	Private	Canal	0.2100	Sujya S/o Narayan bycaste Lodha
				987	Private	Canal	0.0200	
				988	Private	Canal	0.1300	Prahlad Sitaram Satya Narayan S/o Sonya bycaste Lodha
		(20) Rampura Bujarg		486	Private	Unirrigated 3	0.2100	Surendra Kaur W/o Jagtaar Singh, 3/47 Best Punjabi Bagh and Smt. Sushila Kriplani W/o M.R. Kriplani by caste Khatri. A S 99, Shalimar Bagh, Delhi
				551	Private	Unirrigated 3	0.3300	
				503/966	Private	Unirrigated 3	0.0400	
				547	Private	Irrigated	0.0100	Swarandeep Singh S/o Sukhdev Singh by caste Punjabi R/o Plot No 2597/4, Vidampura, Karol Bagh, Delhi
				548	Private	Unirrigated 3	0.1000	
				549	Private	Unirrigated	0.0100	
				550	Private	Unirrigated 3	0.0700	
				486/964	Government	Unirrigated 3	0.1200	Government
				582	Private	Unirrigated 3	0.3200	Sitaram, Ramdayal, Gopal S/o Lala by caste Mali
				583	Private	Unirrigated 3	0.0200	
				584	Private	Irrigated	0.0200	
				585	Private	Irrigated 3	0.1400	
				586	Private	Irrigated 3	0.1500	
				586/948	Private	Unirrigated 3	0.0800	
				587	Private	Unirrigated 3	0.0800	
				608	Private	Unirrigated 3	0.0200	
				609	Private	Unirrigated 3	0.0100	Jagdish, Gopal, Badri S/o Lala 1/4 Bhura S/o Bhoma 1/2 Kishanlal S/o Kaluram 1/8 by caste Meena Kamla Devi W/o Mangilal Choudhary 1/8
				588	Private	Unirrigated 3	0.2500	
				589	Private	Unirrigated 3	0.0100	
				645	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				646	Private	Irrigated 2	0.0100	
				662	Private	Irrigated 2	0.0900	
				663	Private	Irrigated 2	0.0900	Gopi, Narayan S/o Gangabishan by caste Mali Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				649	Private	Irrigated 2	0.0700	Nathi W/o Jainarayan, Chotadevi W/o Jugalkishore, Chotadevi W/o Prahalad by caste Mali
				647	Private	Irrigated 2	0.1600	Gopal, Jagdish, Badri S/o Lala 1/4 Bhura S/o Bhoma 1/2 Kishanlal S/o Kaluram 1/8 Hemlata W/o Chiranjilal 1/8 Brahmin R/o 90 Shriramnagar, Jhotwara
				648	Private	Irrigated 2	0.1600	
				660	Private	Irrigated 2	0.0800	Bhagwan Sahai S/o Vijaylal and Teeja Widow of Vijaylal by caste Mali
				661	Private	Irrigated	0.0200	Lala S/o Shyonarayan 1/8 Kishanlal S/o Ramkunwar 1/16 Ramesh, Ramswaroop, Kamal, Ramratan S/o Nanga, Narayani Widow of Nanga 1/16, Bhura S/o Bhima 1/4, Shravan S/o Ramchandra 1/64, Ramkunwar S/o Chataru 1/64, Heera S/o Balya 1/64, Laxminarayan S/o Teja 1/64, Jainarayan, Jugalkishore, Prahalad S/o Jodha 1/48 Shyamsunder, Ramswaroop, Babulal S/o Panchya, Laxumidevi Widow of Panchya 1/48, Bhagwan S/o Vijaylal, Teeja Widow of Vijaylal 1/48, Gopi, Narayan, Gangabishan 1/8, Bhura S/o Narayan 1/4, by caste Mali
					Private	Irrigated 3	0.0900	
					Private	Unirrigated 1	0.1900	
				731/942	Private	Irrigated 3	0.1100	Kalya S/o Chamana 1/2, Mahadev S/o Ganesh 1/2 by caste Mali
				673/943	Private	Irrigated 3	0.0400	
				732	Private	Unirrigated 1	0.1100	
				664	Private	Unirrigated 2	0.0200	Heera S/o Balu 1/4, Shravan S/o Ramchandra 1/4, Naina Devi Widow of Ramkunwar, Sitaram, Hanuman S/o Ramkunwar 1/4, Laxminarayan S/o Teja 1/4, by caste Mali
				673	Private	Unirrigated 2	0.0800	Heera S/o Balu 1/4, Laxminarayan S/o Teja 1/8, Shravan S/o Ramchandra 1/4 Nainadevi Widow of Ramkunwar, Sitaram, Hanuman S/o Ramkunwar 1/4 by caste Mali Smt. Manisha W/o Mahendra and Rama W/o Narendra Sanadaya by caste Brahmin R/o E-52 Chitrangan Marg, C-Scheme, Jaipur 1/8
				667	Private	Unirrigated 2	0.1400	
				665	Private	Home	0.0200	Heera S/o Balu, Shravan, Ramchandra, Naina Devi Widow of
				666	Private	Unirrigated 2	0.0100	Ramkunwar, Sitaram, Hanuman S/o Ramkunwar, Laxminarayan S/o Teja by caste Mali
				674	Private	Unirrigated 2	0.1300	Heera S/o Balu 1/4, Nainadevi Widow of Ramkunwar, Sitaram, Hanuman S/o Ramkunwar 1/4 Shravan S/o Ramchandra 1/4 Laxminarayan S/o Teja 1/4 by caste Mali
				675	Private	Irrigated 2	0.0300	Ramkunwar S/o Kalu 1/2 Mortgage Kotak Mahendra Bank Murthin Chagna S/o Kalu 1/2 caste Mali
				661/961	Government	Irrigated	0.0100	Government
				743	Private	Irrigated 3	0.0100	Jagdish, Gopal, Badri S/o Lala 1/4 Bhura S/o Bhoma 1/2 Kishanlal S/o Kaluram 1/8 Jagannath Gupta Memorial Education Society by Chairman Manish S/o Jagannath Gupta, Rahini, Delhi 1/8
				736	Private	Irrigated 2	0.1000	Bhagwan Sahai S/o Vijaylal, Teeja Widow of Vijaylal by caste Mali
				738	Private	Irrigated 2	0.1400	
				733	Private	Unirrigated 1	0.0100	Pooran S/o Dhanna And Para widow Dhanna Ram, Ramchandra S/o Mohru share 1/2 And Laxmi Narayan S/o Bhura share 1/2 B/c Mali
				734	Private	Unirrigated 1	0.1100	
				735	Private	Unirrigated 1	0.1400	
				743/939	Private	Irrigated 3	0.4300	Jagdish, Gopal, Badri S/o Lala 1/4, Bhura S/o Bhoma 1/2, Kishanlal S/o Kaluram 1/8, Hemlata W/o Chiranjilal 1/8 Plot No.90, Shriram Nagar Jhotwara, Jaipur
				737	Private	Irrigated 2	0.1100	Jainarayan, Jugalkishore, Prahalad S/o Jodharam and Rama Widow of Jodharam by caste Mali
				725	Private	Irrigated 2	0.0500	
				739	Private	Irrigated 2	0.1400	Nathi W/o Jainarayan, Chota Devi W/o Jugalkishore, Chota Devi W/o Prahalad by caste Mali
				740	Private	Irrigated 2	0.0500	Heera S/o Balu 1/4 Shravan S/o Ramchandra 1/4 Nainadevi Widow of Ramkunwar, Sitaram, Hanuman S/o Ramkunwar 1/4 Laxminarayan S/o Teja 1/4 by caste Mali
				741	Private	Irrigated 2	0.1200	
				741/945	Private	Irrigated 2	0.0900	Dhanna S/o Ghasi B/c Mali
				742	Private	Irrigated	0.0400	Jagdish, Gopal, Badri S/o Lala 1/4 Bhura S/o Bhoma 1/2 Kishanlal S/o Kaluram 1/8 Jagannath Gupta Educational Society by Chairman Manish Gupta S/o Jagannath Gupta, Rohini, Delhi Share 1/8
				849	Private	Irrigated 3	0.0800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				836/938	Private	Unirrigated 2	0.0800	Jagdish, Gopal, Badri S/o Lala 1/4 Bhura S/o Bhoma 1/2 Kishanlal S/o Kaluram 1/8 By Cast Mali, Kamla Devi W/o Mangi Lal Choudhary share 1/8 B/c Jat R/o Kothun
				824	Private	Unirrigated 2	0.3200	Para Devi W/o Gyarasi Lal Jogi Narsinghpura Tehsil
				746	Private	Unirrigated 2	0.3800	Sangner 126/182, Ramkunwar S/o Kalu 28/182 Chagna
				827	Private	Unirrigated 2	0.0500	S/o Kalu 28/182 by caste Mali
				808	Private	Unirrigated 2	0.0500	Praveen Kumar S/o Babulal, Sanjay Kumar S/o Bhagchand Jain Chaksu 119/125 D.C. Patni s/o Anandilal jayanti Patni 6/125 Jaipur
				809	Private	Unirrigated 2	0.4000	Teeja Widow of Vijaylal Mali 1/2 Usha W/o Ashok by caste Agrawal 1/2 Chaksu
				823	Private	Unirrigated 2	0.1500	Jugalkishore, Prahalad S/o Jodharam 1/2 by caste Lodha Jaisinghpura, Heeralal S/o Pomraj by caste Mahajan R/o Kabir Marg, Banipark, Jaipur 1/2
				819	Private	Unirrigated 2	0.3300	Shankar Lal S/o Hari Narayan B/c Mali, Praveen Kumar S/o Babulal, Sanjay Kumar S/o Bhag Chand Jain, Avadh Bihari S/o Ramji Lal Sharma, share 214/224, R/o Chaksu, Lalita Devi W/o Rajendra Kumar Jain, share 10/224, R/o Ghee Walon Ka Rasta, Johri Bazar, Jaipur
				810	Private	Irrigated 2	0.0800	
				811	Private	Irrigated 2	0.0500	
				812	Private	Unirrigated 2	0.0400	
				813	Private	Unirrigated 2	0.0800	
				816	Private	Irrigated	0.0400	
				817	Private	Irrigated 2	0.1900	
				818	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				732/940	Private	Unirrigated 1	0.0200	Ram Narayan S/o Rampal B/c Mali, Khatedar
				503	Government	Unirrigated 1	0.1600	Government
				481/1	Government	Unirrigated	0.1100	Government
				482	Government	Irrigated	0.0200	Government
				480	Government	Drain	0.0050	Government
		(21) Mahachandpura		817	Government	Unirrigated	0.2500	Government
				849	Private	Unirrigated 2	0.0600	Mrs. Sita Sharma W/o Khetendra Sharma by caste Brahmin
				848	Private	Unirrigated 2	0.0300	R/o Jaipur
				850	Private	Irrigated 3	0.0700	Ratan Devi W/o Shyamlal Agarwal by caste Mahajan R/o
				847	Private	Irrigated 3	0.0400	Jaipur
				851	Government	Unirrigated	0.1000	Government
				852	Government	Unirrigated 2	0.0800	
				837	Private	Unirrigated	0.0300	Ramsukh, Ramjilal, Devkaran S/o Lal by caste Balai Khatedar
				853	Government	Unirrigated 2	0.0200	Government
				854	Government	Unirrigated	0.0700	
				857	Government	Unirrigated	0.0100	
				856	Government	Unirrigated	0.0200	
				855	Government	Unirrigated	0.0100	
				875	Government	Road	0.0100	Government
				877	Private	Unirrigated 2	0.0700	Harinarayan S/o Shyonarayan Jat Khatedar
				878	Private	Road	0.1000	
				879	Private	Road	0.0600	
				880	Private	Unirrigated 2	0.0500	
				881	Private	Unirrigated 2	0.0800	Shyaji S/o Kalyan Balai 101/203, Bharat Lakhiwal S/o Suwalal Lakhiwal by caste Balai R/o Jaipur Share 102/203
				883	Private	Unirrigated 2	0.0100	
				900	Government	Unirrigated 2	0.0500	Government
				901	Government	Road	0.0500	
				902	Government	Road	0.0600	
				903	Private	Pit	0.1700	Shanti Devi W/o Gopinath by caste Bairwa
				907/919	Private	Unirrigated 2	0.0300	Ramu, Pratap, Shyaji S/o Kalyan 3/4 by caste Balai, Maina Devi W/o Ramesh Chand by caste Balai 1/4
				906	Private	Unirrigated 2	0.0100	Shanti Devi W/o Gopinath by caste Bairwa
				904	Private	Residential / Industrial	0.1300	
				798	Government	Abadi	0.1000	Abadi Land
				797	Government	Road	0.0100	Government
				795	Government	Unirrigated 2	0.0900	
				794	Private	Unirrigated 2	0.0400	Ramswaroop S/o Kishna by caste Jat Khatedar
				804	Government	Unirrigated	0.0500	Government
				818	Private	Unirrigated 2	0.0100	Mrs. Sita Sharma W/o Khetendra Sharma by caste Brahmin R/o Jaipur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				841	Private	Irrigated 3	0.0050	Ratan Devi W/o Shyamlal Agarwal by caste Mahajan R/o Jaipur
			(22) Kouthoon	57	Private	Unirrigated 3	0.1300	Bajranga S/o Srikishanlal Share 1/8, Lala, Ladu, Gora S/o Dola Share 1/8, Bhura, Jagdish S/o Rampal 1/36 Ramniwas S/o Ramkunwar 1/36 Kishanlal Jagdish 1/36 Ramgopal Jamnalal s/o Chanda, Ghasi, Lala s/o Ramnarayan 1/12 Mangilal Ramlal s/o Kalyan 1/12 Harinarayan Madho 1/24 Rampal s/o Ramnath 1/24 Ramras s/o Ramkalyan 1/24 Bhura s/o Goru 1/24 Hajan Jareena Bano w/o Hajimohammad Haneef 42/168 Rampyari w/o Girraj prasad 44/168 Ramkaran, Ramkishore, Bajrang Lal S/o Radha Kishan 29/807, Kamladevi w/o Mangilal 70/807 Nirmala w/o Mahendra Brahman 5/48
				58	Government	Road	0.0050	Government, Road
				1598	Government	Road	0.0600	
				2111	Government	Road	0.0300	
				73	Private	Unirrigated 2	0.0500	Narendra Kumar S/o Bhanwarlal Sanadaya Share 73/78, Smt. Nirmala Sanadaya 5/78 @ 1/3 Ramrakh, Ramkishan s/o Ramratan 1/6 Ramjeewan s/o Ramratan 1/6 Heera, Harinarayan, Jagdish s/o Onkar 1/3
				74	Private	Unirrigated 2	0.0050	Ramkishore S/o Hajari Share 1/3, Suresh S/o Jagdish, Rukaya Widow of Jagdish by caste Jat Share 1/3, Rameshwar S/o Hajari Share 1/3 Mortgage Jaipur Nagor Anchlik Bank Brnach Kothun
				75	Private	Unirrigated 2	0.0100	Ambalal, Ramswaroop S/o Bajranga, Raja Widow of Bajranga by caste Jat
				76	Private	Unirrigated 2	0.0050	Ramdayal, Ramlal S/o Kalu, Gheesi Widow of Kaluram by caste Jat
				77	Private	Unirrigated 2	0.0100	Narendra Kumar S/o Bhanwarlal Sanadaya Share 73/78, Mrs. Nirmala Sanadaya Share 5/78 @ 1/3 Ramrakh, Ramkishan S/o Ramratan 1/6 Ramji Lal S/o Ramratan Share 1/6 Heera, Harinarayan, Jagdish s/o Onkar Share 1/3
				79	Private	Unirrigated 2	0.0050	
				80	Private	Unirrigated 2	0.0050	
				81	Private	Unirrigated 2	0.0050	Mulchand S/o Goru by caste Jat Mortgage Jaipur Jila Sahkari Bank Murtheen
				82	Private	Unirrigated 2	0.0100	Narendra Maan S/o Dayakishan Maan by caste Jat
				83/1	Private	Unirrigated 2	0.0200	
				83/3	Private	Unirrigated 2	0.0050	
				178	Private	Irrigated 3	0.0800	Ramrai, Ramkishore, Gendilal, Hajari S/o Ramniwas Goriya, Gopal S/o Raghunath by caste Jat
				226	Private	Canal	0.0400	Goru S/o Rughnath by caste Jat
				227	Private	Canal	0.0100	
				228	Private	Irrigated 2	0.0900	Mangilal S/o Kalyan Share 5/12 Mortgage Bank, Jyana Widow of Kalyan Jat Share 1/6, without Mortgage, Ram Lal S/o Kalyan Caste Jat 5/12 Mortgage Jaipur Nagor Anchlik Bank Branch Kothun
				229	Private	Unirrigated 1	0.0300	Without Mortgage Ramlal S/o Kalyan by caste Jat
				230	Private	Unirrigated 1	0.1100	
				231	Private	Unirrigated 1	0.0400	
				245	Private	Irrigated 1	0.0300	
				246	Private	Irrigated 1	0.0300	Omkar, Ramgopal, Ramlal S/o Bajranglal, Jhamari Widow of Bajranglal 1/2 Jagdish S/o Gangaram 1/2 by caste Jat
				1021/2578	Private	Road	0.0900	
				247	Private	Irrigated 1	0.0200	
				1368	Private	Irrigated A	0.1200	Jagdish S/o Gangaram 26/29 Navalkishore S/o Shivpratap Brahmin, Harinarayan S/o Shrvanlal Yogi, Rajrani W/o Chandrashekar Sharma Share 3/29
				1369	Private	Irrigated A	0.1400	Navalkishore S/o Shivpratap Share 1/3 Haryana Brahmin, Harinarayan S/o Shrvanlal Yogi Share 1/3 Residence Bilwa Rajrani W/o Chandrashekar Sharma Share 1/3 Residence Jaipur
				251	Private	Irrigated 1	0.0500	Sawaliya S/o Chittar by caste Baghriya R/o Vimalpura Tehsil Sanganer
				1360	Private	Irrigated A	0.3300	Jagdish, Narayan, Laxminarayan S/o Ramniwas Sharma by caste Brahmin R/o Durgapura Jaipur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				252	Private	Irrigated I	0.0300	Mulchand S/o Goriya 1/4 Mortgage Jaipur Jila Sahkari Bhumik Vikas Bank Sitaram, Shankar, Suresh S/o Maharam
				253	Private	Irrigated I	0.0400	Dhakha Widow of Maharam 1/4 Laxman s/o Syonarayan 1/4 Rampyari widow Kishna 1/4 cast Jat
				256	Private	Irrigated I	0.0400	Badrinarayan S/o Ramsukh by caste Bagda Brahmin R/o Rampura Tehsil Sanganeer
				257	Private	Irrigated A	0.0200	Ramkishore, Ramkaran, Bajranglal S/o Radhakishan by caste Jat
				260	Private	Irrigated A	0.0500	Temple Shri Laxminarayan ji
				261	Private	Irrigated A	0.0700	
				267	Private	Irrigated A	0.0600	
				1374	Private	Irrigated A	0.2300	
				1373	Private	Irrigated A	0.0500	
				1580	Private	Unirrigated A	0.0400	
				1579	Private	Unirrigated A	0.0600	
				2235	Private	Unirrigated A	0.0200	Mulchand, Laxman, Rameshwar S/o Ramniwas
				268	Private	Irrigated	0.0100	Mulchand, Laxman, Rameshwar S/o Ramniwas 1/2 Devilal S/o Ramrakh and Ramsahai S/o Sohan Lal 1/2 by caste Jat
				269	Private	Banjar	0.0300	
				1355	Private	Irrigated A	0.1600	Satyanarayan S/o Pokhar Share 1/3, Madanlal S/o Sriya Share 1/3, Kamla Widow of Ramkaran, Ganesh Adopted Son Ramkaran Share 1/3 caste Jat Mortgage Jaipur Nagor Anchlik Gramin Bank Branch Kothun
				1353	Private	Irrigated A	0.1200	Government Road
				1358	Government	Road	0.2200	
				1352	Private	Irrigated A	0.0400	Ramrakh S/o Ramjeevan 1/2 Omkar Ramlal, Ramgopal S/o Bajrang Lal, Jhamari Widow Bajranglal 1/4 Mortgage Jaipur Nagor Anchlik Gramin Bank Branch Kothun Jagdish S/o Gangaram 1/4 caste Jat
				1361	Private	Irrigated A	0.2700	Jagdishnarayan, Laxminarayan S/o Ramniwas Sharma R/o Durgapura
				1505	Private	Irrigated A	0.0900	Rameshwar S/o Ramchandra by caste Jat
				1510	Private	Irrigated A	0.0800	Harwari Widow of Ghasi, Rameshwar, Ramdhan, Ramlal S/o Kalu by caste Jat
				2289	Private	Unirrigated I	0.1800	Shivajiram Adopted Son Kalyan by caste Jat
				1518	Private	Irrigated A	0.0100	
				1520	Private	Irrigated A	0.0900	Jagdish, Ramniwas S/o Bhura Share 1/2, Ramkishore, Badrinarayan, Rameshwar, Ramprasad, Ramdayal S/o Ganesh caste Jat Share 1/2
				2419	Private	Unirrigated I	0.3200	Shrinarayan S/o Sukhdev by caste Jat
				1537	Private	Irrigated A	0.0900	
				1544	Private	Irrigated A	0.0050	Sita Ram S/o Ramchandra 1/2 Mortgage Jaipur Jila Bhumik Vikas Bank Branch Chaksu, Ramprasad Ramswaroop s/o Laxminarayan 1/10 Ramkaran, Ramavtar s/o Laxminarayan 1/10 Ghisi widow Laxminarayan 1/20 Jamna devi w/o Jagdish narayan 1/6 Ramprashad Ramswaroop Ramkaran Ramavtar s/o Laxminarayan 1/12 cast Jat
				1546	Private	Irrigated A	0.0500	Ramkishore S/o Madho Jat
				1536	Private	Irrigated A	0.0200	Shankar Lal S/o Chunni Lal Caste Bhramin Share 17/18 Kaushalya Devi W/o Mulchand, Ramesh, Shriram, Mitthu S/o Mulchand Share 1/18 @1/2 Ramprasad Govindnarayan Badrinarayan s/o Harinarayan, Swaroopa widow Harinarayan, Ramkishor s/o Madho cast Jat Share 1/2
				1589	Private	Irrigated	0.0200	Kailash, Bajranglal S/o Laxminarayan, 1/24 Harinarayan Ramkishor Mulchand s/o Madho 7/36 Dhanni W/o Ramkaran, Hanuman, Giriraj S/o Ramkaran, 55/288 Ramnarayan 41/288 Badri s/o Ramnarayan 7/144 Rameshwar s/o Ramchandra 41/144 Sukhdev, Jagdish Ramsahay s/o Syonarayan 7/72 cast Jat
				1594/2601	Private	Irrigated A	0.0800	Ramrai S/o Ramnarayan Share 1/3, Rukmani Devi W/o Radheysaran Share 1/3, Giriraj, Hanuman S/o Ramkaran by caste Jat, Dhanni W/o Ramkaran Share 1/3 Mortgage Jaipur Thar Gramin Bank
				1594	Private	Irrigated A	0.2000	Kailash Chand, Bajrang Lal S/o Laxminarayan by caste Jat
				1581	Private	Irrigated A	0.0700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1582	Private	Irrigated	0.0150	Harbai Widow Ghasi, Rameshwar, Ramdhan, Ramlal S/o Kalu Share 1/4, Rampal S/o Ghasi 1/4 Kailash, Bajranglal S/o Laxminarayan Jat Share 1/2
				1611	Private	Unirrigated A	0.2100	Ramkaran S/o Ghasi 1/2 Jagdish, Harinarayan S/o Kalu and Ganga Widow of Kalu 1/2 Jat
				1610	Private	Unirrigated A	0.1600	
				1613	Private	Irrigated 1	0.0600	
				1614	Private	Irrigated 1	0.0500	
				1612	Private	Irrigated 1	0.1000	Gitadevi W/o Ramswaroop, 1/2 Ramdayal S/o Shribaksh by caste Jat Share 1/2
				2214	Private	Unirrigated A	0.1500	Mrs. Ayodhya Devi W/o Suresh Chand 29/310, Madho S/o Dunga 263/310 Subhash and Dholiya S/o Ramkalyan, 6/125 Gopal S/o Raghunath 2/155 Surajmal s/o Jaimal 1/155 cast Jat
				2202	Private	Unirrigated A	0.0700	Radhakishan, Ramsahai S/o Goru by caste Jat
				2203	Private	Unirrigated A	0.0400	Mulchand S/o Goriya Share 1/4 Mortgage Jaipur Jila Sahkari Bank Branch Chaksu, Sitaram, Shankar, Suresh S/o Maharama 1/4 Laxman S/o Shyonarayan Share 1/4 Rampyari Widow of Kishna 1/4 by caste Jat
				2434	Private	Unirrigated A	0.0500	Kaushalya W/o Mulchand, Ramesh, Shriram, Mitthu S/o Mulchand, Ramprasad, Govind, Badrinarayan S/o Harinarayan Swaroopa widow of Harinarayan, Ramkishor s/o Madho Share 1872/1900, Syojiram s/o Rameshwar Share 1/2 Smt. Dhapu devi w/o Ranglal jat Share 1/2 @ 28/1900
				2433	Private	Unirrigated A	0.0500	Madho S/o Gangabishan Share 1/7, Jannalal S/o Laxminarayan, Share 1/14, Badrinarayan, Kailash S/o Ramkalyan Share 1/7, Gopal, Kalu, Bajranga S/o Lal caste Jat Share 3/7 Gorilal s/o Laxminarayan Share 3/14
				2436	Private	Unirrigated 1	0.0200	Laxminarayan S/o Uda by caste Jat
				2418	Private	Unirrigated 1	0.1400	Ramdhan S/o Harinarayan, Gheesi W/o Harinarayan Ramrakha s/o Uda, Tulsi ram Onkar s/o Ramkaran cast Jat, Laxmi Narayan S/o Uda Caste Jat
				2417	Private	Unirrigated 1	0.0500	Laxminarayan, Ramraksh S/o Uda, 1/2 Ramdhan S/o Harinarayan, Gheesi W/o Harinarayan 1/4 Tulsi ram Madan Onkar s/o Ramkarna 1/4
				762	Private	Unirrigated 1	0.0600	Ramraksh S/o Uda by caste Jat
				760	Private	Unirrigated 1	0.0100	Tulsiram, Madan, Omkar S/o Ramkaran by caste Jat
				758	Private	Unirrigated 1	0.0050	Laxminarayan S/o Uda Jat
				755	Private	Unirrigated 1	0.0200	Ramdhan S/o Harinarayan, Gheesi W/o Harinarayan jat
				2309	Private	Unirrigated 1	0.0900	Tulsiram, Madan, Omkar S/o Ramkaran, Ramraksh S/o Uda Jat, Sanjida Begam W/o Abdul Hakim Cast Muslim
				2310	Private	Unirrigated 1	0.0800	Laxminarayan S/o Uda Jat
				1053	Private	Irrigated 3	0.0050	Tulsiram, Madan, Omkar S/o Ramkaran Rupa w/o Jagdish Birma w/o Bajrangsinah Lodha Jeewanpur
				2307	Private	Unirrigated 1	0.2100	Narayan, Shyojiram, Ramprasad, Madan S/o Ghasi Jat
				2266	Private	Unirrigated 1	0.0500	
				2263	Private	Unirrigated 1	0.0200	
				2271	Private	Unirrigated 1	0.2200	Ayodhya Devi W/o Ramkishore Share 1/7, Mohani Devi W/o Ramdayal Share 1/7, Mathura Devi W/o Jagdish Narayan Share 1/7, Premdevi W/o Shankarlal, Sumitra Devi W/o Suresh Kumar caste Jat Share 1/7, Chandakiran W/o Mahesh Kumar Share 1/7, Noti Devi W/o Rameswar cast Lakhera Share 1/7, Lalli devi w/o Tulsiram by caste
				2272	Private	Unirrigated 1	0.0300	Brahmin Narayan, Syojiram, Ramprasad, Madan S/o Ghasi Jat Neelam Nagpal w/o Rakesh Nagpal 1/3, Bina Balan W/o Satish Balan Share 1/3, Swati Jain W/o Rajendra Singh Jain Share 1/3 Residence Jaipur
				2260	Private	Unirrigated	0.0100	Bajranglal Jagdish narayan, Laxman s/o Ramniwas Bajranga s/o Sonya Jat
				2262	Government	Ground	0.0200	Government Secondary School Kouthoon
				2273	Private	Unirrigated 1	0.0600	Ratiram, Ramraksh S/o Jagdish Narayan Jat Mortgage Jaipur Thar Gramin Bank
				2276	Private	Unirrigated 1	0.0800	Badrinarayan S/o Ramniwas Jat
				2274	Private	Unirrigated 1	0.0800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2275	Private	Unirrigated 1	0.0900	Ratiram, Ramrakh S/o Jagdish Narayan Jat Mortgage Jaipur Thar Gramin Bank
				2280	Government	Unirrigated 1	0.3200	Ministry of Road, Transport & Highways Government of India 48/233 Rajaram S/o Shravan 185/223
				2281	Private	Unirrigated 1	0.0200	Rajaram S/o Shravan Lal by caste Jat
				2282	Private	Unirrigated 1	0.1800	Ambalal, Ramlal, Rampal S/o Hari Narayan 3/8 Mortgage Jaipur Nagor Anchlik Gramin Bank, Rampyari widow of Harinarayan 1/8 Kana s/o Jagannath 1/2 Jat Residence Kothun Mortgage Jaipur Nagor Anchlik Gramin Bank
				787/2	Private	Unirrigated 1	0.0700	Sitaram, Ramrakh S/o Bhura, Bhuli Widow of Bhura by caste Jat
				787/1	Private	Petroleum	0.0100	Anil Kumar Gupta S/o Hukam Chand Gupta
				2308	Private	Unirrigated 3	0.2100	Rameshwar, Ramkishore S/o Hajari, Suresh S/o Jagdish Rukma widow Jagdish Ambalal, Ramswaroop S/o Bajranga Raji widow of Bajajang Lal Kalu s/o Radha kishan, Ramras s/o Ramniwas 1/12 Ghasi s/o Shriya, Badri s/o Ramrakh, Badri s/o Mangla 1/72 Gulabdevi w/o Panchu, Ramprahlad s/o Panchu 1/3 Ghasi s/o Rodu 1/72 Kesharlal s/o Madho, Gendilal s/o Sukhdev 1/3 Lachha s/o Balya 1/36 Bajinath, Ramphool Kana Share 1/36 Jagdish Ramniwas s/o bhura 3/64 Ramkishor Badrinarayan Rameshwar prashad Ramdayal s/o Ganesh 1/16 @ 1/8 Tulsiram Madan Onkar s/o Ramkaran 1/144 Laxminarayan Harinarayan Ramrakh s/o Uda 3/144 Shivjiram s/o Laxminarayan 1/36 Ramrakh s/o Ganesh 5/16 Lalchand s/o Ramrai 333/9024 Ramkam s/o Bhura 1/32 Badri s/o Kalyan Govindnarayan Girdharilal Shivraj s/o Birdhichand 1/8 cast Jat
				1024	Private	Unirrigated 3	0.1300	Bajranga S/o Shri Kishan 1/8 Lala, Ladu, Goru S/o Dhola 1/8 Bhura, Jagdish S/o Rampal, 1/36 Ramniwas S/o Ramkunwar 1/36 Ramgopal, Jamnalal s/o Chanda, Ghasilal s/o Ramnarayan 1/12 Mangilal, Ranglal s/o Kalyan 1/12 Harinarayan s/o Madho 1/24 Rampal s/o Ramnath 1/24 Ramras s/o Ramkalyan 1/24 Bhura s/o Goru 1/24 Hasan Jarina Bano w/o Haji mohammad Hanif 42/168 Rampyari w/o Girajprasad 44/168 Ramkaran Ramkishor Bajranglal s/o Radhakishan 1029/807 kamla devi w/o Mangilal 70/807 Nirmala w/o Mahendra kumar Brahman Share 1/16
				1037	Private	Unirrigated 3	0.1300	
				1038	Private	Unirrigated 3	0.1100	
				1039	Private	Unirrigated 3	0.0200	Badri, Ladu, Rameshwar S/o Kalu, 1/3 Shyaji S/o Ramrakh Share 1/5 Ramkaran RamChandra S/o Ramrakh Share 2/15 Para w/o Pratap Kishanlal s/o Pratap 1/9 sitaram s/o Ramchandra 1/18 Goriya s/o Rugnath 1/54 Gopal s/o Ragunath 1/54 Ramrai Ramkishor Gendilal Hajari s/o Ramniwas 1/54 Shri Narayan s/o Sukhdev 1/18 Ramprasad Ramswaroop Ramkaran Ramavtar s/o laxminarayan Ghisi Devi W/o Laxminarayan 1/36 Galkhu w/o Bajranglal, Sita devi, Geeta devi, Priyanka D/o Bajaranga 2/3 Ramprasad Ramswaroop Ramkaran Ramavtar s/o Laxminarayan 1/3 @ 1/36 Cast Jat
				1052	Private	Unirrigated 3	0.8500	Badri, Ladu, Rameshwar S/o Kalu, 31/244 Mukesh Vikas s/o Ramavtar 50/244 dar hi 1/3 Syoji s/o Ramratan 4/15 Ramkaran s/o Ramrakh 1/15 Sitaram s/o Ramchandra 1/18 Para w/o Pratap Kishanlal s/o Pratap 1/9 Ramrai Ramkishor Gendilal Hajari s/o Ramniwas 1/54 Goriya s/o Ragunath 1/54 Gopal s/o Ragunath 1/54 Shri Narayan s/o Sukhdev 1/18 Ramprasad Ramswaroop Ramrakh Ramavtar s/o laxminarayan Ghisi w/o Laxminarayan 1/36 Galku w/o Bajaranga 2/3 Sita, Gita Priyanka D/o Bajaranga Share 2/3 Ramprasad Ramswaroop Ramkaran s/o Laxminarayan 1/3 @ 1/36
				1070	Private	Unirrigated 3	0.1500	Gyarasi Widow of Rampal, Kanaram S/o Rampal by caste Jat
				1071	Private	Unirrigated 3	0.0900	
				1072	Private	Irrigated 3	0.1500	
				1080	Private	Irrigated 3	0.0600	Ramprasad S/o Rama 1/4 Mortgage Jaipur Thar Gramin Bank Branch Kothun, Rama s/o Dola 1/4 Mortgage Jaipur Thar Gramin Bank Kothun Ramniwas Prabhu s/o Dola 1/2 Cast Jat
				1081	Private	Irrigated 3	0.1100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1082	Private	Unirrigated 2	0.3000	Ramprasad S/o Rama Share 1/4 Mortgage Jaipur Thar Gramin Bank Branch Kothun Rama S/o Dola Share 1/4 Mortgage Jaipur Thar Gramin Bank Kothun Ramniwas Prabhu S/o Dola Share 66/82 Cast Jat Rukmani Devi W/o Radhesaran Cast Mahajan Gourav S/o Harish Gupta Share 16/82 @ 1/2
				1083	Private	Unirrigated 2	0.0600	Gaurav Gupta S/o Harish Gupta Share 1/2, Ramprasad S/o Rama Share 1/4 Mortgage Jaipur Thar Gramin Bank Kothun
				1084	Private	Unirrigated 2	0.1000	Rama S/o Dola Share 1/4 Cast Jat Mortgage Jaipur Thar Gramin Bank Kothun
				1085	Private	Unirrigated 2	0.1000	
				1086	Private	Unirrigated 2	0.1300	
				1119	Government	Drain	0.2000	Government Rivers and Drains
				1337	Government	Unirrigated 2	0.2000	Banjar Government
				1358	Government	Road	0.2300	Road
				1356	Private	Unirrigated 2	0.0400	Madanlal S/o Shriya Share 1/3, Kamia Widow Ramkaran, Ganesh Adopt Son Ramkaran Share 1/3 Mortgage Jaipur Nagor Gramin Bank Kothun Satyanarayan S/o Pokhar Share 1/3
				1355	Private	Irrigated A	0.1700	
				1372	Private	Irrigated A	0.0200	
						Total	159.7750	

[F. No. NHAI/RO/RKS/12/2009]

PRABHAKAR, Dy. Secy.